



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5110]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 2018/पौष 8, 1940

No. 5110]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 2018/PAUSHA 8, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6365(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3697 (अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में 27 जुलाई, 2018 को प्रकाशित की गई थी, तथा का.आ. 5679 (अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में 12 नवम्बर, 2018 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के कैथल जिले में नए इस्माईलाबाद (गंगहेडी) - नारनौल राष्ट्रीय राजमार्ग के कि.मी. 15 से कि.मी. 50 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने/पेव्ड शोल्डर सहित 4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और का.आ. 3697(अ) दिनांक 27 जुलाई 2018 ,अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "9 अगस्त 2018" को "द ट्रिब्यून" और "अमर अजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था तथा का.आ. 5679 (अ) दिनांक 12 नवम्बर, 2018, अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17 नवम्बर, 2018 " को "हरि भूमि" और "अमर अजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के कैथल जिले में नए इस्माईलाबाद (गंगहेडी) - नारनौल राष्ट्रीय राजमार्ग के कि.मी. 15 से कि.मी. 50 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा		जिले का नाम: कैथल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: ढाण्ड				
	गांव का नाम: खेड़ी मटरवा				
1	37//24	निजी	कृषि	0.0329	सुशील कुमार - सतपाल - पवन कुमार पुत्रान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 3/4 भाग जिले सिंह पुत्र रामकिशन पुत्र मंगल 683/3300 भाग श्रीमती शांति देवी पत्नी पवन कुमार पुत्र रामकिशन 1/33 भाग श्रीमती चांद कौर पत्नी सतपाल पुत्र रामकिशन 1/165 भाग श्रीमती अनिल कुमारी पत्नी जिले सिंह पुत्र रामकिशन 1/150 भाग वासीदेह (37//24)
	तालुक का नाम: फतेहपुर पूण्डरी				
	गांव का नाम: बरसाना				
1	41//1	निजी	कृषि	0.0152	भाग सिंह पुत्र फुल्ला (41//1)
2	41//10	निजी	कृषि	0.09105	रमेशपाल - सुरेंद्र सिंह पुत्रान साधु पुत्र भुला हर दो समभाग 1/3 भाग सन्तोष देवी विधवा नफे सिंह पुत्र साधु 1/6 भाग

					सुरेश कुमार पुत्र रामधारी पुत्र भुल्ला 1/2 भाग वासीदेह (41//10)
3	41//11	निजी	कृषि	0.0202	रमेशपाल - सुरेंद्र सिंह पुत्रान साधु पुत्र भुला हर दो समभाग 1/3 भाग सन्तोष देवी विधवा नफे सिंह पुत्र साधु 1/6 भाग सुरेश कुमार पुत्र रामधारी पुत्र भुल्ला 1/2 भाग वासीदेह (41//11)
4	63//4/1	निजी	कृषि	0.1341	श्रीमती फुलो देवी विधवा व हवा सिंह - इस्म सिंह - बंसी लाल पुत्रान व सन्तरो - मेवा रानी पुत्रियान साधु पुत्र नेतु हर छह संमभाग वासीदेह (63//4/1)
5	63//4/2	निजी	कृषि	0.0101	श्रीमती फुलो देवी विधवा व हवा सिंह - इस्म सिंह - बंसी लाल पुत्रान व सन्तरो - मेवा रानी पुत्रियान साधु पुत्र नेतु हर छह संमभाग वासीदेह (63//4/2)
6	63//14	निजी	कृषि	0.0008	नन्हा राम पुत्र तुहीया पुत्र हरभज 1014/1709 भाग विजय कुमार पुत्र चन्दा राम पुत्र तुहीया 922/5127 भाग सियाराम पुत्र चन्दाराम पुत्र तुहीया 214/1709 भाग श्रीमती सुमन देवी विधवा दयाराम पुत्र चंदा राम पुत्र तुहीया 521/10254 भाग विवेक - हितेश पुत्रान दयाराम पुत्र चन्दाराम हर दो समभाग 521/10254 भाग वासीदेह (63//14)
7	86//10	निजी	कृषि	0.0025	शिव कुमार 166/15147 भाग जसवीर सिंह 6/15147 भाग पुत्रान अन्तु पुत्र बधाऊ -चन्दा - सुल्तान - सुल्तान - बलवीर - कर्मसिंह पुत्रान बधाऊ हर पांच संमभाग 2721/15147 भाग धर्मराज - प्रदीप कुमार पुत्रान पाला पुत्र बधाऊ हर दो समभाग 544/15147 भाग अन्तु पुत्र बधाऊ 4/15147 भाग श्रीमती टिड्डो -

					<p> शांति - प्रेमो पुत्रियान व श्रीमती भूरो विधवा बधाऊ हर चार समभाग 16/15147 भाग ईशम 1034/15147 भाग रणवीर सिंह 923/15147 भाग पुत्रान फूला पुत्र मुंशी - जसवीर सिंह पुत्र फूला पुत्र मुंशी 523/15147 भाग श्रीमती सरोज बाला पत्नी जसवीर सिंह पुत्र फूला 552/15147 भाग श्रीमती राजबाला पत्नी ईशम पुत्र फूला 40/15147 भाग श्रीमती कमलेश पत्नी रणवीर पुत्र फूला 152/15147 भाग शेर सिंह पुत्र रामजी लाल पुत्र कुन्दन 534/15147 भाग बनारसी पुत्र कन्हैया पुत्र रामरिख 162/15147 भाग - रोशन लाल - ईश्वर सिंह पुत्रान बनारसी पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 956/15147 भाग - नरेंद्र - सुरेश पाल - महिपाल पुत्रान रंगी पुत्र कन्हैया हर तीन समभाग 3/15147 भाग श्रीमती मनोहरी पत्नी रंगी पुत्र कन्हैया 14/15147 भाग धीरा पुत्र हिरदा पुत्र कुन्दन 326/15147 भाग जसवंत पुत्र हिरदा पुत्र कुन्दन 524/15147 भाग सतपाल पुत्र हिरदा पुत्र कुन्दन 405/15147 भाग गिनना पुत्र हिरदा पुत्र कुन्दन 542/15147 भाग ईश्वर - कृष्णलाल - सुरेन्द्र कुमार - छतर पाल पुत्रान गिनना राम पुत्र कुन्दन हर चार समभाग 1275/15147 भाग बलवान सिंह - भीम सिंह पुत्रान चतरू पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 757/15147 भाग सुवे सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र कन्हैया 243/15147 भाग महिन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र कन्हैया 207/15147 भाग श्रीमती राममूर्ति पत्नी अमर सिंह पुत्र कन्हैया 80/15147 भाग कुलदीप पुत्र वजीर सिंह पुत्र अमर सिंह 164/15147 भाग राजेन्द्र कुमार - जितेन्द्र कुमार पुत्रान श्रीचन्द पुत्र रामजी लाल हर दो समभाग 898/15147 भाग जयकर्ण - सुभाष </p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					पुत्रान मेवा राम पुत्र रामजी लाल हर दो समभाग 405/15147 भाग राजेश कुमार - सतीश कुमार पुत्रान सुखदेवी विधवा मेवा राम हर दो समभाग 53/15147 भाग श्रीमती जीतकौर विधवा व कर्णजीत - दिनेश कुमार पुत्रान व संतोष - सुषमा पुत्रियान जिले सिंह पुत्र कन्हैया लाल हर पांच समभाग 507/15147 भाग श्रीमती सोना देवी पत्नी मुल्तान सिंह पुत्र बधाऊ 166/15147 भाग नफे सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र कन्हैया 84/15147 भाग श्रीमती मामो देवी पत्नी बलबीर सिंह पुत्र बधाऊ 80/15147 भाग सविना देवी पत्नी विकास पुत्र सुल्तान सिंह 40/15147 भाग श्रीमति बिमला देवी पत्नी कर्मसिंह पुत्र बधाऊ 40/15147 भाग वासीदेह (86//10)
8	240	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0228	ग्राम पंचायत (240)
गांव का नाम: चन्दलाना					
9	25//21/1	निजी	कृषि	0.0329	बलविन्द्र सिंह - नरिन्द्र सिंह - अमरीक सिंह पुत्रान सिंगारा सिंह पुत्र भान सिंह हर तीन समभाग वासीदेह (25//21/1)
10	25//21/2	निजी	कृषि	0.0076	किरणपाल सिंह - प्रितीपाल सिंह पुत्रान कश्मीर सिंह पुत्र सुरजन सिंह हर दो समभाग 13284/16505 भाग कश्मीर सिंह पुत्र सुरजन सिंह पुत्र मुल्ला सिंह 3221/16505 भाग वासीदेह (25//21/2)
11	25//22/1	निजी	कृषि	0.0101	धर्म सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र राम सिंह 11/146 भाग कुलबीर सिंह - बलविन्द्र सिंह - कश्मीर सिंह - सतपाल सिंह पुत्रान धर्म सिंह पुत्र मोहन सिंह हर चार समभाग 2/73 भाग अजीत सिंह - संतोख सिंह पुत्रान हर दो समभाग 5/146 भाग सुचा सिंह 3/292 भाग मलकियत सिंह पुत्र गुरबचन सिंह पुत्र बसावा सिंह 5/292

					<p>भाग श्रीमती दलबीर कौर पुत्री दर्शन सिंह पुत्र भान सिंह 23/748 भाग जसबीर कौर पुत्री दर्शन सिंह पुत्र भान सिंह 73/2244 भाग जसबीर सिंह - सुखजिन्द्र सिंह पुत्रान सुचा सिंह पुत्र बसावा सिंह हर दो संमभाग 37/2244 भाग मलकीत सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह बसावा सिंह 7/1122 भाग लखबीर सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र बसावा सिंह 1/204 भाग बिशन सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र गुलाब सिंह 31/292 भाग हरभजन सिंह पुत्र बिशन सिंह पुत्र ईशर सिंह 4/73 भाग भान सिंह पुत्र बुध सिंह पुत्र पंजाबा 7/146 भाग हरभजन 7/146 भाग शिंगारा पुत्र मान सिंह पुत्र बुध सिंह 3/73 भाग लखबीर सिंह पुत्र किशन सिंह पुत्र ईशर सिंह 4/73 भाग मुला सिंह पुत्र बुध सिंह 41/292 भाग रणधीर सिंह व करतार सिंह हर दो संमभाग 5/146 भाग मेहर सिंह 1/73 भाग तरलोक सिंह - पाला सिंह पुत्रान अतर सिंह हर दो संमभाग 4/73 भाग गुलज़ार सिंह - कपूर सिंह - हरचन्द सिंह - कुलबीर सिंह पुत्रान बिशन सिंह पुत्र ईशर सिंह हर चार संमभाग 33/292 भाग मनमोन नाथ 2/73 भाग चिमन लाल - अशोक कुमार - भगवान दास - विजय कुमार पुत्रान धनी राम हर चार संमभाग 6/803 भाग जानकी नाथ पुत्र धनी राम 3/3212 भाग वासीदेह (25//22/1)</p>
12	25//22/2/1	निजी	कृषि	0.0076	<p>कुलबीर सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र भूला सिंह वासीदेह (25//22/2/1)</p>
13	25//22/2/2	निजी	कृषि	0.1518	<p>दलबीर सिंह पुत्र अमर सिंह पुत्र मुला सिंह वासीदेह (25//22/2/2)</p>
14	38//1/1	निजी	कृषि	0.0506	<p>किरपाल सिंह - प्रितीपाल सिंह पुत्रान कश्मीर सिंह पुत्र सुरजन सिंह हर दो संमभाग 13284/16505 भाग कश्मीर</p>

					सिंह पुत्र सुरजन सिंह पुत्र मुल्ला सिंह 3221/16505 भाग वासीदेह (38//1/1)
15	38//1/2	निजी	कृषि	0.0708	सरजीत कौर विधवा व गुरमीत सिंह - बलविन्द्र सिंह - सुखविन्द्र सिंह - हरजिन्द्र सिंह - हरजीत सिंह पुत्रान प्रीतम सिंह पुत्र भुल्ला सिंह हर छह समभाग वासिदेह (38//1/2)
16	38//2/1	निजी	रास्ता	0.0304	धर्म सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र राम सिंह 11/146 भाग कुलबीर सिंह - बलविन्द्र सिंह - कश्मीर सिंह - सतपाल सिंह पुत्रान धर्म सिंह पुत्र मोहन सिंह हर चार संमभाग 2/73 भाग अजीत सिंह - संतोख सिंह पुत्रान हर दो समभाग 5/146 भाग सुचा सिंह 3/292 भाग मलकियत सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह पुत्र बसावा सिंह 5/292 भाग श्रीमती दलबीर कौर पुत्री दर्शन सिंह पुत्र भान सिंह 23/748 भाग जसबीर कौर पुत्री दर्शन सिंह पुत्र भान सिंह 73/2244 भाग जसबीर सिंह - सुखजिन्द्र सिंह पुत्रान सुचा सिंह पुत्र बसावा सिंह हर दो संमभाग 37/2244 भाग मलकीत सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह बसावा सिंह 7/1122 भाग लखबीर सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र बसावा सिंह 1/204 भाग बिशन सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र गुलाब सिंह 31/292 भाग हरभजन सिंह पुत्र बिशन सिंह पुत्र ईशर सिंह 4/73 भाग भान सिंह पुत्र बुध सिंह पुत्र पंजाबा 7/146 भाग हरभजन 7/146 भाग शिंगारा पुत्र मान सिंह पुत्र बुध सिंह 3/73 भाग लखबीर सिंह पुत्र किशन सिंह पुत्र ईशर सिंह 4/73 भाग मुला सिंह पुत्र बुध सिंह 41/292 भाग रणधीर सिंह व करतार सिंह हर दो संमभाग 5/146 भाग मेहर सिंह 1/73 भाग तरलोक सिंह - पाला सिंह पुत्रान अतर सिंह हर दो संमभाग 4/73 भाग गुलज़ार सिंह - कपूर सिंह - हरचन्द सिंह - कुलबीर सिंह पुत्रान

					बिशन सिंह पुत्र ईशर सिंह हर चार संमभाग 33/292 भाग मनमोन नाथ 2/73 भाग चिमन लाल - अशोक कुमार - भगवान दास - विजय कुमार पुत्रान धनी राम हर चार संमभाग 6/803 भाग जानकी नाथ पुत्र धनी राम 3/3212 भाग वासीदेह (38//2/1)
17	38//9/2	निजी	रास्ता	0.0304	धर्म सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र राम सिंह 11/146 भाग कुलबीर सिंह - बलविन्द्र सिंह - कश्मीर सिंह - सतपाल सिंह पुत्रान धर्म सिंह पुत्र मोहन सिंह हर चार संमभाग 2/73 भाग अजीत सिंह - संतोख सिंह पुत्रान हर दो समभाग 5/146 भाग सुचा सिंह 3/292 भाग मलकियत सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह पुत्र बसावा सिंह 5/292 भाग श्रीमती दलबीर कौर पुत्री दर्शन सिंह पुत्र भान सिंह 23/748 भाग जसबीर कौर पुत्री दर्शन सिंह पुत्र भान सिंह 73/2244 भाग जसबीर सिंह - सुखजिन्द्र सिंह पुत्रान सुचा सिंह पुत्र बसावा सिंह हर दो संमभाग 37/2244 भाग मलकीत सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह बसावा सिंह 7/1122 भाग लखबीर सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र बसावा सिंह 1/204 भाग बिशन सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र गुलाब सिंह 31/292 भाग हरभजन सिंह पुत्र बिशन सिंह पुत्र ईशर सिंह 4/73 भाग भान सिंह पुत्र बुध सिंह पुत्र पंजाबा 7/146 भाग हरभजन 7/146 भाग शिंगारा पुत्र मान सिंह पुत्र बुध सिंह 3/73 भाग लखबीर सिंह पुत्र किशन सिंह पुत्र ईशर सिंह 4/73 भाग मुला सिंह पुत्र बुध सिंह 41/292 भाग रणधीर सिंह व करतार सिंह हर दो संमभाग 5/146 भाग मेहर सिंह 1/73 भाग तरलोक सिंह - पाला सिंह पुत्रान अतर सिंह हर दो संमभाग 4/73 भाग गुलज़ार सिंह - कपूर सिंह - हरचन्द सिंह - कुलबीर सिंह पुत्रान बिशन सिंह पुत्र ईशर सिंह हर चार

					संमभाग 33/292 भाग मनमोन नाथ 2/73 भाग चिमन लाल - अशोक कुमार - भगवान दास - विजय कुमार पुत्रान धनी राम हर चार संमभाग 6/803 भाग जानकी नाथ पुत्र धनी राम 3/3212 भाग वासीदेह (38//9/2)
18	38//10/1	निजी	कृषि	0.0531	किरपाल सिंह - प्रितीपाल सिंह पुत्रान कश्मीर सिंह पुत्र सुरजन सिंह हर दो समभाग 13284/16505 भाग कश्मीर सिंह पुत्र सुरजन सिंह पुत्र मुल्ला सिंह 3221/16505 भाग वासीदेह (38//10/1)
19	38//10/2	निजी	कृषि	0.129	अजीत सिंह पुत्र बसावा पुत्र श्याम सिंह वासीदेह (38//10/2)
20	38//11/1	निजी	कृषि	0.1872	अजीत सिंह पुत्र बसावा पुत्र श्याम सिंह वासीदेह (38//11/1)
21	38//12/1	निजी	रास्ता	0.0253	धर्म सिंह पुत्र सोहन सिंह पुत्र राम सिंह 11/146 भाग कुलबीर सिंह - बलविन्द्र सिंह - कश्मीर सिंह - सतपाल सिंह पुत्रान धर्म सिंह पुत्र मोहन सिंह हर चार संमभाग 2/73 भाग अजीत सिंह - संतोख सिंह पुत्रान हर दो समभाग 5/146 भाग सुचा सिंह 3/292 भाग मलकियत सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह पुत्र बसावा सिंह 5/292 भाग श्रीमती दलबीर कौर पुत्री दर्शन सिंह पुत्र भान सिंह 23/748 भाग जसबीर कौर पुत्री दर्शन सिंह पुत्र भान सिंह 73/2244 भाग जसबीर सिंह - सुखजिन्द्र सिंह पुत्रान सुचा सिंह पुत्र बसावा सिंह हर दो संमभाग 37/2244 भाग मलकीत सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह बसावा सिंह 7/1122 भाग लखबीर सिंह पुत्र अजीत सिंह पुत्र बसावा सिंह 1/204 भाग बिशन सिंह पुत्र ईशर सिंह पुत्र गुलाब सिंह 31/292 भाग हरभजन सिंह पुत्र बिशन सिंह पुत्र ईशर

					<p>सिंह 4/73 भाग भान सिंह पुत्र बुध सिंह पुत्र पंजाबा 7/146 भाग हरभजन 7/146 भाग शिंगारा पुत्र मान सिंह पुत्र बुध सिंह 3/73 भाग लखवीर सिंह पुत्र किशन सिंह पुत्र ईशर सिंह 4/73 भाग मुला सिंह पुत्र बुध सिंह 41/292 भाग रणधीर सिंह व करतार सिंह हर दो संभभाग 5/146 भाग मेहर सिंह 1/73 भाग तरलोक सिंह - पाला सिंह पुत्रान अतर सिंह हर दो संभभाग 4/73 भाग गुलज़ार सिंह - कपूर सिंह - हरचन्द सिंह - कुलवीर सिंह पुत्रान बिशन सिंह पुत्र ईशर सिंह हर चार संभभाग 33/292 भाग मनमोन नाथ 2/73 भाग चिमन लाल - अशोक कुमार - भगवान दास - विजय कुमार पुत्रान धनी राम हर चार संभभाग 6/803 भाग जानकी नाथ पुत्र धनी राम 3/3212 भाग वासीदेह (38//12/1)</p>
22	56//2	निजी	कृषि	0.0025	<p>रणधीर सिंह पुत्र मातू राम पुत्र सीता राम 1/2 भाग अंगूरी देवी विधवा रणजीत सिंह पुत्र हिरदा राम 1/3 भाग सावन पुत्र राजेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह 1/12 भाग रेशमा देवी विधवा शमशेर पुत्र रणजीत 1/12 भाग वासीदेह (56//2)</p>
23	116	निजी	रास्ता	0.0506	<p>ग्राम पंचायत (116)</p>
24	39//19/1/1	सरकारी	नहर	0.0228	<p>हरियाणा सरकार (39//19/1/1)</p>
25	55//2/2/1	निजी	नहर	0.0026	<p>हरियाणा सरकार (55//2/2/1)</p>
26	55//11/1	निजी	रास्ता	0.2606	<p>प्यारा सिंह - मेजर सिंह पुत्रान दलीप सिंह पुत्र सुन्दर सिंह हर दो संभभाग 3/10 भाग कश्मीर सिंह पुत्र सुरजन सिंह पुत्र मुला सिंह 7/20 भाग गुलज़ार सिंह - कुलवीर सिंह पुत्रान बिशन सिंह पुत्र ईशर सिंह हर</p>

					दो संमभाग 3/20 भाग हरचन्द सिंह पुत्र बिशन सिंह पुत्र ईशर सिंह 1/10 भाग मनिन्दर सिंह पुत्र कपुर पुत्र बिशन सिंह 1/10 भाग वासीदेह (55//11/1)
27	70//24/1	निजी	कृषि	0.0177	रामप्यारी पत्नी कर्मचन्द पुत्र थारू राम वासीदेह (70//24/1)
28	108	निजी	तालाब	0.4148	ग्राम पंचायत (108)
29	55//1/2/1	सरकारी	नहर	0.0278	हरियाणा सरकार (55//1/2/1)
30	55//1/2/2	निजी	कृषि	0.0051	अशोक कुमार पुत्र इन्द्र नाथ पुत्र धनी राम 83/624 भाग जानकी नाथ पुत्र धनी राम पुत्र बंशीधर 1/416 भाग कमला देवी पत्नी राम सिंह पुत्र घसीटा 5/52 भाग मनमोहन नाथ - चिमन लाल पुत्रान इन्द्र नाथ पुत्र धनी राम हर दो संमभाग 23/312 भाग भगवान दास - विजय कुमार पुत्रान इन्द्र नाथ पुत्र धनी राम हर दो संमभाग 121/416 भाग हरदेव सिंह पुत्र राम सिंह 85/832 भाग सागर राणा पुत्र बलदेव सिंह पुत्र राम सिंह 85/832 भाग पानो विधवा मुन्सी पुत्र रामजीलाल 41/26624 भाग प्रवीन कुमार पुत्र रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल 41/3328 भाग दरसो विधवा रामस्वरूप पुत्र रामजीलाल 9253/79872 भाग मंगल राम पुत्र लेखु पुत्र रामजीलाल 41/4992 भाग सुदेश पत्नी महावीर पुत्र श्रीचन्द 205/3328 भाग वासीदेह (55//1/2/2)
31	55//2/2/2	निजी	कृषि	0.1821	मनमोहन नाथ, चमन लाल, अशोक कुमार पुत्रान इंदर नाथ पुत्र धनीराम हर तीन संभाग 184/327 भाग जानकीनाथ पुत्र धनीराम पुत्र बांशीराम 65/2289 भाग भगवान दास विजय कुमार पुत्रान इंदरनाथ पुत्र धनीराम हर दो संमभाग

					312/763 भाग (55//2/2/2)
32	39//21/2	सरकारी	नहर	0.0177	हरियाणा सरकार (39//21/2)
33	39//22/2/1	निजी	कृषि	0.0632	मनमोहन नाथ - चिमन लाल - अशोक कुमार पुत्रान इन्द्रनाथ पुत्र धनी राम हर तीन संमभाग 184/327 भाग वासी गुलज़ार पुरा जिला पटियाला (पंजाब) जानकी नाथ पुत्र धनी राम पुत्र बांसी राम 65/2289 भाग वासी गुलज़ार पुरा जिला पटियाला (पंजाब) भगवान दास - विजय कुमार पुत्रान इन्द्रनाथ पुत्र धनी राम हर दो संमभाग 312/763 भाग वासी गुलज़ार पुरा जिला पटियाला (पंजाब) (39//22/2/1)
34	39//22/2/2	सरकारी	नहर	0.0025	हरियाणा सरकार (39//22/2/2)
गांव का नाम: डुलियानी					
35	68//1	निजी	कृषि	0.0006	धर्मपाल - सतपाल - रोशनलाल - कृष्ण लाल पुत्रान रामकिशन पुत्र जसवंत हर चार समभाग वासीदेह (68//1)
गांव का नाम: हजवाना					
36	8//10	निजी	कृषि	0.0025	बसाऊ पुत्र लच्छू पुत्र रामजीलाल 1/2 भाग अजय - विजय पुत्रान राजपाल उर्फ रघवीर सिंह हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह (8//10)
37	9//4	निजी	कृषि	0.0006	राम कुमार पुत्र फूल सिंह पुत्र मोख राम 397/3064 भाग धर्मवीर - रामनिवास - प्रदीप कुमार पुत्रान रामकुमार पुत्र फूल सिंह हर तीन समभाग 480/3064 भाग श्रीमती सुनहरी देवी पुत्री देवा पुत्र मोख राम 2/3064 भाग श्रीमती रेशमा देवी - करेशनी देवी पुत्रीयान देवा पुत्र मोख राम हर दो समभाग 4/3064 भाग रमेश कुमार पुत्र खज़ाना पुत्र बख्शी 43/3064 भाग

					<p>गंगा सिंह पुत्र राम स्वरूप पुत्र कन्हैया 57/3064 भाग बन्शी लाल - देवी लाल पुत्रान कर्ण सिंह पुत्र इन्द्र सिंह हर दो समभाग 375/3064 भाग साधु राम पुत्र मसदी पुत्र मोख राम 213/3064 भाग वेद पाल उर्फ वेद प्रकाश पुत्र मसदी पुत्र मोख राम 255/3064 भाग अशोक गोयल पुत्र चांदी राम पुत्र राम निवास 12/3064 भाग सुरेन्द्र कल्याल पुत्र रामप्रकाश पुत्र रामलुभाया 9/3064 भाग सावित्री देवी पत्नी छित्तर पुत्र हरनन्द 3/3064 भाग पुनम पत्नी कुलदीप सिंह पुत्र फूल सिंह 3/3064 भाग दया देवी पत्नी रतन सिंह पुत्र राम सिंह 4/3064 भाग कमलेश पत्नी कृष्ण लाल पुत्र चन्दा सिंह 98/3064 भाग राजबाला पत्नी बसाऊ पुत्र चन्दा सिंह 98/3064 भाग वासी पाई किताब सिंह पुत्र लिफ्टी पुत्र मसदी 38/3064 भाग राजेश गोयल पुत्र रोशन लाल पुत्र रामनिवास 3/3064 भाग कमला देवी पत्नी जोगी राम पुत्र रामकला 4/3064 भाग धनपति देवी पत्नी भरत राम पुत्र हरी सिंह 3/3064 भाग पाला राम - जयपाल - रमेश चन्द - जगबीर पुत्रान खजाना पुत्र बख्शी हर चार समभाग 766/3064 भाग दानी देवी पत्नी बलवन्त सिंह पुत्र ज्वाला राम 191/3064 भाग उर्मिला पत्नी पवन कुमार पुत्र अमृत लाल 1/3064 भाग सुनीता देवी पत्नी कुलविन्द्र पुत्र सुखदेव 1/3064 भाग कश्मीरी पुत्र प्रतापा पुत्र कर्मचन्द 2/3064 भाग मीना रानी पत्नी ईसम सिंह पुत्र रामसरूप 2/3064 भाग वासीदेह (9//4)</p>
38	12//6	निजी	कृषि	0.0008	<p>बन्शी लाल - देवी लाल पुत्रान कर्ण सिंह पुत्र इन्द्र सिंह हर दो समभाग 1/2 भाग इन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह पुत्र मामचंद 1/2 भाग वासीदेह (12//6)</p>

39	36//3	निजी	कृषि	0.0101	मांगे राम - रामदिया - सतबीर - पाला राम पुत्रान अमी लाल पुत्र लोंगा राम हर चार समभाग वासीदेह (36//3)
40	59//2	निजी	कृषि	0.0025	केवल सिंह - जगा सिंह पुत्रान जोरा सिंह पुत्र प्रीतम सिंह हर दो समभाग 1/2 भाग कृष्णा देवी पत्नी व हरदीप सिंह पुत्र सिन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह (59//2)
गांव का नाम: जाम्बा					
41	74	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0253	ग्राम पंचायत (74)
42	18//24	निजी	कृषि	0.0759	दिवाना पुत्र रामजी लाल पुत्र सरदारा वासीदेह (18//24)
गांव का नाम: करोडा					
43	7//8	निजी	कृषि	0.0126	रामकुमार पुत्र मुख्तयार पुत्र रंगी 43/1200 भाग दिलावर सिंह पुत्र मुख्तयार पुत्र रंगी 1/16 भाग 275/4408 भाग रामफल - रमेशचंद - सुभाष पुत्रान मांगेराम पुत्र रणजीत सिंह हर तीन समभाग 1/40 भाग सत्यवान पुत्र रामकुमार पुत्र मुख्तयार 1/1200 भाग महेन्द्र सिंह- जरनैल सिंह पुत्र ठिरियाराम पुत्र नीरू हर दो समभाग 1/1200 भाग धर्मा पुत्र रंगी पुत्र मामराज 3/50 भाग रतिराम पुत्र कुडा राम पुत्र बोहला 1/20 भाग प्रकाश- महावीर सिंह- कुलदीप- राजेन्द्र पुत्रान रती राम पुत्र कुडा राम हर चार समभाग 133/600 भाग रामभज पुत्र राममेहर पुत्र रंगी 91/400 भाग बलराज सिंह पुत्र मुख्तयार पुत्र रंगी 53/1200 भाग सुभाष चन्द पुत्र हुकम सिंह पुत्र मोमन राम 7/384 भाग लालसिंह- धर्मपाल पुत्रान मोमन राम पुत्र तेजराम हर दो समभाग 157/1440 भाग बलवीर

					पुत्र हुकम सिंह पुत्र मोमन राम 263/9600 भाग किताबो देवी विधवा व नरेंद्र सिंह- कुलदीप सिंह पुत्रान व सुमन देवी- पूजा देवी पुत्रियान शमशेर सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह हर पांच समभाग 1/16 भाग सुरेश कुमार पुत्र नफे सिंह पुत्र मोमन राम 157/2880 भाग वासीदेह (7//8)
44	11//17	निजी	कृषि	0.0025	मुवासी पुत्र बीर सिंह पुत्र बेगराज वासीदेह (11//17)
45	20//19/3	निजी	कृषि	0.0202	श्रीमती भगवन्ती विधवा व धर्मपाल - जयकिशन - महिंदर- राजेंद्र पुत्रान व श्रीमती कृष्णा - शांति पुत्रियान श्रीचंद पुत्र मुंशी हर सात समभाग 7/8 भाग सोना देवी विधवा व ओमप्रकाश - शिवरतन - मोहनलाल पुत्र व श्योमा देवी - बिमला देवी - अंजू बाला - रानी देवी पुत्रियान रघवीर पुत्र श्रीचंद हर आठ समभाग 8/72 भाग सोहना देवी विधवा रघवीर सिंह पुत्र श्रीचंद 1/360 भाग सरला देवी विधवा दीपक - विक्रम - योगेश पुत्रान कृष्ण लाल पुत्र रघवीर 1/90 भाग वासिदेह (20//19/3)
46	411	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0253	ग्राम पंचायत (411)
47	50//11	निजी	कृषि	0.0005	चुहड़ियाराम - जमेर सिंह पुत्रान भलिया पुत्र जगर हर दो समभाग 116/765 भाग सुखदेव पुत्र व उषा रानी पुत्री सरूपी पुत्र भलिया हर दो समभाग 23/1020 भाग रघवीर सिंह पुत्र बीर सिंह पुत्र शिंगारा सिंह 1/6 भाग सोना देवी पुत्री खजाना पुत्र चन्डी 1/72 भाग श्रीमति धन्नी देवी विधवा भरथू पुत्र जयुना 1/96 भाग सत्यवान पुत्र भरथू पुत्र जयुना 7/96 भाग सतपाल- वेदपाल सिंह पुत्रान टेकचन्द पुत्र शिवकर्ण हर दो समभाग 1/36 भाग मेवा

					पुत्र जयुना पुत्र खुबी 1/24 भाग राममेहर पुत्र मेवा पुत्र जयुना 1/24 भाग टेका पुत्र जनकू पुत्र चंडी 1/18 भाग श्रीमति ओमी देवी- वीरमती पुत्रियान व धूपा- शमशेर सिंह पुत्र अर्जन हर चार समभाग 1/5 भाग रतिया पुत्र अर्जुन पुत्र जागर 2/85 भाग कृष्ण - महावीर पुत्रान देवा सिंह पुत्र खजाना हर दो समभाग 5/72 भाग प्रदीप कुमार पुत्र जिले सिंह पुत्र सुरजन सिंह 9/340 भाग सतीश कुमार पुत्र रामसरूप उर्फ सरूपा पुत्र बलिया 58/765 भाग वासिदेह (50//11)
48	67//16/1	निजी	कृषि	0.0051	मेवा पुत्र जीवना पुत्र खूबी 1/4 भाग श्रीमती धन्नी देवी विधवा भरथु पुत्र ज्यूना 1/16 भाग सत्यवान पुत्र भरथु पुत्र ज्यूना 7/16 भाग राममेहर पुत्र मेवा पुत्र ज्यूना 1/4 भाग वासिदेह (67//16/1)
49	78//17/1	निजी	कृषि	0.0101	देवेन्द्र- बलविन्द्र सिंह पुत्र गजे सिंह पुत्र सुरता 1/3 भाग सुदेश देवी- उमेश देवी- मुकेश देवी- सुमन देवी पुत्रियान गजे सिंह पुत्र सुरता हर चार समभाग 2/3 भाग (78//17/1)
50	78//17/2	निजी	कृषि	0.0025	बलवीर सिंह पुत्र आभै राम पुत्र लछमन 1/8 भाग जितेंदर - विजेंदर सिंह - विनीत सिंह पुत्र आभै राम हर तीन समभाग 1/8 भाग कर्मवीर - रणधीर पुत्रान रूपचंद पुत्र लछमन हर दो समभाग 1/4 भाग देवेंदर सिंह - बलविंदर सिंह पुत्र गजे सिंह पुत्र सुरता हर दो समभाग 1/12 भाग सुदेश देवी - उमेश देवी - सुमन देवी पुत्र गजे सिंह पुत्र सुरता राम हर चार समभाग 1/6 भाग सुरेश कुमार - नरेश कुमार पुत्र जिले सिंह पुत्र सुरता हर दो समभाग 1/2 भाग वासिदेह (78//17/2)

51	78//17/3	निजी	कृषि	0.0329	कर्मवीर पुत्र रूप चन्द पुत्र लछमन (78//17/3)
52	78//18/1	निजी	कृषि	0.0506	देवेन्द्र- बलविन्द्र सिंह पुत्र गजे सिंह पुत्र सुरता 1/3 भाग सुदेश देवी- उमेश देवी- मुकेश देवी- सुमन देवी पुत्रियान गजे सिंह पुत्र सुरता हर चार समभाग 2/3 भाग (78//18/1)
53	78//18/2	निजी	कृषि	0.0202	बलवीर सिंह पुत्र आभै राम पुत्र लछमन 1/8 भाग जितेंदर - विजेंदर सिंह - विनीत सिंह पुत्र आभै राम हर तीन समभाग 1/8 भाग कर्मवीर - रणधीर पुत्रान रूपचंद पुत्र लछमन हर दो समभाग 1/4 भाग देवेंदर सिंह - बलविंदर सिंह पुत्र गजे सिंह पुत्र सुरता हर दो समभाग 1/12 भाग सुदेश देवी - उमेश देवी - सुमन देवी पुत्र गजे सिंह पुत्र सुरता राम हर चार समभाग 1/6 भाग सुरेश कुमार - नरेश कुमार पुत्र ज़िले सिंह पुत्र सुरता हर दो समभाग 1/2 भाग वासिदेह (78//18/2)
54	78//18/3	निजी	कृषि	0.3212	कर्मवीर पुत्र रूप चन्द पुत्र लछमन (78//18/3)
55	78//19/1/3	निजी	कृषि	0.0177	कर्मवीर पुत्र रूप चन्द पुत्र लछमन (78//19/1/3)
56	78//22/2	निजी	कृषि	0.0658	कर्मवीर पुत्र रूप चन्द पुत्र लछमन (78//22/2)
57	96//2/1/2/2	निजी	रास्ता	0.0051	सैंसी- जोगीराम पुत्रान रामदास पुत्र देवतिया हर दो समभाग 37/146 भाग बदन सिंह- शमशेर सिंह- बलवीर सिंह पुत्र फूला पुत्र देवतिया हर तीन समभाग 18/73 भाग कर्मा- सुभाष पुत्र कपूरा पुत्र देवतिया हर दो समभाग 17/73 भाग प्रेमो पुत्री कपूरा पुत्र देवतिया 1/73 भाग राममेहर- पवन कुमार पुत्रान काहरो पुत्र देवतिया हर दो समभाग 37/146 भाग वासीदेह

					(96//2/1/2/2)
58	96//2/2/3/1	सरकारी	रास्ता	0.0126	हरियाणा गवर्नमेंट (96//2/2/3/1)
59	96//2/2/3/2	निजी	कृषि	0.0379	कर्मा- सुभाष पुत्रान कपूरा पुत्र देवतिया हर दो समभाग वासीदेह (96//2/2/3/2)
60	96//3/2/2	निजी	कृषि	0.2808	सैसी- जोगीराम पुत्रान रामदास पुत्र देवतिया हर दो समभाग 37/146 भाग बदन सिंह- शमशेर सिंह- बलवीर सिंह पुत्र फूला पुत्र देवतिया हर तीन समभाग 18/73 भाग कर्मा- सुभाष पुत्र कपूरा पुत्र देवतिया हर दो समभाग 17/73 भाग प्रेमो पुत्री कपूरा पुत्र देवतिया 1/73 भाग राममेहर- पवन कुमार पुत्रान काहरो पुत्र देवतिया हर दो समभाग 37/146 भाग वासीदेह (96//3/2/2)
61	96//8/1/1/1	सरकारी	रास्ता	0.0076	हरियाणा गवर्नमेंट (96//8/1/1/1)
62	96//8/1/1/2	निजी	कृषि	0.0278	राममेहर- पवन कुमार पुत्रान केहरो हर दो समभाग वासीदेह (96//8/1/1/2)
63	96//8/3/2/2	निजी	कृषि	0.0051	बेदो देवी विधवा व प्रीतिपाल - लोकेश पुत्रान व कविता देवी पुत्री शमशेर सिंह पुत्र फूला हर चार समभाग 532/1793 भाग बदन सिंह - बलवीर सिंह पुत्र फूला पुत्र देवतिया हर दो समभाग 1261/1793 भाग वासिदेह (96//8/3/2/2)
64	96//9/1	सरकारी	कनल	0.1391	हरियाणा गवर्नमेंट (96//9/1)
65	96//9/2/1	सरकारी	रास्ता	0.0177	हरियाणा गवर्नमेंट (96//9/2/1)
66	96//9/2/2	निजी	कृषि	0.0632	कर्मा- सुभाष पुत्रान कपूरा पुत्र देवतिया हर दो समभाग वासीदेह (96//9/2/2)

67	96//12/1/1	निजी	कृषि	0.2858	बदन सिंह - शमशेर सिंह - बलवीर सिंह पुत्रान फुल्ला पुत्र तेवतिया (96//12/1/1)
68	96//12/2	सरकारी	नहर	0.0003	हरियाणा गवर्नमेंट (96//12/2)
69	96//18/2/2	निजी	कृषि	0.0759	रामदिया पुत्र नाथू पुत्र डीन्डा वासीदेह (96//18/2/2)
70	160//7	निजी	कृषि	0.0025	बलविन्द्र पुत्र बीजा पुत्र पूरण सिंह 1646/21693 नवीन- सचिन पुत्रान धर्म सिंह पुत्र पूरण सिंह 1646/21693 भाग सोनू पुत्र बलवान सिंह पुत्र पूरण सिंह 1646/21693 भाग अनिल पुत्र दलवीर पुत्र बलवंत 412/21693 भाग श्रीमति बेदो देवी विधवा व श्रीमति राजबाला- मेवा देवी पुत्रियान बलवंत पुत्र बारू राम हर तीन समभाग 5/1033 भाग राजेश कुमार- सुशील कुमार पुत्रान प्रेम सिंह पुत्र रामधारी हर दो समभाग 94/21693 भाग प्रवीण कुमार पुत्र पाली राम पुत्र रामधारी 47/21693 भाग कुलदीप - रमेशचंद - बलजीत सिंह पुत्रान दीपचंद पुत्र बारू राम हर तीन समभाग 1693/7231 भाग सुनील पुत्र दलवीर पुत्र बलवंत सिंह 857/21693 भाग श्रीमती सुनहरी देवी विधवा प्रेम सिंह पुत्र रामधारी 823/7231 केलो देवी पत्नी पाली राम पुत्र रामधारी 823/7231 भाग रघवीर सिंह - अनूप सिंह पुत्रान चन्दन पुत्र बारू राम हर दो समभाग 1693/7231 भाग धरम सिंह - बीजा राम - बलवान सिंह पुत्रान पुरण सिंह पुत्र बारू राम हर तीन समभाग 48/7231 भाग (160//7)
71	179//8	निजी	कृषि	0.387	श्रीमति बेदो देवी विधवा व श्रीमति राजबाला- मेवा देवी पुत्रियान बलवंत पुत्र बारू हर तीन समभाग वासीदेह (179//8)
72	185//12/1	निजी	कृषि	0.0005	प्रिंस पुत्र सुलतान सिंह पुत्र सूबे सिंह 1/16

					भाग हरकिशन - रामफल - यशपाल सिंह पुत्रान सूबे सिंह पुत्र रंगी राम हर तीन समभाग 3/16 भाग चन्द्रप्रकाश पुत्र जय सिंह पुत्र रंगी 1/4 भाग राजकौर पत्नी रजवंत सिंह पुत्र केहर सिंह 1/4 भाग वासीदेह बीर कौर पत्नी जरनैल सिंह पुत्र केहर सिंह 1/4 भाग वासी बाकल (185//12/1)
73	209//11	निजी	कृषि	0.0101	जेलो - सोना पुत्रियान रामसहाय हर दो समभाग 1/408 भाग श्रीमति बन्ती पुत्री श्रीमति फूली पुत्री रामसहाय 11/1632 भाग श्रीमति गुड्डी पुत्री श्रीमति फूली पुत्री रामसहाय 1/816 भाग गुरमेल पुत्र रामसहाय 1/544 भाग जोगिन्द्र पुत्र श्रीमति फूलपति पुत्री रामसहाय 1/136 भाग अजैब पुत्र श्रीमति फूलपति पुत्री रामसहाय 1/136 भाग श्रीमति कश्मीरों - अंग्रेजो पुत्रियान श्रीमति फूला पुत्री रामसहाय हर दो समभाग 11/816 भाग गुरदेव पुत्र रिसाला पुत्र मातु 1/8 भाग केदार सिंह - बलबीर सिंह पुत्रान सरदारा पुत्र मातु हर दो समभाग 37/204 भाग श्रीमति चन्द्रपति विधवा धुप सिंह पुत्र सरदारा 3/272 भाग महिपाल - जयपाल - ऋषिपाल पुत्रान धुप सिंह पुत्र सरदारा हर तीन समभाग 43/544 भाग श्रीमति नीता देवी पुत्री धुप सिंह पुत्र सरदारा 1/816 भाग श्रीमति चन्द्रपति विधवा व सुलतान सिंह पुत्र व संतरों पुत्री माँगा पुत्र मोखा हर तीन समभाग 163/544 भाग दिदारा उर्फ दयारा पुत्र रिसाला पुत्र मातु रहन हिस्सा 43/1632 भाग बिला रहन हिस्सा 385/1632 भाग सरदारा पुत्र मातु पुत्र मालका 43/1632 भाग वासीदेह सुर्तहन (209//11)
74	234//24	निजी	कृषि	0.0607	श्रीमति अमर कौर विधवा व श्रीमति सविता देवी पुत्री भजन सिंह पुत्र माना हर दो समभाग 437/5238 भाग कर्मवीर पुत्र

					<p>फूल सिंह पुत्र हरि सिंह 437/5238 भाग जयवीर - जसवीर पुत्रान रामपाल पुत्र फूल सिंह हर दो समभाग 218/2619 भाग लोकिन्द्र सिंह - चरण सिंह पुत्रान भजन सिंह पुत्र माना हर दो समभाग 1/6 भाग राजेन्द्र - सुरेश कुमार पुत्रान प्रीतम सिंह पुत्र माना हर दो समभाग 218/2619 भाग कर्म सिंह पुत्र रतन सिंह पुत्र हरि सिंह 145/5238 भाग श्रीमति सतबीरी देवी पत्नी कर्म सिंह पुत्र रतन सिंह 73/2619 भाग श्रीमति कुसुम देवी विधवा धर्म सिंह पुत्र रतन सिंह 1/18 भाग हिमायु - कर्ण सिंह पुत्रान भीम सिंह पुत्र रतन सिंह हर दो समभाग 1/18 भाग प्रीतम सिंह पुत्र माना पुत्र आशा राम 1/6 भाग सत्यवान पुत्र चत्तर सिंह पुत्र हरि सिंह 1/6 भाग वासीदेह (234//24)</p>
75	239//4	निजी	कृषि	0.0228	<p>बशेसर दास पुत्र रसाला पुत्र तोखा 1/12 भाग अनिल कुमार पुत्र बशेसर दास पुत्र रसाला 1/12 भाग श्रीमति करेशनी विधवा व रामेश्वर - शीशपाल - वेदपाल - जगीर पुत्रान व श्रीमति राजपति पुत्री गोर्धन पुत्र तोखा हर छह समभाग 3/16 भाग श्रीमति गुड्डी विधवा 2/96 भाग व भुपिंदर 1/96 भाग पुत्र राजपाल पुत्र गोर्धन गुरुनानक देव एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी फरल मार्फत वेद प्रकाश उप प्रधान पुत्र 45/1433 भाग शान्ति देवी विधवा व संजीव पुत्र रामधारी पुत्र रलदू हर दो समभाग 1/12 भाग कमला देवी पत्नी भले राम पुत्र श्रीचन्द 5/5754 भाग बुगली देवी पत्नी रामफल पुत्र मांगे राम 5/5754 भाग सुमन देवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह पुत्र वेदपाल 31/46032 भाग निर्मल देवी पत्नी विजेंद्र कुमार पुत्र वेदपाल 31/46032 भाग सुभाष पुत्र गोर्धन पुत्र तोखा 2593/92064 भाग संतोष देवी पत्नी</p>

					<p>सुभाष चन्द पुत्र मांगे राम 5/5754 भाग ओमीदेवी पत्नी सूरजभान पुत्र शादी राम 25/7672 भाग संतोष देवी पत्नी धर्मेन्द्र पुत्र बलवान सिंह 10/8631 भाग अमित कुमार पुत्र बशेश्वर दास पुत्र रिसाला 1/12 भाग सुरेश कुमार - नरेश कुमार पुत्रान रामफल पुत्र मुख्तियार सिंह हर दो समभाग 67/103176 भाग शान्ति देवी पत्नी सेवा सिंह पुत्र बीजे सिंह 5/14664 भाग सुमन पत्नी चरण सिंह पुत्र हरपाल सिंह 5/29328 भाग निर्मला पत्नी रमेश पुत्र हरपाल सिंह 5/29328 भाग धन्नो देवी विधवा वीरभान पुत्र रलदू 773/6768 भाग वीरभान पुत्र रलदू पुत्र वीर सिंह 1/90 भाग ममता देवी पत्नी सुनील कुमार पुत्र लाला राम 17/5732 भाग राहुल पुत्र रामफल पुत्र रलदू 1/20 भाग जोगिन्द्र कौर विधवा व मोनिका देवी - मोनिका देवी पुत्रियान रामफल पुत्र रलदू हर तीन समभाग 7/60 भाग राजीव कुमार पुत्र रामधारी पुत्र रलदू 691/8598 भाग गुलाब सिंह पुत्र बीजा पुत्र सिंघ राम 19/11508 भाग करनैल सिंह पुत्र बीजा पुत्र सिंघ राम 19/11508 भाग वासीदेह (239//4)</p>
76	254//19/2	निजी	कृषि	0.3136	<p>रमेश पुत्र चेला राम पुत्र रतिराम 387/1550 भाग दीपक कुमार पुत्र रमेश कुमार पुत्र चेला राम 387/1550 भाग करनैल सिंह पुत्र ध्रुप सिंह पुत्र रति राम 171/620 भाग अमरजीत विधवा व संदीप कुमार- मोहित पुत्रान जरनैल सिंह पुत्र ध्रुप सिंह हर तीन समभाग 697/3100 भाग वासीदेह (254//19/2)</p>
77	259//3/1	निजी	कृषि	0.043	<p>शीला देवी - कृष्णा देवी विधवायें बलबीर सिंह पुत्र विश्वा हर दो समभाग 1/5 भाग जगविंदर - अंकित - मांकित - पुत्रान बलबीर सिंह पुत्र विश्वा हर तीन समभाग</p>

					3/5 भाग श्रीमति कृष्णा विधवा प्रेम पुत्र बिश्ना 1/5 भाग वासीदेह (259//3/1)
78	259//3/2/1	निजी	कृषि	0.0101	माँगा पुत्र धिरजा पुत्र दयोतिया 331/334 भाग धिरजा पुत्र दयोतिया पुत्र जीरम 3/334 भाग वासीदेह (259//3/2/1)
79	259//8/2	निजी	कृषि	0.0126	माँगा पुत्र धिरजा पुत्र दयोतिया 331/334 भाग धिरजा पुत्र दयोतिया पुत्र जीरम 3/334 भाग वासीदेह (259//8/2)
80	259//10/2	निजी	कृषि	0.0202	इन्द्र पुत्र काला उर्फ शयोचन्द पुत्र दयोतिया वासीदेह (259//10/2)
81	1594	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0101	ग्राम पंचायत (1594)
82	274//9/2	निजी	कृषि	0.001	सुरेन्द्र कुमार- बलिनद्र कुमार पुत्रान मनफूल पुत्र दयाचन्द हर दो समभाग 43/478 भाग श्रीमति अंग्रेजो विधवा किताब सिंह पुत्र दयाचन्द 20/717 भाग राजकुमार पुत्र किताब सिंह पुत्र दयाचन्द 89/1434 भाग गुरदयाल सिंह पुत्र चन्दगी पुत्र हरि सिंह 27/478 भाग जसमेर सिंह पुत्र चन्दगी पुत्र हरि सिंह 1/1434 भाग बलमत पुत्र हरि सिंह पुत्र रलिया 211/956 भाग राममेहर पुत्र बलदेवा पुत्र रलिया 1/6 भाग राजेश पुत्र बलदेवा पुत्र रलिया 79/1434 भाग सुनील पुत्र रामेश्वर पुत्र श्रीराम 233/1434 भाग प्रताप सिंह पुत्र धारा पुत्र श्रीराम 31/956 भाग सुखवीर- राजवीर पुत्रान रामसिंह पुत्र श्रीराम हर दो समभाग 30/239 भाग वासीदेह (274//9/2)
83	11//26	निजी	कुआँ/गैर कृषि	0.0481	कर्म सिंह- सुभाष पुत्रान दिवान सिंह पुत्र आभे राम हर दो समभाग 1/2 भाग कर्ण

					सिंह पुत्र हमीर सिंह पुत्र आभे राम 1/2 भाग वासीदेह (11//26)
84	274//20/2	निजी	कृषि	0.1416	रोंकी पुत्र सुलहर पुत्र माइधन वासीदेह (274//20/2)
85	472	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0076	ग्राम पंचायत (472)
86	275//5	निजी	कृषि	0.0025	सुरेन्द्र कुमार- बलिनद्र कुमार पुत्रान मनफूल पुत्र दयाचन्द हर दो समभाग 43/478 भाग श्रीमति अंग्रेजो विधवा किताब सिंह पुत्र दयाचन्द 20/717 भाग राजकुमार पुत्र किताब सिंह पुत्र दयाचन्द 89/1434 भाग गुरदयाल सिंह पुत्र चन्दगी पुत्र हरि सिंह 27/478 भाग जसमेर सिंह पुत्र चन्दगी पुत्र हरि सिंह 1/1434 भाग बलमत पुत्र हरि सिंह पुत्र रुलिया 211/956 भाग राममेहर पुत्र बलदेवा पुत्र रुलिया 1/6 भाग राजेश पुत्र बलदेवा पुत्र रुलिया 79/1434 भाग सुनील पुत्र रामेश्वर पुत्र श्रीराम 233/1434 भाग प्रताप सिंह पुत्र धारा पुत्र श्रीराम 31/956 भाग सुखवीर- राजवीर पुत्रान रामसिंह पुत्र श्रीराम हर दो समभाग 30/239 भाग वासीदेह (275//5)
87	96//8/1/2	सरकारी	नहर	0.0051	हरियाणा सरकार (96//8/1/2)
88	295	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0911	ग्राम पंचायत (295)
89	275//6	निजी	कृषि	0.0556	सुरेन्द्र कुमार- बलिनद्र कुमार पुत्रान मनफूल पुत्र दयाचन्द हर दो समभाग 43/478 भाग श्रीमति अंग्रेजो विधवा किताब सिंह पुत्र दयाचन्द 20/717 भाग राजकुमार पुत्र किताब सिंह पुत्र दयाचन्द 89/1434 भाग गुरदयाल सिंह पुत्र चन्दगी पुत्र हरि सिंह 27/478 भाग जसमेर सिंह पुत्र चन्दगी पुत्र हरि सिंह 1/1434 भाग

					बलमत पुत्र हरि सिंह पुत्र रुलिया 211/956 भाग राममेहर पुत्र बलदेवा पुत्र रुलिया 1/6 भाग राजेश पुत्र बलदेवा पुत्र रुलिया 79/1434 भाग सुनील पुत्र रामेश्वर पुत्र श्रीराम 233/1434 भाग प्रताप सिंह पुत्र धारा पुत्र श्रीराम 31/956 भाग सुखवीर- राजवीर पुत्रान रामसिंह पुत्र श्रीराम हर दो समभाग 30/239 भाग वासीदेह (275//6)
90	442	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0253	ग्राम पंचायत (442)
91	443	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0253	ग्राम पंचायत (443)
92	1698	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.1771	ग्राम पंचायत (1698)
93	303	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0733	ग्राम पंचायत (303)
94	288	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0253	ग्राम पंचायत (288)
95	1624	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0253	ग्राम पंचायत (1624)
96	426	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0253	ग्राम पंचायत (426)
गांव का नाम: कौल					
97	32//4	निजी	कृषि	0.129	सुबे सिंह- बलबिंदर सिंह पुत्रान भाग सिंह पुत्र बसंता हर दो सम भाग 1/2 भाग भाग सिंह पुत्र बसंत पुत्र भाना राम 1/2 भाग वासीदेह (32//4)
98	32//5	निजी	कृषि	0.2732	सुबे सिंह- बलबिंदर सिंह पुत्रान भाग सिंह पुत्र बसंता हर दो सम भाग 1/2 भाग भाग सिंह पुत्र बसंत पुत्र भाना राम 1/2 भाग वासीदेह

					(32//5)
99	32//6	निजी	कृषि	0.2529	कमला देवी विधवा 1/4 भाग व करमवीर मलखान समभाग 1/3 भाग पुत्रान व किरणा देवी रेखा देवी हर दो समभाग 1/3 भाग पुत्रिया तेलूराम पुत्र द्योतिया रेखा विधवा सतीश कुमार पुत्र तेलूराम 1/12 भाग (32//6)
100	32//7	निजी	कृषि	0.1644	कमला देवी विधवा 1/4 भाग व करमवीर मलखान समभाग 1/3 भाग पुत्रान व किरणा देवी रेखा देवी हर दो समभाग 1/3 भाग पुत्रिया तेलूराम पुत्र द्योतिया रेखा विधवा सतीश कुमार पुत्र तेलूराम 1/12 भाग (32//7)
101	32//14	निजी	कृषि	0.2302	कमला देवी विधवा 1/4 भाग व करमवीर मलखान समभाग 1/3 भाग पुत्रान व किरणा देवी रेखा देवी हर दो समभाग 1/3 भाग पुत्रिया तेलूराम पुत्र द्योतिया रेखा विधवा सतीश कुमार पुत्र तेलूराम 1/12 भाग (32//14)
102	32//15/1	निजी	कृषि	0.1037	कमला देवी विधवा 1/4 भाग व करमवीर मलखान समभाग 1/3 भाग पुत्रान व किरणा देवी रेखा देवी हर दो समभाग 1/3 भाग पुत्रिया तेलूराम पुत्र द्योतिया रेखा विधवा सतीश कुमार पुत्र तेलूराम 1/12 भाग (32//15/1)
103	32//15/2	निजी	कृषि	0.0885	रामकिशन रामचंदर पुत्रान इंंदर पुत्र द्योतिया हर दो सम भाग 1/2 भाग नसीब पुत्र रामधारी पुत्र इंंदर 1/4 भाग कांता देवी विधवा व सुषमा देवी सुमन देवी विकी रानी पूनम रानी पुत्रिया व दीपक कुमार परदीप कुमार पुत्रान ओमप्रकाश पुत्र इंंदर हर सात सम भाग 1/4 भाग (32//15/2)

104	32//16	निजी	कृषि	0.0733	रामकिशन रामचंदर पुत्रान इंंदर पुत्र दयोतिया हर दो सम भाग 1/2 भाग नसीब पुत्र रामधारी पुत्र इंंदर 1/4 भाग कांता देवी विधवा व सुषमा देवी सुमन देवी विकी रानी पूनम रानी पुत्रिया व दीपक कुमार परदीप कुमार पुत्रान ओमप्रकाश पुत्र इंंदर हर सात सम भाग 1/4 भाग (32//16)
105	32//17/1	निजी	कृषि	0.1163	कमला देवी विधवा 1/4 भाग व करमवीर मलखान समभाग 1/3 भाग पुत्रान व किरणा देवी रेखा देवी हर दो समभाग 1/3 भाग पुत्रिया तेलूराम पुत्र द्योतिया रेखा विधवा सतीश कुमार पुत्र तेलूराम 1/12 भाग (32//17/1)
106	117//25//3	निजी	कृषि	0.0228	राजेश कुमार - रमेश कुमार पुत्रान रामचंदर पुत्र सींग राम हर दो समभाग वासीदेह (117//25//3)
107	147//11	निजी	कृषि	0.0005	दलेल सिंह- मेहर सिंह- सुल्तान सिंह- नसीब सिंह पुत्रान लाल सिंह पुत्र जीवन सिंह हर चार समभाग 4/5 भाग लीला विधवा व परवीन कुमार पुत्र व सुधा पुत्री सुल्तान सिंह पुत्र लाला सिंह हर तीन समभाग 1/5 भाग वासीदेह (147//11)
108	1583	निजी	रास्ता	0.0582	श्रीराम पुत्र कुंदन पुत्र साहू 1/9 भाग बलदेव सिंह पुत्र श्रीराम पुत्र कुंदन 1/18 भाग जयसिंह इश्वर पुत्रान व श्रीमती कांता देवी पुत्री सिंह राम पुत्र हरिचंद हर तीन समभाग 115/307 भाग सुल्तान सिंह महिंदर सिंह पुत्रान हर दो समभाग 71/614 भाग श्रीमती रौशनी पुत्री शांति पत्नी सिंह राम 3/307 भाग मगर चाँद पुत्र लिज्जा पुत्री यदु 1/6 भाग रोशन लाल पुत्र व श्रीमती कमला रौशनी पुत्रियां चतरू पुत्र उदेराम हर तीन समभाग 1/10 भाग श्रीमती सुनहरी विधवा व रेखा देवी

					महिन्देरो देवी शीला देवी पुत्रियान वे राजिंदर पुत्र रतिराम पुत्र चतरू हर पाच समभाग 1/30 भाग विद्या देवी विधवा व सुमन लता नीलम रानी सीमा देवी पुतरियां वे महिंदर सिंह सुरेश पल पुत्रान आत्माराम पुत्र चतरू हर छ समभाग 1/30 भाग (1583)
109	150//14	निजी	कृषि	0.0002	श्रीमती प्रसन्नी देवी विधवा व रामसिंह- मान सिंह- भाग सिंह- बल सिंह- चरण सिंह पुत्रान व फुल्लो देवी- मुख्यारी भगती- चमेली- रोशनी पुत्रियां नेत राम पुत्र हरनाम हर 11 समभाग वासदेह (150//14)
110	1496	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0759	ग्राम पंचायत (1496)
111	1497	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0885	ग्राम पंचायत (1497)
112	184//22/1/2	निजी	कृषि	0.0051	मोहनलाल- राजिंदर कुमार- मलखान सिंह पुत्रान हर तीन समभाग 1/2 भाग श्रीमती बोहती देवी विधवा मंगल नंदराम 1/2 भाग वासीदेह (184//22/1/2)
113	184//22/2/1	सरकारी	रास्ता	0.0051	ग्राम पंचायत (184//22/2/1)
114	184//22/2/2	निजी	कृषि	0.0582	श्रीमती ग्यानो विधवा 8/235 भाग पाला राम- रामपाल- राजेश- मनोज पुत्रान पिरथी सिंह पुत्र इंदर हर चार समभाग 225/752 भाग जसवीर- राजकुमार पुत्रान दलेल सिंह पुत्र इंदर हर दो समभाग 1253/3760 भाग इशम सिंह पुत्र प्रेम पुत्र इंदर 403/1880 भाग रानी देवी पत्नी इशम देवी पुत्र प्रेम सिंह 28/235 भाग वासीदेह (184//22/2/2)
115	364/2	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0253	ग्राम पंचायत (364/2)

116	367	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0253	ग्राम पंचायत (367)
117	258//1	निजी	कृषि	0.1037	बलवंत पुत्र शोभा पुत्र हरनाम 1/3 भाग श्रीमती कलावती विधवा व संजीव कुमार- अनिल कुमार- प्रवीण कुमार पुत्र रामस्वरूप पुत्र शोभा हर चार समभाग 1/3 भाग राजपाल- सतबीर पुत्रान रामचंदर पुत्र शोभा राम हर दो समभाग 1/3 भाग वासीदेह (258//1)
118	258//2	निजी	कृषि	0.2226	बलवंत पुत्र शोभा पुत्र हरनाम 1/3 भाग श्रीमती कलावती विधवा व संजीव कुमार- अनिल कुमार- प्रवीण कुमार पुत्र रामस्वरूप पुत्र शोभा हर चार समभाग 1/3 भाग राजपाल- सतबीर पुत्रान रामचंदर पुत्र शोभा राम हर दो समभाग 1/3 भाग वासीदेह (258//2)
119	258//9	निजी	कृषि	0.043	महिन्दर सिंह पुत्र भुल्ला पुत्र रामरिख 250/1903 भाग रामपाल पुत्र भुल्ला पुत्र रामरिख 4/1903 भाग श्रीमती मेवा देवी विधवा मुल्तान पुत्र भुल्ला 58/1903 भाग कृषण कुमार- संजय कुमार पुत्रान मुल्तान पुत्र भुल्ला हर दो सम भाग 166/1903 भाग राजबीर- राजेश कुमार पुत्रान गुलाब सिंह पुत्र भुल्ला हर दो सम भाग 9/173 भाग सुभाष पुत्र बाबू पुत्र रामरिख 251/1903 भाग राजबीर पुत्र बाबू पुत्र रामरिख 15/1903 भाग तकदीर पुत्र जगदीश पुत्र दातू 238/1903 भाग जसमेर सिंह- महिन्दर सिंह पुत्रान बाबू पुत्र सिंध राम हर दो सम भाग 170/1903 भाग दलिप सिंह- रामपाल- जय सिंह- ओमप्रकाश पुत्रान तुहीया पुत्र जवाहरा हर चार सम भाग 333/1903 भाग बलवंत सिंह पुत्र शोभा राम पुत्र हरनंद 40/1903 भाग राजपाल- सतबीर पुत्रान रामचंदर पुत्र श्यो राम हर दो सम

					भाग 40/1903 भाग वासीदेह पालो देवी पत्नी फुल्ला राम पुत्र बनवारी 23 9/3806 भाग वासी संगरोली डोली देवी पत्नी बलराज पुत्र मोमन राम 23 9/3806 भाग वासी संगरोली (258//9)
120	366	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0126	ग्राम पंचायत (366)
121	1495	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0835	ग्राम पंचायत (1495)
122	218//21	निजी	कृषि	0.0126	श्रीमती ग्यानो विधवा 21/470 भाग पाला राम- रामपाल- राजेश- मनोज पुत्रान पिस्थी सिंह पुत्र इंदर हर चार समभाग 949/3290 भाग जसवीर- राजकुमार दलेल सिंह पुत्र इंदर हर दो समभाग 159/1645 श्रीमती तारो पत्नी अमर सिंह पुत्र बारू 779/3290 भाग इशम सिंह पुत्र प्रेम 58/329 भाग रानी देवी पत्नी इशम सिंह पुत्र प्रेम सिंह 11/70 भाग वासीदेह (218//21)
123	287	सरकारी(पंचायत)	तालाब	1.7351	ग्राम पंचायत कास्त - श्यामानंद पुत्र रामानंद चेला परमानन्द वासीदेह गैर मोरुसी (287)
गांव का नाम: मोहना					
124	33//9	निजी	कृषि	0.0025	श्रीमती रामजकुमारी विधवा रणवीर सिंह पुत्र ईशम 1/9 भाग वासीदेह श्रीमती सुनीता देवी विधवा हरपाल सिंह पुत्र ईशम सिंह 1/9 भाग वासी टयोठा सुखपाल सिंह पुत्र ईशम सिंह पुत्र देवा सिंह 2/9 भाग वासी टयोठा रजनी पत्नी सुखपाल सिंह पुत्र ईशम सिंह 1/9 भाग उधम सिंह पुत्र हरपाल सिंह पुत्र ईशम सिंह 2/9 भाग अमन पुत्र रणवीर सिंह पुत्र ईशम सिंह 2/9 भाग वासीदेह (33//9)

125	34//27	निजी	नलकूप	0.0051	राजकिशन - सुभाष चन्द पुत्रान बख्शी राम पुत्र बतालीराम हर दो समभाग 663/1117 भाग अश्वनी कुमार पुत्र बख्शी राम पुत्र बताली राम 340/1117 भाग तरुण - नवीन कुमार पुत्रान व संगीता पुत्री रजनी कुमारी पुत्री बख्शी राम हर तीन समभाग 114/1117 भाग (34//27)
126	45//24	निजी	कृषि	0.0101	प्रेम - रघुवीर - दलीप - महावीर - नफे सिंह पुत्रान रिशाल सिंह छाजू हर पांच समभाग वासी टयोठा (45//24)
127	288	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0228	ग्राम पंचायत (288)
128	48//13	सरकारी	ट्रेन	0.0025	हरियाणा सरकार (48//13)
129	62//26	निजी	नलकूप	0.0253	कलीराम पुत्र चन्दन सिंह पुत्र कुंदन सिंह 1/2 भाग रामदिया पुत्र चन्दन सिंह पुत्र कुंदन सिंह 1/4 भाग कमला देवी पत्नी रामदिया पुत्र चन्दन सिंह पुत्र कुंदन सिंह 1/4 भाग वासीदेह (62//26)
130	69//25/3	निजी	कृषि	0.1012	माना - रामदिया पुत्रान व श्रीमती बाला देवी पुत्री लाल जी राम पुत्र दौल्ला हर तीन समभाग वासीदेह (69//25/3)
131	294	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0253	ग्राम पंचायत (294)
गांव का नाम: पबनावा					
132	1555	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0253	ग्राम पंचायत (1555)
133	267	सरकारी	रास्ता	0.1189	ग्राम पंचायत (267)
134	268	सरकारी	सड़क	0.2909	ग्राम पंचायत (268)
135	461	अन्य(ग्राम	खाल	0.0253	ग्राम पंचायत

		पंचायत)			(461)
136	226//9/2/1	निजी	कृषि	0.0076	टेक चन्द - जय सिंह - जिला सिंह पुत्रान लाल सिंह पुत्र देवत राम हर तीन संमभाग वासीदेह (226//9/2/1)
137	226/9/2/2	निजी	कृषि	0.0051	पी डब्ल्यू डी (226/9/2/2)
138	226//2/1/2	निजी	कृषि	0.0025	सोना देवी पत्नी अजमेर सिंह पुत्र मंगत राम 5/26 भाग फतेह चन्द पुत्र मनिया पुत्र उदा 7/104 भाग ईश्वर चन्द पुत्र मनिया पुत्र उदा 19/78 भाग सोमनाथ - ओम प्रकाश पुत्रान अन्तु हर दो समभाग 457/2340 भाग मामचन्द पुत्र अन्तु 10/117 भाग मुख्तारी देवी विधवा व प्रेमो देवी पुत्री अन्तु पुत्र देवती 19/780 भाग विद्या देवी विधवा व नीलम देवी पुत्री व जितेन्द्र कुमार पुत्र मामचन्द पुत्र अन्तु 19/1560 भाग सुमन विधवा जगदीश पुत्र भुला 14/117 भाग रविन्द्र कुमार पुत्र जगदीश पुत्र भुला 7/117 भाग वासीदेह (226//2/1/2)
139	1566	अन्य(रास्ता)	ग्राम पंचायत	0.0202	ग्राम पंचायत (1566)
140	279	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0834	ग्राम पंचायत (279)
गांव का नाम: फरल					
141	210//21	निजी	कृषि	0.0076	श्रीचन्द पुत्र बनवारी लाल पुत्र नारायण दास 928/8997 भाग राजेन्द्र - तिलकराज पुत्रान किशन दत्त पुत्र रति राम 103/5998 भाग बीरवल - रमेश पुत्रान रति राम पुत्र बनवारी हर दो समभाग 103/2999 भाग जसमेर सिंह पुत्र प्रेम सिंह पुत्र सूरत सिंह 115/8997 भाग लीला देवी पत्नी शिव सिंह पुत्र करतु 115/8997 भाग सम्भुदत्त पुत्र रति राम पुत्र बनवारी 30/2999 भाग सुभम कुमार

					<p>पुत्र शिव दत्त पुत्र रति राम 103/23992 भाग रितु देवी पुत्री सतबीर पुत्र रति राम 103/23992 भाग बिमला देवी विधवा व मनीष कुमार – रजनीश कुमार पुत्रान कृष्ण पुत्र सूरत सिंह 115/8997 भाग शिव सिंह पुत्र करतु पुत्र बुध सिंह 202/2999 भाग बाबू राम - जिले सिंह पुत्रान नारायण पुत्र बुध सिंह हर दो समभाग 231/2999 भाग काँटी देवी विधवा व खजान सिंह – बलवान सिंह – चरण सिंह – राज कुमार – शिव कुमार – राजेन्द्र कुमार – देवी लाल पुत्रान दलेल सिंह पुत्र नारायण हर आठ समभाग 58/2999 भाग पालो देवी विधवा फुल्ला राम पुत्र बनवारी 928/62979 भाग सोना देवी विधवा व राम देवी - सत्य देवी - पिकी देवी - कमलेश पुत्रीयान व रामनिवास - सतीश कुमार उर्फ बबली - महेन्द्र कुमार पुत्रान मोमन राम पुत्र बनवारी हर आठ समभाग 928/8997 भाग राजपाल – मदन लाल – बलराज पुत्रान प्रेम पुत्र आत्मा राम हर तीन समभाग 264/2999 भाग नीलम पत्नी सुमेर पुत्र भजनी 142/2999 भाग संतोष पत्नी बलबीर पुत्र भजनी 142/2999 भाग सुभाष पुत्र भजनी पुत्र कन्हैया 142/2999 भाग रितु देवी पुत्री व अमन - मनीष पुत्रान सतबीर सिंह पुत्र रतीराम हर तीन समभाग 927/95968 भाग जसविन्द्र सिंह - राजेन्द्र सिंह पुत्रान भाग सिंह पुत्र करतु हर दो समभाग 202/2999 भाग सतपाल – राजेश - सतीश पुत्रान रोशन लाल पुत्र आत्मा राम हर तीन समभाग 264/2999 भाग सुमन देवी पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्र रघबीर सिंह 31/2999 भाग बोहती विधवा सतबीर सिंह पुत्र रतिराम 181/95968 भाग शिवदत्त पुत्र रतिराम पुत्र बनवारी 185/23992 भाग दुलारी पत्नी रमेश कुमार पुत्र रतिराम 5/2999</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					भाग वासीदेह कौशल्या देवी पत्नी वीरबल पुत्र रतिराम 5/2999 भाग वासी संगरौली मांगे राम – वीरभान - राजवीर पुत्रान फुला राम पुत्र बनवारी हर तीन समभाग 1856/20993 भाग वासीदेह (210//21)
142	211//17	निजी	कृषि	0.0004	प्रदीप - संदीप - भूपेन्द्र सिंह पुत्रान धर्म सिंह पुत्र फकिरिया हर तीन समभाग 1/8 भाग जसवीर - राजपाल पुत्रान सीरिया पुत्र लालू हर दो समभाग 1/3 भाग यशपाल पुत्र फकिरिया पुत्र लालू 3947/24402 भाग अनिल कुमार पुत्र देवीदयाल पुत्र सूरजभान 20/4067 भाग सुमन देवी विश्रवा व सीता देवी पुत्री व विक्रान्त - शिवम पुत्रान कुलदीप सिंह पुत्र धर्म सिंह हर चार समभाग 1/24 भाग मामचन्द पुत्र सिरिया पुत्र लालू 83/9714 भाग माया देवी पत्नी माम चन्द पुत्र सिरिया 128/1619 भाग राहुल पुत्र मामचन्द पुत्र सिरिया 128/1619 भाग रणवीर पुत्र फकिरिया पुत्र लालू 1219/41874 भाग गुलशन तंवर पुत्र व सुदेश रानी पत्नी रणवीर सिंह फकिरिया हर दो समभाग 960/6979 भाग वासीदेह (211//17)
143	252//22/2	निजी	कृषि	0.0506	रामचन्द्र पुत्र जीतू राम पुत्र मान सिंह 279/3106 भाग हवा सिंह - सुरेश कुमार - कृष्ण कुमार पुत्रान रामचन्द्र पुत्र जीतू राम हर तीन समभाग 2/1553 भाग करतारा – तारा पुत्रान सुखराम पुत्र हरनाम हर दो समभाग 159/3106 भाग श्रीचन्द पुत्र बनवारी पुत्र नारायण 961/9318 भाग राजेन्द्र - तिलक राज पुत्रान किशन दत्त पुत्र रतिराम 640/32613 भाग रमेश पुत्र रतिराम पुत्र बनवारी 640/32613 भाग वीरबल – सम्भु दत्त पुत्रान रतिराम पुत्र बनवारी हर दो समभाग 320/32613 भाग शिवम् कुमार पुत्र शिवदत्त पुत्र रतिराम

					<p>160/32613 भाग रितु देवी पुत्री सतबीर पुत्र रति राम 160/32613 भाग सतबीर पुत्र रतिराम पुत्र बनवारी 160/10871 भाग रोशन लाल - प्रेम चन्द पुत्रान व श्रीमति रोशनी - दर्शनी - प्रेम देवी पुत्रियान आत्मा राम पुत्र दातु हर पांच समभाग 547/3106 भाग जसमेर सिंह पुत्र प्रेम सिंह पुत्र सूरत सिंह 119/9318 भाग लीला देवी पत्नी शिव सिंह पुत्र करतु राम 119/9318 भाग विमला देवी विधवा व मनीष कुमार - रजनीश कुमार पुत्रान कृष्ण पुत्र सूरत सिंह हर तीन समभाग 119/9318 भाग शिव सिंह पुत्र नारायण सिंह पुत्र बुध सिंह 209/3106 भाग बाबू राम - जिले सिंह पुत्र नारायण सिंह पुत्र बुद्ध सिंह हर दो समभाग 239/3106 भाग श्रीमति काँटी देवी विधवा व खजान सिंह - बलवान सिंह - चरण सिंह - राजकुमार - शिव कुमार - राजेंद्र कुमार - देवी लाल पुत्रान दलेल सिंह पुत्र नारायण सिंह हर आठ समभाग 30/1553 भाग पालो देवी विधवा फुला राम पुत्र बनवारी 961/65226 भाग सोना देवी विधवा व रामदेवी - सत्या देवी - कमलेश पुत्रीयान व रामनिवास - सतीश कुमार उर्फ बबलू महेन्द्र कुमार पुत्रान व पिंकी देवी पुत्री मोमन राम पुत्र बनवारी हर आठ समभाग 961/9318 भाग जसविन्द्र सिंह - राजेन्द्र सिंह पुत्रान भाग सिंह पुत्र करतु हर दो समभाग 209/3106 भाग सुमन देवी पत्नी महेन्द्र सिंह पुत्र रघवीर सिंह 320/10871 भाग मांगे राम - वीरभान - राजबीर पुत्रान फुला राम पुत्र बनवारी हर तीन सम भाग 961/10871 भाग वासीदेह (252//22/2)</p>
144	1308	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0835	ग्राम पंचायत (1308)

145	372	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.0101	ग्राम पंचायत (372)
146	346	सरकारी	नहर	0.0177	हरियाणा सरकार (346)
147	328//19	निजी	कृषि	0.1341	पवन कुमार - जिले सिंह - सुशील कुमार पुत्रान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 753/1328 भाग सतपाल पुत्र रामकिशन पुत्र मंगल 243/1328 भाग फुली देवी विधवा व संतोष कुमारी - सुमन देवी पुत्रीयान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 3/16 भाग अनिल कुमार - नरेन्द्र कुमार पुत्रान सोना देवी पुत्री रामकिशन हर दो समभाग 1/16 भाग वासीदेह (328//19)
148	328//21	निजी	कृषि	0.0455	पवन कुमार - जिले सिंह - सुशील कुमार पुत्रान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 753/1328 भाग सतपाल पुत्र रामकिशन पुत्र मंगल 243/1328 भाग फुली देवी विधवा व संतोष कुमारी - सुमन देवी पुत्रीयान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 3/16 भाग अनिल कुमार - नरेन्द्र कुमार पुत्रान सोना देवी पुत्री रामकिशन हर दो समभाग 1/16 भाग वासीदेह (328//21)
149	328//22	निजी	कृषि	0.2959	पवन कुमार - जिले सिंह - सुशील कुमार पुत्रान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 753/1328 भाग सतपाल पुत्र रामकिशन पुत्र मंगल 243/1328 भाग फुली देवी विधवा व संतोष कुमारी - सुमन देवी पुत्रीयान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 3/16 भाग अनिल कुमार - नरेन्द्र कुमार पुत्रान सोना देवी पुत्री रामकिशन हर दो समभाग 1/16 भाग वासीदेह (328//22)
150	329//1	निजी	कृषि	0.1872	पवन कुमार - जिले सिंह - सुशील कुमार

					पुत्रान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 753/1328 भाग सतपाल पुत्र रामकिशन पुत्र मंगल 243/1328 भाग फुली देवी विधवा व संतोष कुमारी - सुमन देवी पुत्रीयान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 3/16 भाग अनिल कुमार - नरेन्द्र कुमार पुत्रान सोना देवी पुत्री रामकिशन हर दो समभाग 1/16 भाग वासीदेह (329//1)
151	329//2	निजी	कृषि	0.2782	पवन कुमार - जिले सिंह - सुशील कुमार पुत्रान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 753/1328 भाग सतपाल पुत्र रामकिशन पुत्र मंगल 243/1328 भाग फुली देवी विधवा व संतोष कुमारी - सुमन देवी पुत्रीयान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 3/16 भाग अनिल कुमार - नरेन्द्र कुमार पुत्रान सोना देवी पुत्री रामकिशन हर दो समभाग 1/16 भाग वासीदेह (329//2)
152	329//9	निजी	कृषि	0.0986	पवन कुमार - जिले सिंह - सुशील कुमार पुत्रान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 753/1328 भाग सतपाल पुत्र रामकिशन पुत्र मंगल 243/1328 भाग फुली देवी विधवा व संतोष कुमारी - सुमन देवी पुत्रीयान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 3/16 भाग अनिल कुमार - नरेन्द्र कुमार पुत्रान सोना देवी पुत्री रामकिशन हर दो समभाग 1/16 भाग वासीदेह (329//9)
153	329//10	निजी	कृषि	0.1467	पवन कुमार - जिले सिंह - सुशील कुमार पुत्रान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 753/1328 भाग सतपाल पुत्र रामकिशन पुत्र मंगल 243/1328 भाग फुली देवी विधवा व संतोष कुमारी - सुमन देवी पुत्रीयान रामकिशन पुत्र मंगल हर तीन समभाग 3/16 भाग अनिल कुमार -

					नरेन्द्र कुमार पुत्रान सोना देवी पुत्री रामकिशन हर दो समभाग 1/16 भाग वासीदेह (329//10)
	गांव का नाम: पूण्डरी				
154	179//16/1	निजी	कृषि	0.0961	सतपाल पुत्र इन्द्र पुत्र शंकर 1/2 भाग सुनीता देवी पत्नी सतपाल पुत्र इन्द्र 1/2 भाग वासीदेह (179//16/1)
155	180//12/1/2	निजी	कृषि	0.0025	पृथ्वी सिंह पुत्र नौरंग सिंह पुत्र नन्हू 447/1444 भाग मंगल सिंह पुत्र राम सिंह बधाऊ 161/5776 भाग जिले सिंह पुत्र कन्हैया पुत्र बदामा 20/361 भाग जरनैल सिंह पुत्र गुरमुख सिंह पुत्र उजागर सिंह 5/361 भाग सतपाल, बलवान पुत्र प्रेम सिंह पुत्र नौरंग हर दो समभाग 25/361 भाग ओमप्रकाश पुत्र राम सिंह पुत्र बधाऊ 161/5776 भाग विपन कैनिवाल पुत्र राजकुमार पुत्र मोती 241/1444 भाग सुरेन्द्र कुमार, प्रवीन कुमार पुत्र केहर सिंह पुत्र बुल्ला हर दो समभाग 7/76 भाग गुरदेव सिंह, जरनैल सिंह पुत्र गुरमुख सिंह पुत्र उजागर सिंह हर दो समभाग 47/1083 भाग मुख्तयार सिंह पुत्र गुरमुख सिंह पुत्र उजागर सिंह 73/4332 भाग कुलवंत सिंह पुत्र गुरमुख सिंह पुत्र उजागर सिंह 13/4332 भाग लखविन्द्र सिंह पुत्र गुरमुख सिंह पुत्र उजागर सिंह 13/4332 भाग तारो देवी विधवा और शीला पुत्रीयाँ मानसिंह पुत्र सोरन सिंह समभाग 134/2527 भाग अंकित पुत्र ऋषिपाल पुत्र मान सिंह 67/7581 भाग अजय पुत्र ऋषिपाल पुत्र मानसिंह 31/5054 भाग बलकार पुत्र मानसिंह पुत्र सोरन हर समभाग 670/7581 भाग बलवन्त पुत्र रामसिंह पुत्र बधाऊ 161/2888 भाग जसवंत सिंह पुत्र गुरमुख सिंह पुत्र उजागर सिंह 13/4332 भाग वासीदेह

					(180//12/1/2)
156	185//26	निजी	कृषि	0.3035	शेर सिंह पुत्र व जिरासो - शान्ति पुत्रीयान हरलाल पुत्र नन्दू हर तीन समभाग 3/14 भाग पिरथी पुत्र नौरंग पुत्र नन्दू 50/156 भाग रामचन्द्र पुत्र हरलाल पुत्र नन्दू 1/1092 भाग रोशनी विधवा व सतपाल - बलवान पुत्र प्रेम सिंह पुत्र नौरंग हर तीन समभाग 1/4 भाग सतबीर सिंह पुत्र हरि सिंह पुत्र हरलाल 3/14 भाग वासीदेह (185//26)
157	218//21	निजी	कृषि	0.0101	सुनील कुमार - ज्ञानचन्द पुत्रान ओमप्रकाश पुत्र नाथू राम 1/2 भाग रामपाल पुत्र नाथू पुत्र चन्दन 1/2 भाग समभाग वासी बरसाना (218//21)
158	301//14/2/1	निजी	कृषि	0.263	धर्म सिंह पुत्र बधाऊ पुत्र कुन्दन 49/332 भाग ईश्वर - राजकुमार पुत्रान रामस्वरूप पुत्र धन सिंह हर दो समभाग 127/996 भाग सुलतान सिंह पुत्र जुगलाल पुत्र शोरण 85/1992 भाग चन्दगीराम - टेकचन्द - मांगेराम पुत्रान जुगलाल पुत्र ब्रह्मानन्द हर तीन समभाग 175/1328 भाग रामफल - अनिल कुमार पुत्रान वेदप्रकाश पुत्र जुगलाल हर दो समभाग 5/332 भाग प्रवीण पुत्र सुनहेरा पुत्र शयोला 205/1992 भाग रोशन लाल - जोगिन्द्र सिंह पुत्रान नेकी राम पुत्र धन सिंह हर दो समभाग 205/1992 भाग कृष्ण लाल - जोगिन्द्र सिंह - कुलविन्द्र सिंह पुत्रान जय सिंह पुत्र शोरण हर तीन समभाग 43/996 भाग सुमनलता विधवा चन्द्रभान पुत्र जुगलाल 5/1328 भाग राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जनार्दन दास व जनार्दन दास पुत्र अनंत राम पुत्र ब्रह्मानन्द हर दो समभाग 1123/5976 भाग मुकेश कुमार पुत्र राजपाल पुत्र जनार्दन दास 283/2988 भाग वासीदेह (301//14/2/1)

159	301//14/2/2	निजी	कृषि	0.263	<p>धर्म सिंह पुत्र बधाऊ पुत्र कुन्दन 49/332 भाग ईश्वर - राजकुमार पुत्रान रामस्वरूप पुत्र धन सिंह हर दो समभाग 127/996 भाग सुलतान सिंह पुत्र जुगलाल पुत्र शोरण 85/1992 भाग चन्दगीराम - टेकचन्द - मांगेराम पुत्रान जुगलाल पुत्र ब्रह्मानन्द हर तीन समभाग 175/1328 भाग रामफल - अनिल कुमार पुत्रान वेदप्रकाश पुत्र जुगलाल हर दो समभाग 5/332 भाग प्रवीण पुत्र सुनहेरा पुत्र शयोला 205/1992 भाग रोशन लाल - जोगिन्द्र सिंह पुत्रान नेकी राम पुत्र धन सिंह हर दो समभाग 205/1992 भाग कृष्ण लाल - जोगिन्द्र सिंह - कुलविन्द्र सिंह पुत्रान जय सिंह पुत्र शोरण हर तीन समभाग 43/996 भाग सुमनलता विधवा चन्द्रभान पुत्र जुगलाल 5/1328 भाग राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जनार्दन दास व जनार्दन दास पुत्र अनंत राम पुत्र ब्रह्मानन्द हर दो समभाग 1123/5976 भाग मुकेश कुमार पुत्र राजपाल पुत्र जनार्दन दास 283/2988 भाग वासीदेह (301//14/2/2)</p>
160	301//16/1	निजी	कृषि	0.0708	<p>धर्म सिंह पुत्र बधाऊ पुत्र कुन्दन 49/332 भाग ईश्वर - राजकुमार पुत्रान रामस्वरूप पुत्र धन सिंह हर दो समभाग 127/996 भाग सुलतान सिंह पुत्र जुगलाल पुत्र शोरण 85/1992 भाग चन्दगीराम - टेकचन्द - मांगेराम पुत्रान जुगलाल पुत्र ब्रह्मानन्द हर तीन समभाग 175/1328 भाग रामफल - अनिल कुमार पुत्रान वेदप्रकाश पुत्र जुगलाल हर दो समभाग 5/332 भाग प्रवीण पुत्र सुनहेरा पुत्र शयोला 205/1992 भाग रोशन लाल - जोगिन्द्र सिंह पुत्रान नेकी राम पुत्र धन सिंह हर दो समभाग 205/1992 भाग कृष्ण लाल - जोगिन्द्र सिंह - कुलविन्द्र सिंह पुत्रान जय सिंह पुत्र शोरण हर तीन समभाग 43/996 भाग सुमनलता विधवा</p>

					चन्द्रभान पुत्र जुगलाल 5/1328 भाग राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जनार्दन दास व जनार्दन दास पुत्र अनंत राम पुत्र ब्रह्मानन्द हर दो समभाग 1123/5976 भाग मुकेश कुमार पुत्र राजपाल पुत्र जनार्दन दास 283/2988 भाग वासीदेह (301//16/1)
161	301//23/1	निजी	रास्ता	0.0025	सुभाष पुत्र लीला राम पुत्र झंडु 2/13 भाग इशमा - रंगी - रमेश - जयसिंह पुत्रान मंगत राम पुत्र झंडु हर चार समभाग 1/3 भाग महावीर - धर्मवीर पुत्रान पूर्ण पुत्र हरकेश हर दो समभाग 3/13 भाग कृष्ण पुत्र माईचन्द पुत्र मंगतराम 1/13 भाग सुलतान सिंह - रामकुमार - महिंदर सिंह पुत्रान फुल्ला उर्फ छोटु पुत्र पूर्ण चन्द हर तीन समभाग 7/39 भाग विक्रम पुत्र अजमेर सिंह पुत्र फुल्ला उर्फ छोटु 1/39 भाग वासीदेह (301//23/1)
162	311//8/2/1	निजी	रास्ता	0.0177	धर्म सिंह पुत्र बधाऊ पुत्र हरनाम 4/23 भाग देशराज - सुभाष पुत्रान बधाऊ पुत्र हरनाम समभाग 15/46 भाग सरूपी देवी विधवा जीत सिंह पुत्र बधाऊ राम 4/23 भाग पानकोरी पत्नी जय सिंह पुत्र आभे राम 3/46 भाग मुख्तारी देवी पत्नी सुन्दर राम पुत्र आभा राम 3/46 भाग संतोष देवी - निर्मला देवी - सुनीता देवी पुत्रीयान माला राम पुत्र बधाऊ राम 1/46 भाग सुशील कुमार - अमित कुमार पुत्रान श्रीचन्द पुत्र बधाऊ 4/23 भाग वासीदेह (311//8/2/1)
163	311//8/2/2	निजी	कृषि	0.0177	देशराज पुत्र बधाऊ पुत्र हरनाम 403/1206 भाग सुभाष चन्द पुत्र बधाऊ पुत्र हरनाम 391/1206 भाग सुशील कुमार - अमित कुमार पुत्रान श्रीचन्द पुत्र बधाऊ राम हर दो समभाग 206/603 भाग वासीदेह

					(311//8/2/2)
164	311//19/1	निजी	कृषि	0.0278	देशराज पुत्र बधाऊ पुत्र हरनाम 403/1206 भाग सुभाष चन्द पुत्र बधाऊ पुत्र हरनाम 391/1206 भाग सुशील कुमार - अमित कुमार पुत्रान श्रीचन्द पुत्र बधाऊ राम हर दो समभाग 206/603 भाग वासीदेह (311//19/1)
165	311//19/2	निजी	कृषि	0.0101	सरूपी देवी विधवा जीत सिंह पुत्र बधाऊ (311//19/2)
166	311//22/2	निजी	कृषि	0.1315	सरूपी देवी विधवा जीत सिंह पुत्र बधाऊ (311//22/2)
167	319//23	निजी	कृषि	0.0101	जगदीश पुत्र कर्ता पुत्र झंडु 1/4 भाग संता - बधाऊ पुत्रान झंडु पुत्र सुरजा हर दो समभाग 1/2 भाग सुरेन्द्र कुमार - सुरेश कुमार पुत्रान प्यारेलाल पुत्र झंडु हर दो समभाग 1/4 भाग वासीदेह (319//23)
168	903	अन्य(नगर पालिका)	रास्ता	0.0177	जुमला मालकान व दीगर हकदारान अराजी हसव रसद रकबा वासीदेह (903)
169	289//11/2	निजी	कृषि	0.0025	सुलतान सिंह पुत्र जुगलाल पुत्र शोरण 173/799 भाग संजीव कुमार - राजीव कुमार पुत्रान हरी सिंह पुत्र मंगल 120/799 भाग मोती - रघवीर सिंह - सुलतान सिंह पुत्रान सिंधु पुत्र बदामा हर तीन समभाग 80/799 भाग वासीदेह श्रीमति सुनीता देवी पुत्री कर्ताराम पुत्र दयोटिया 200/799 भाग वासी बरसाना राजेश पुत्र दलीप पुत्र छोदु राम 106/3995 भाग धनपती विधवा दलीप पुत्र छोदु राम 2/255 भाग सुनीता पुत्री दलीप पुत्र छोदु 53/3995 भाग कृष्ण लाल - जोगिन्द्र सिंह - कुलविन्द्र सिंह पुत्रान जय सिंह पुत्र शोरण हर तीन समभाग 120/799 भाग राकेश पुत्र दलीप पुत्र छोदु राम 18/3995 भाग रोशनी विधवा पिरथी पुत्र छोदु 60/799 भाग

					रीना देवी पत्नी कुलविन्द्र सिंह पुत्र जय सिंह 13/2397 भाग वासीदेह (289//11/2)
170	443	अन्य(नगर पालिका)	खाल	0.0252	नगरपालिका (443)
171	301//23/2	निजी	कृषि	0.0328	सुभाष पुत्र लीला राम पुत्र झंडु 41/159 भाग इशमा - रंगी - रमेश - जयसिंह पुत्रान मंगत राम पुत्र झंडु 472/795 भाग कृष्ण कुमार पुत्र माई चन्द पुत्र मंगत राम 118/795 भाग वासीदेह (301//23/2)
172	301//16/2	निजी	कृषि	0.1972	धर्म सिंह पुत्र बधाऊ पुत्र कुन्दन 49/332 भाग ईश्वर - राजकुमार पुत्रान रामस्वरूप पुत्र धन सिंह हर दो समभाग 127/996 भाग सुलतान सिंह पुत्र जुगलाल पुत्र शोरण 85/1992 भाग चन्दगीराम - टेकचन्द - मांगेराम पुत्रान जुगलाल पुत्र ब्रह्मानन्द हर तीन समभाग 175/1328 भाग रामफल - अनिल कुमार पुत्रान वेदप्रकाश पुत्र जुगलाल हर दो समभाग 5/332 भाग प्रवीण पुत्र सुनहेरा पुत्र शयोला 205/1992 भाग रोशन लाल - जोगिन्द्र सिंह पुत्रान नेकी राम पुत्र धन सिंह हर दो समभाग 205/1992 भाग कृष्ण लाल - जोगिन्द्र सिंह - कुलविन्द्र सिंह पुत्रान जय सिंह पुत्र शोरण हर तीन समभाग 43/996 भाग सुमनलता विधवा चन्द्रभान पुत्र जुगलाल 5/1328 भाग राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जनार्दन दास व जनार्दन दास पुत्र अनंत राम पुत्र ब्रह्मानन्द हर दो समभाग 1123/5976 भाग मुकेश कुमार पुत्र राजपाल पुत्र जनार्दन दास 283/2988 भाग वासीदेह (301//16/2)
173	432	अन्य(नगर पालिका)	खाल	0.0075	महाजी मालकान वासीदेह (432)
174	218//9	निजी	कृषि	0.005	चमेली पत्नी धर्म सिंह पुत्र सिंघु राम

					145/529 भाग वासी ग्राम बरसाना कर्म सिंह पुत्र बधाऊ राम पुत्र सुरजा 31/529 भाग रघवीर सिंह - रणधीर सिंह पुत्रान सिंह पुत्रान सुरजा हर दो समभाग 353/529 भाग वासीदेह (218//9)
175	218//7/2/3	निजी	कृषि	0.005	प्रेम चन्द पुत्र लक्ष्मन पुत्र सादा वासीदेह (218//7/2/3)
176	180//10/2	अन्य(नगर पालिका)	रास्ता	0.0252	जुमला मलकान व दीगर हकदारान अराजी हसव रसद रकबा वासीदेह (180//10/2)
177	180//20/2	निजी	कृषि	0.0404	सतपाल पुत्र इन्द्र पुत्र शंकर 1/2 भाग सुनीता देवी पत्नी सतपाल पुत्र इन्द्र 1/2 भाग वासीदेह (180//20/2)
178	971	अन्य(नगर पालिका)	रास्ता	0.0025	जुमला मलकान व डिगर हकदारान अराजी हासव रसद रकबा वासीदेह (971)
गांव का नाम: संगरौली					
179	276	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0051	ग्राम पंचायत (276)
180	175	अन्य(ग्राम पंचायत)	रास्ता	0.043	ग्राम पंचायत (175)
181	26//13/1	निजी	कृषि	0.0202	रघवीर सिंह पुत्र धन सिंह पुत्र उदैसिंह वासीदेह (26//13/1)
182	53//2	निजी	कृषि	0.0025	सुरेंदर सिंह - बलबिंदर सिंह पुत्रान अजमेर सिंह पुत्र चतर सिंह हर दो समभाग (53//2)
183	54//17	निजी	कृषि	0.0025	हुकम सिंह पुत्र लाल सिंह पुत्र धर्म सिंह 1/5 भागशांति विश्ववा व सुभाष चन्दर कृष्ण, कृष्ण कुमार पुत्रान व कृष्णा-कविता देवी - सविता देवी पुत्री दलीप सिंह पुत्र लाल सिंह हर छ समभाग 1/5 भाग चमेली विश्ववा व सुषमा पुत्री व सतबीर - रणवीर पुत्र अजमेर सिंह पुत्र

					लाल सिंह हर चार समभाग 1/5 भाग रमेश पुत्र महेन्दर सिंह पुत्र लाल सिंह 1/10 भाग उषा देवी विधवा राजेश कुमार पुत्र महेन्दर सिंह 1/10 भाग सुखवीर सिंह पुत्र लालसिंह 1/5 भाग वासीदेह (54//17)
184	54//23	निजी	कृषि	0.0278	दर्शनी पुत्र सोरण पुत्र आशा 49/3491 भाग सुदेशो पुत्री शोर्ण पुत्र आसा 4/3491 भाग सुरेश पुत्र शोरण पुत्र आसा 220/3491 भाग राजपाल - प्रदीप कुमार पुत्रान सुरेश पुत्र सोरण हर दो समभाग 1609/3491 भाग गौरव कुमार - मोहित कुमार पुत्रान सुरेश कुमार पुत्र सोरण हर दो समभाग 1609/3491 भाग वासीदेह (54//23)
185	299	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.0455	ग्राम पंचायत (299)
186	86//9/1/1	निजी	कृषि	0.0011	सुबेग सिंह - गुरमेज सिंह - सुखविंदर सिंह पुत्रान भगवान सिंह पुत्र परताप सिंह हर तीन समभाग 177/446 भाग यशदीप पुत्र करनैल सिंह पुत्र सेवा सिंह 31/223 भाग मनीष कुमार पुत्र समशेर सिंह पुत्र सेवा सिंह 31/223 भाग राहुल पुत्र समशेर सिंह पुत्र सेवा सिंह 26/233 भाग अजय कुमार - साहिल कुमार पुत्र कृष्ण कुमार पुत्र सेवा सिंह हर दो समभाग 31/223 नरेंद्र पुत्र मल्कान सिंह पुत्र सेवा सिंह पुत्र 31/446 भाग वासीदेह (86//9/1/1)
गांव का नाम: थेह बडेला					
187	36//1	निजी	निजी	0.1543	रणधीर सिंह पुत्र व बंती देवी पुत्री केहर पुत्र रामजी लाल हर दो समभाग 2/15 भाग टीका पुत्र मान सिंह पुत्र रामजी लाल 346/6925 भाग फुलि विधवा व दिलबाग - सुरेश पुत्रान व अनीता - आशा रानी - करमजीत कौर पुत्रियांन मेवा राम पुत्र मान सिंह हर छः समभाग 346/6925

					भाग सजनी विधवा व मोनिया पुत्री व गुरमीत पुत्र बंशीलाल पुत्र केहर सिंह हर तीन समभाग 1/15 भाग जिले सिंह पुत्र सुरजन पुत्र रामजीलाल 1/20 भाग खजान सिंह पुत्र सुरजन पुत्र रामजीलाल 1591/27700 भाग वासीदेह जीतो देवी विधवा दलीप सिंह पुत्र मान सिंह 346/6925 भाग वासी पाई सुबे सिंह लख्मीचंद - सुरेंदर - राजेंदर पुत्रान जानीराम पुत्र मान सिंह हर चार समभाग 244/6925 भाग महावीर सिंह पुत्र शेरा पुत्र रामजीलाल 1/15 भाग चांदीराम - पालाराम - कृष्ण कुमार - वेदपाल - वकील पुत्रान सरदारा पुत्र रामजीलाल हर हर पांच समभाग 1/5 भाग जय भागवान पुत्र जागर सिंह पुत्र सुरजन 1/20 भाग बलबिंदर सिंह - सुखदेव सिंह पुत्रान दलीप सिंह पुत्र सुरजन हर दो समभाग 143/5540 भाग वसिदेह कैलो देवी विधवा दलीप सिंह व सुमन - कुसुम - मोसम पुत्रियांन दलीप सिंह पुत्र सुरजन हर चार समभाग 219/6925 भाग रोहताश - बलबिंदर पुत्रान महावीर पुत्र शेरा हर दो समभाग 2/15 भाग वासीदेह (36//1)
188	36//10	निजी	निजी	0.0051	ओमपति विधवा टेका पुत्र देशराज 39/400 भाग जोगिंदर - प्रदीप - सतीश पुत्रान टेका पुत्र देशराज हर तीन समभाग 57/80 भाग बिमला विधवा व राकेश पुत्र व पूजा - काजल - पुत्रियाँन सुरेश टेका 19/100 भाग (36//10)
189	113	अन्य(ग्राम पंचायत)	खाल	0.1416	ग्राम पंचायत (113)
190	37//15	निजी	कृषि	0.0152	ओमपति विधवा टेका पुत्र देशराज 39/400 भाग जोगिंदर - प्रदीप - सतीश पुत्रान टेका पुत्र देशराज हर तीन समभाग 57/80 भाग बिमला विधवा व राकेश पुत्र

					व पूजा - काजल - पुत्रियाँन सुरेश टेका 19/100 भाग (37//15)
	तालुक का नाम: राजौन्द				
	गांव का नाम: मनडवाल				
1	122	निजी	रास्ता	0.0708	ग्राम पंचायत (122)
2	41//1	निजी	कृषि	0.0126	सुखविन्द्र कौर विधवा व कर्मजीत सिंह - तरनजीत सिंह पुत्रान दीदार सिंह पुत्र चूहड़ सिंह हर तीन समभाग 181/1093 भाग कश्मीर सिंह पुत्र सिंगारा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 116/1093 भाग रणजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह पुत्र सावल सिंह 398/1093 भाग रेशम सिंह - सिकन्दर पाल सिंह पुत्रान अजायब सिंह पुत्र दलबीर सिंह हर दो समभाग 398/1093 भाग वासीदेह (41//1)
3	41//10	निजी	कृषि	0.0607	सुखविन्द्र कौर विधवा व कर्मजीत सिंह - तरनजीत सिंह पुत्रान दीदार सिंह पुत्र चूहड़ सिंह हर तीन समभाग 181/1093 भाग कश्मीर सिंह पुत्र सिंगारा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 116/1093 भाग रणजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह पुत्र सावल सिंह 398/1093 भाग रेशम सिंह - सिकन्दर पाल सिंह पुत्रान अजायब सिंह पुत्र दलबीर सिंह हर दो समभाग 398/1093 भाग वासीदेह (41//10)
4	41//11	निजी	कृषि	0.086	सुखविन्द्र कौर विधवा व कर्मजीत सिंह - तरनजीत सिंह पुत्रान दीदार सिंह पुत्र चूहड़ सिंह हर तीन समभाग 181/1093 भाग कश्मीर सिंह पुत्र सिंगारा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 116/1093 भाग रणजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह पुत्र सावल सिंह 398/1093 भाग रेशम सिंह - सिकन्दर पाल सिंह पुत्रान अजायब सिंह पुत्र दलबीर सिंह हर दो समभाग 398/1093

					भाग वासीदेह (41//11)
5	41//20/1	निजी	कृषि	0.0809	जगदीश पुत्र अंतू पुत्र धर्मा रहन हिस्सा 60/671 भाग बिला रहन हिस्सा 104/671 भाग शेर सिंह - सुभाष पुत्रान खजाना पुत्र अंतू हर दो समभाग रहन हिस्सा 20/671 भाग बिला रहन हिस्सा 40/671 भाग परमजीत कौर पत्नी अजीत सिंह पुत्र सिंगारा सिंह 40/671 भाग सेवा सिंह पुत्र आत्मा सिंह पुत्र नंद सिंह 40/671 भाग मुस्तहन श्रीमती किताबो देवी पत्नी कर्मवीर पुत्र अंतू 223/671 भाग महावीर - कुलवंत - जसपाल पुत्रान सरदारा पुत्र शिवकरन हर तीन समभाग 168/671 भाग अमित कुमार - मनीष कुमार पुत्रान कर्मसिंह पुत्र सरदारा हर दो समभाग 56/671 भाग वासीदेह (41//20/1)
6	41//20/2	निजी	कृषि	0.0354	सुखविन्द्र कौर विधवा व कर्मजीत सिंह - तरनजीत सिंह पुत्रान दीदार सिंह पुत्र चूहड़ सिंह हर तीन समभाग 181/1093 भाग कश्मीर सिंह पुत्र सिंगारा सिंह पुत्र सुन्दर सिंह 116/1093 भाग रणजीत सिंह पुत्र दलबीर सिंह पुत्र सावल सिंह 398/1093 भाग रेशम सिंह - सिकन्दर पाल सिंह पुत्रान अजायब सिंह पुत्र दलबीर सिंह हर दो समभाग 398/1093 भाग वासीदेह (41//20/2)
7	41//21/1	निजी	कृषि	0.1163	जगदीश पुत्र अंतू पुत्र धर्मा रहन हिस्सा 60/671 भाग बिला रहन हिस्सा 104/671 भाग शेर सिंह - सुभाष पुत्रान खजाना पुत्र अंतू हर दो समभाग रहन हिस्सा 20/671 भाग बिला रहन हिस्सा 40/671 भाग परमजीत कौर पत्नी अजीत सिंह पुत्र सिंगारा सिंह 40/671 भाग सेवा सिंह पुत्र आत्मा सिंह पुत्र नंद सिंह 40/671 भाग मुस्तहन श्रीमती किताबो देवी पत्नी कर्मवीर पुत्र अंतू 223/671

					भाग महावीर - कुलवंत - जसपाल पुत्रान सरदारा पुत्र शिवकरन हर तीन समभाग 168/671 भाग अमित कुमार - मनीष कुमार पुत्रान कर्मसिंह पुत्र सरदारा हर दो समभाग 56/671 भाग वासीदेह (41//21/1)
8	41//21/2	निजी	कृषि	0.0304	अजीत सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र सुंदर सिंह 23/238 भाग कश्मीर सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र सुंदर सिंह 215/238 भाग वासीदेह (41//21/2)
9	58//16	निजी	कृषि	0.0025	श्रीमती बलजीत कौर विधवा 53/232 भाग मुख्तियार सिंह पुत्र सेवा सिंह पुत्र गोपाल सिंह 309/928 भाग पलविंदर कौर पुत्री सेवा सिंह पुत्र गोपाल सिंह 109/928 भाग श्रीमती राजविन्द्र कौर पत्नी शेर सिंह उर्फ स्वर्ण सिंह पुत्र अमर सिंह 25/116 भाग सतनाम सिंह पुत्र मेला सिंह पुत्र गुरमुख सिंह 49/464 भाग वासीदेह (58//16)
10	42//1/1	निजी	कृषि	0.1239	अजीत सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र सुंदर सिंह 23/238 भाग कश्मीर सिंह पुत्र शिंगारा सिंह पुत्र सुंदर सिंह 215/238 भाग वासीदेह (42//1/1)
11	42//1/2	निजी	कृषि	0.0632	सुखविंदर कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह 118/775 भाग बलविन्द्र कौर पत्नी अमरिक सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह 119/775 भाग महावीर - कुलवंत - जसपाल पुत्रान सरदारा पुत्र शिवकरन हर तीन समभाग 3/20 भाग अमित कुमार - मनीष कुमार पुत्रान कर्म सिंह पुत्र सरदारा हर दो समभाग 1/20 भाग श्रीमती राजकली विधवा व बिन्द्र पुत्र व रितु - बीता पुत्रीयान बीरा पुत्र कन्हैया हर चार समभाग 32/775 भाग श्रीमती नरेंद्र कौर पत्नी इंद्र सिंह पुत्र हरभजन सिंह 98/775 भाग बलविन्द्र कौर उर्फ कुलविन्द्र कौर

					पत्नी विक्रमजीत सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह 253/775 भाग वासीदेह (42//1/2)
12	42//10	निजी	कृषि	0.1669	सुखविंदर कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह 118/775 भाग बलविन्द्र कौर पत्नी अमरिक सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह 119/775 भाग महावीर - कुलवंत - जसपाल पुत्रान सरदारा पुत्र शिवकरन हर तीन समभाग 3/20 भाग अमित कुमार - मनीष कुमार पुत्रान कर्म सिंह पुत्र सरदारा हर दो समभाग 1/20 भाग श्रीमती राजकली विधवा व बिन्द्र पुत्र व रितु - बीता पुत्रीयान बीरा पुत्र कन्हैया हर चार समभाग 32/775 भाग श्रीमती नरेंद्र कौर पत्नी इंद्र सिंह पुत्र हरभजन सिंह 98/775 भाग बलविन्द्र कौर उर्फ कुलविन्द्र कौर पत्नी विक्रमजीत सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह 253/775 भाग वासीदेह (42//10)
13	42//11/1	निजी	कृषि	0.0885	सुखदेव सिंह - गुरदेव सिंह - बलदेव सिंह पुत्रान सिंगारा सिंह पुत्र घसीटा सिंह हर तीन समभाग रहन हिस्सा 1/7 भाग चन्न सिंह पुत्र घसीटा पुत्र प्रेम सिंह रहन हिस्सा 8/56 भाग महावीर - जसपाल पुत्रान सरदारा पुत्र शिवकरन हर दो समभाग रहन हिस्सा 18/84 भाग अमित कुमार - मनीष कुमार पुत्रान कर्म सिंह पुत्र सरदारा हर दो समभाग रहन हिस्सा 3/28 भाग गुरबच्चन सिंह - नाथा सिंह - अमरजीत सिंह - जोगिंदर सिंह - गुरभजन सिंह पुत्रान बुद्ध सिंह पुत्र घसीटा हर पांच समभाग रहन हिस्सा 1/7 भाग कुलवंत पुत्र सरदारा पुत्र शिवकरन रहन हिस्सा 1/4 भाग गुरदयाल सिंह पुत्र ईश्वर सिंह पुत्र झण्डा सिंह वासीदेह मुरतहन (42//11/1)
14	42//11/2	निजी	कृषि	0.0961	महावीर - कुलवंत - जसपाल पुत्रान सरदारा पुत्र शिवकरन हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह अमित कुमार - मनीष

					कुमार पुत्रान कर्म सिंह पुत्र सरदारा हर दो समभाग 1/4 वासी देवनखेडा गामडी कैथल (42//11/2)
15	58//25	निजी	कृषि	0.0253	श्रीमती महेन्द्र कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्र कपूर सिंह वासी डाचर (58//25)
16	61//5	निजी	कृषि	0.0506	महेन्द्र कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्र कपूर सिंह वासी डाचर (61//5)
17	61//6	निजी	कृषि	0.0759	महेन्द्र कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्र कपूर सिंह वासी डाचर (61//6)
18	61//15	निजी	कृषि	0.1062	महेन्द्र कौर पत्नी दर्शन सिंह पुत्र कपूर सिंह वासी डाचर (61//15)
19	61//16	निजी	कृषि	0.0986	जगपाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र अमर सिंह 231/719 भाग राजविंदर कौर विधवा स्वर्ण सिंह उर्फ शेर सिंह पुत्र अमर सिंह 136/1438 भाग हरपाल पुत्र स्वर्ण सिंह उर्फ शेर सिंह पुत्र अमर सिंह 86/719 भाग गुरविन्द्र सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह पुत्र अमर सिंह 334/719 भाग वासीदेह (61//16)
20	61//25	निजी	कृषि	0.1366	जगपाल सिंह पुत्र गुरचरण सिंह पुत्र अमर सिंह 231/719 भाग राजविंदर कौर विधवा स्वर्ण सिंह उर्फ शेर सिंह पुत्र अमर सिंह 136/1438 भाग हरपाल पुत्र स्वर्ण सिंह उर्फ शेर सिंह पुत्र अमर सिंह 86/719 भाग गुरविन्द्र सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह पुत्र अमर सिंह 334/719 भाग वासीदेह (61//25)
21	251	निजी	रास्ता	0.129	ग्राम पंचायत (251)
22	76//5	निजी	कृषि	0.1518	परमजीत कौर पत्नी सुखविन्द्र सिंह पुत्र कश्मीर सिंह वासीदेह (76//5)
23	76//6	निजी	कृषि	0.1872	परमजीत कौर पत्नी सुखविन्द्र सिंह पुत्र

					कश्मीर सिंह वासीदेह (76//6)
24	76//15	निजी	कृषि	0.2479	गुरदीप सिंह - महिंदर सिंह पुत्रान चंदगी पुत्र हरफूल हर दो समभाग 1/2 भाग शमशेर पुत्र रामसरूप पुत्र हरफूल 1/2 भाग वासीदेह (76//15)
25	76//16	निजी	कृषि	0.2782	मुखदेव सिंह पुत्र लाभ सिंह पुत्र प्रेम सिंह वासीदेह (76//16)
26	78//10	निजी	कृषि	0.0152	अमीर सिंह - गुरनाम सिंह पुत्रान रघवीर सिंह पुत्र सिंगारा सिंह हर दो समभाग वासीदेह तबादला गारिंदगान (78//10)
27	79//14	निजी	कृषि	0.0008	चरणजीत - हरजिंदर पुत्रान व बलविन्द्र कौर - नीतू - सीमा पुत्रीयान दिलबाग सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह हर पाँच समभाग 5/63 भाग सिमरन कौर विधवा व चरणजीत कौर - मलकित कौर - सोनावंती - जसवीर कौर पुत्रीयान हरबंश सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह हर पाँच समभाग 5/63 भाग श्रीमती मनजीत कौर पत्नी रणवीर सिंह पुत्र सिंगारा सिंह 47/378 भाग मलकित सिंह - मुख्तयार सिंह पुत्रान हरबंश सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह हर दो समभाग 8/21 भाग महेन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह 101/1134 भाग कुलविंदर कौर पत्नी विक्रमजीत सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह 20/81 भाग वासीदेह (79//14)
			कुल	16.2022	

[फा. सं. EC08/07/GF/3a2/3D6]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2018

S.O. 6365(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways S.O. 3697(E) dated 27 July 2018 and S.O. 5679(E) dated 12 November 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/paved shoulder with four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Greenfield alignment of Ismailabad(Gangheri) - Narnaul national highway on the stretch of land from Km 15 to Km 50 in the district of KAITHAL in the state of HARYANA

And whereas the substance of the said notification S.O. 3697(E) dated 27 July 2018, has been published in “The Tribune” and “Amar Ujala” both dated 09 August 2018; and whereas the substance of the said notification S.O. 5679(E) dated 12 November 2018, has been published in “Hari bhoomi” and “Amar Ujala” both dated 17-11-2018; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within Greenfield alignment of Ismailabad(Gangheri) - Narnaul in the stretch of land from Km. 15 to Km. 50 in the district of KAITHAL in the state of HARYANA

State: HARYANA		District: KAITHAL			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Dhand				
	Viilage: Kheri Matarwa				
1	37//24	Private	Agriculture	0.0329	Sushil Kumar - Satpal - Pawan Kumar S/O Ramkishan S/O Mangal Har Teen Sambhag 3/4 Bhag Jile singh S/O Ramkishan S/O Mangal 683/3300 bhag shrimati Shanti Devi W/O Pawan Kumar S/O Ramkishan 1/33 bhag shrimati Chand kaur W/O satpal S/O Ramkishan 1/165 bhag shrimati Anil Kumari w/o Jile Singh S/O Ramkishan 1/150 Bhag Vasideh 37//24
	Taluk: Fatehpur Pundri				
	Viilage: Barsana				
1	41//1	Private	Agriculture	0.0152	Bhaag Singh S/O Phulla 41//1

2	41//10	Private	Agriculture	0.09105	Rameshpal - Surender singh S/O Sadhu S/O Bhula har do smbhag 1/3 bhag Santosh devi vidhwa Nafe singh s/o Sadhu 1/6 bhag Suresh Kumar s/o Ramdhari S/o Bhulla 1/2 bhag vasideh 41//10
3	41//11	Private	Agriculture	0.0202	Rameshpal - Surender singh S/O Sadhu S/O Bhula har do smbhag 1/3 bhag Santosh devi vidhwa Nafe singh s/o Sadhu 1/6 bhag Suresh Kumar s/o Ramdhari S/o Bhulla 1/2 bhag vasideh 41//11
4	63//4/1	Private	Agriculture	0.1341	Shrimati Phullo Devi Vidhwa Vae Hawa Singh - Isam Singh - Bansilal S/O Vae Santro - Meva Rani D/O Sadhu S/O Naethu Har che Sambhag Vasideh 63//4/1
5	63//4/2	Private	Agriculture	0.0101	Shrimati Phullo Devi Vidhwa Vae Hawa Singh - Isam Singh - Bansilal S/O Vae Santro - Meva Rani D/O Sadhu S/O Naethu Har che Sambhag Vasideh 63//4/2
6	63//14	Private	Agriculture	0.0008	Nanha Ram S/O Tuhiya S/O Harbhaj 1014/1709 Bhag Vijay kumar s/o Chanda Ram S/O Tuhiya 922/5127 Bhag Siyaram S/O Chandaram S/O Tuhiya 214/1709 Bhag shrimati Suman Devi vidhwa Dyaram S/O Chanda Ram S/O Tuhiya 521/10254 Bhag Vivek - Hitesh s/o Daya ram s/o Chandaram har do smbhag 521/10254 bhag Vasideh 63//14
7	86//10	Private	Agriculture	0.0025	Shiv Kumar 166/15147 bhag Jasbir Singh 6/15147 bhag s/o Antu s/o Bdhaau -Chanda - Sultan - Multan - Balbir - Karam Singh s/o Bdhaau har panch smbhag 2721/15147 bhag Dharmraj - Pardeep Kumar s/o Pala s/o Bdhaau har do smbhag 544/15147 bhag Antu s/o Bdhaau 4/15147 bhag shrimati Tiddo - Shanti - Premo D/o vae shrimati Bhuro vidhwa har char smbhag 16/15147 bhag Isham 1034/15147 bhag Ranbir 923/15147 bhag s/o Phoola s/o Munshi - Jasbir singh s/o Phoola s/o Munshi 523/15147 bhag shrimati Saroj Bala w/o Jasbir singh s/o Phoola 552/15147 bhag shrimati Rajbala w/o Isham s/o Phoola 40/15147 bhag shrimati Kamlesh w/o Ranbir s/o Phoola 152/15147 bhag Sher Singh s/o Ramji lal s/o Kundan 534/15147 bhag Banarshi s/o Kanhaiya s/o Ramrikh 162/15147 bhag - Roshan lal - Ishwar singh s/o Banarshi s/o Kanhaiya har do smbhag 956/15147 bhag - Narendar - Suresh Pal - Mahipal s/o Rangji s/o

					Kanhaiya har teen sambhag 3/15147 bhag shrimati Manohri w/o Rangī s/o Kanhaiya 14/15147 bhag Dheera s/o Hirda s/o Kundan 326/15147 bhag Jasvant s/o Hirda s/o Kundan 524/15147 bhag Satpal s/o Hirda s/o Kundan 405/15147 bhag Ginna s/o Hirda s/o 542/15147 bhag Ishwar - Krishanlal - Surender kumar - Chhatrapal s/o Ginna Ram s/o Kundan har char sambhag 1275/15147 bhag Balwan singh - Bhim singh s/o Chatru s/o Kanhaiya har do sambhag 757/15147 bhag Sube singh s/o Amar singh s/o Kanhaiya 243/15147 bhag Mahinder singh s/o Amar singh s/o Kanhaiya 207/15147 bhag shrimati Ram Murti w/o Amar singh s/o Kanhaiya 80/15147 bhag Kuldeep s/o Vajir singh s/o Amar singh 164/15147 bhag Rajender kumar - Jitender kumar s/o shri Chand s/o Ramji lal har do sambhag 898/15147 bhag Jaikaran - Subhash s/o Meva Ram s/o Ramji lal har do sambhag 405/15147 bhag Rajesh kumar - Satish kumar s/o Sukh devi vidhwa Meva Ram har do sambhag 53/15147 bhag shrimati Jeet kaur vidhwa vae Karanjeet - Dinesh kumar s/o vae Santosh - Sushma d/o Jile singh s/o Kanhaiya lal har panch sambhag 507/15147 bhag shrimati Sona devi w/o Multan singh s/o Badhaau 166/15147 bhag Nafe singh s/o Amar singh s/o Kanhaiya 84/15147 bhag shrimati Maamo devi w/o Balbir singh s/o Badhaau 80/15147 bhag Savina devi w/o Vikas s/o Sultan singh 40/15147 bhag shri mati Bimla devi w/o Karam singh s/o Badhaau 40/15147 bhag vasideh 86//10
8	240	Common(Gram panchayat)	Khal	0.0228	Gram Panchayat 240
	Village: Chandlana				
9	25//21/1	Private	Agriculture	0.0329	Balwinder Singh - Narinder Singh - Amreek Singh S/O Singara S/O Bhan Singh Har Teen Sambhag Vasideh 25//21/1
10	25//21/2	Private	Agriculture	0.0076	Kirpal Singh - Preetipal Singh S/O Kashmir Singh S/O Surajan Singh Har Do Sambhag 13284/16505 Bhag Kashmir Singh S/O Surjan Singh S/O Mulla Singh 3221/16505 Bhag Vasideh 25//21/2
11	25//22/1	Private	Agriculture	0.0101	Dharam Singh S/O Sohan Singh S/O Ram Singh 11/146 Bhag Kulbeer Singh - Balwinder Singh - Satpal Singh - Kashmir Singh S/O Dharam Singh S/O

					<p>Mohan Singh Har Char Sambhag 2/73 Bhag Ajit Singh - Santokh Singh Har Do Sambhag 5/146 Bhag Sucha Singh 3/292 Bhag Malkiyat Singh S/O Gurbachan Singh S/O Basava Singh 5/292 Bhag Smt. Dalbeer Kaur D/O Darshan Singh S/O Bhan Singh 23/748 Bhag Jasbir Kaur D/O Darshan Singh S/O Bhan Singh 73/2244 Bhag Jasbir Singh - Sukhjinder Singh S/O Sucha Singh S/O Basawa Singh Har Do Sambhag 37/2244 Bhag Malkeet Singh S/O Gurbachan Singh S/O Basawa Singh 7/1122 Bhag Lakhbir Singh S/O Ajit Singh S/O Basawa Singh 1/204 Bhag Bishan Singh S/O Ishar Singh S/O Gulab Singh 31/292 Bhag Harbhajan Singh S/O Bishan Singh S/O Ishar Singh 4/73 Bhag Bhan Singh S/O Budh Singh S/O Panjaba 7/146 Bhag Harbhajan 7/146 Bhag Singara S/O Maan Singh S/O Budh Singh 3/73 Bhag Lakhbir Singh S/O Kishan Singh S/O Ishar Singh 4/73 Bhaag Mulla S/O Budh Singh 41/292 Bhag Randhir Singh Vae Kartar Singh Har Sambhag 5/146 Bhag Mehar Singh 1/73 Bhag Tarlok Singh - Pala Singh S/O Attar Singh Har Do Sambhag 4/73 Bhag Gulzaar Singh - Kapoor Singh - Harchand Singh - Kulbir Singh S/O Bishan Singh Har Char Sambhag 33/292 Bhag Manmon Nath 2/73 Bhag Chiman Lal - Ashok Kumar - Bhagwan Das - Vijay Kumar S/O Dhani Ram Har Char Sambhag 6/803 Bhag Janki Nath S/O Dhani Ram 3/3212 Bhag Vasideh 25//22/1</p>
12	25//22/2/1	Private	Agriculture	0.0076	<p>Kulbeer Singh S/O Amar Singh S/O Bhula Singh Vasideh 25//22/2/1</p>
13	25//22/2/2	Private	Agriculture	0.1518	<p>Dalbir Singh S/O Amar Singh S/O Mula Singh Vasideh 25//22/2/2</p>
14	38//1/1	Private	Agriculture	0.0506	<p>Kirpal Singh - Preetipal Singh S/O Kashmir Singh S/O Surajan Singh Har Do Sambhag 13284/16505 Bhag Kashmir Singh S/O Surjan Singh S/O Mulla Singh 3221/16505 Bhag Vasideh 38//1/1</p>
15	38//1/2	Private	Agriculture	0.0708	<p>Sarjeet Kaur Vidhwa Vae Gurmeet Singh - Balvinder Singh - Sukhvinder Singh - Harjinder Singh - Harjeet Singh S/O Preetam Singh S/O Bhulla Singh Har Chae Sambhag Vasideh 38//1/2</p>
16	38//2/1	Private	Rasta	0.0304	<p>Dharam Singh S/O Sohan Singh S/O Ram Singh 11/146 Bhag Kulbeer Singh - Balwinder Singh - Satpal Singh -</p>

					<p>Kashmir Singh S/O Dharam Singh S/O Mohan Singh Har Char Sambhag 2/73 Bhag Ajit Singh - Santokh Singh Har Do Sambhag 5/146 Bhag Sucha Singh 3/292 Bhag Malkiyat Singh S/O Gurbachan Singh S/O Basava Singh 5/292 Bhag Smt. Dalbeer Kaur D/O Darshan Singh S/O Bhan Singh 23/748 Bhag Jasbir Kaur D/O Darshan Singh S/O Bhan Singh 73/2244 Bhag Jasbir Singh - Sukhjinder Singh S/O Sucha Singh S/O Basawa Singh Har Do Sambhag 37/2244 Bhag Malkeet Singh S/O Gurbachan Singh S/O Basawa Singh 7/1122 Bhag Lakhbir Singh S/O Ajit Singh S/O Basawa Singh 1/204 Bhag Bishan Singh S/O Ishar Singh S/O Gulab Singh 31/292 Bhag Harbhajan Singh S/O Bishan Singh S/O Ishar Singh 4/73 Bhag Bhan Singh S/O Budh Singh S/O Panjaba 7/146 Bhag Harbhajan 7/146 Bhag Singara S/O Maan Singh S/O Budh Singh 3/73 Bhag Lakhbir Singh S/O Kishan Singh S/O Ishar Singh 4/73 Bhaag Mulla S/O Budh Singh 41/292 Bhag Randhir Singh Vae Kartar Singh Har Sambhag 5/146 Bhag Mehar Singh 1/73 Bhag Tarlok Singh - Pala Singh S/O Attar Singh Har Do Sambhag 4/73 Bhag Gulzaar Singh - Kapoor Singh - Harchand Singh - Kulbir Singh S/O Bishan Singh Har Char Sambhag 33/292 Bhag Manmon Nath 2/73 Bhag Chiman Lal - Ashok Kumar - Bhagwan Das - Vijay Kumar S/O Dhani Ram Har Char Sambhag 6/803 Bhag Janki Nath S/O Dhani Ram 3/3212 Bhag Vasideh 38//2/1</p>
17	38//9/2	Private	Rasta	0.0304	<p>Dharam Singh S/O Sohan Singh S/O Ram Singh 11/146 Bhag Kulbeer Singh - Balwinder Singh - Satpal Singh - Kashmir Singh S/O Dharam Singh S/O Mohan Singh Har Char Sambhag 2/73 Bhag Ajit Singh - Santokh Singh Har Do Sambhag 5/146 Bhag Sucha Singh 3/292 Bhag Malkiyat Singh S/O Gurbachan Singh S/O Basava Singh 5/292 Bhag Smt. Dalbeer Kaur D/O Darshan Singh S/O Bhan Singh 23/748 Bhag Jasbir Kaur D/O Darshan Singh S/O Bhan Singh 73/2244 Bhag Jasbir Singh - Sukhjinder Singh S/O Sucha Singh S/O Basawa Singh Har Do Sambhag 37/2244 Bhag Malkeet Singh S/O Gurbachan Singh S/O Basawa Singh 7/1122 Bhag Lakhbir Singh S/O Ajit Singh S/O Basawa Singh 1/204 Bhag Bishan Singh S/O Ishar Singh S/O Gulab Singh 31/292 Bhag Harbhajan Singh S/O Bishan Singh S/O Ishar</p>

					Singh 4/73 Bhag Bhan Singh S/O Budh Singh S/O Panjaba 7/146 Bhag Harbhajan 7/146 Bhag Singara S/O Maan Singh S/O Budh Singh 3/73 Bhag Lakhbir Singh S/O Kishan Singh S/O Ishar Singh 4/73 Bhaag Mulla S/O Budh Singh 41/292 Bhag Randhir Singh Vae Kartar Singh Har Sambhag 5/146 Bhag Mehar Singh 1/73 Bhag Tarlok Singh - Pala Singh S/O Attar Singh Har Do Sambhag 4/73 Bhag Gulzaar Singh - Kapoor Singh - Harchand Singh - Kulbir Singh S/O Bishan Singh Har Char Sambhag 33/292 Bhag Manmon Nath 2/73 Bhag Chiman Lal - Ashok Kumar - Bhagwan Das - Vijay Kumar S/O Dhani Ram Har Char Sambhag 6/803 Bhag Janki Nath S/O Dhani Ram 3/3212 Bhag Vasideh 38//9/2
18	38//10/1	Private	Agriculture	0.0531	Kirpal Singh - Preetipal Singh S/O Kashmir Singh S/O Surajan Singh Har Do Sambhag 13284/16505 Bhag Kashmir Singh S/O Surjan Singh S/O Mulla Singh 3221/16505 Bhag Vasideh 38//10/1
19	38//10/2	Private	Agriculture	0.129	Ajit Singh S/O Basava S/O Shayam Singh Vasideh 38//10/2
20	38//11/1	Private	Agriculture	0.1872	Ajit Singh S/O Basava S/O Shayam Singh Vasideh 38//11/1
21	38//12/1	Private	Rasta	0.0253	Dharam Singh S/O Sohan Singh S/O Ram Singh 11/146 Bhag Kulbeer Singh - Balwinder Singh - Satpal Singh - Kashmir Singh S/O Dharam Singh S/O Mohan Singh Har Char Sambhag 2/73 Bhag Ajit Singh - Santokh Singh Har Do Sambhag 5/146 Bhag Sucha Singh 3/292 Bhag Malkiyat Singh S/O Gurbachan Singh S/O Basava Singh 5/292 Bhag Smt. Dalbeer Kaur D/O Darshan Singh S/O Bhan Singh 23/748 Bhag Jasbir Kaur D/O Darshan Singh S/O Bhan Singh 73/2244 Bhag Jasbir Singh - Sukhjinder Singh S/O Sucha Singh S/O Basawa Singh Har Do Sambhag 37/2244 Bhag Malkeet Singh S/O Gurbachan Singh S/O Basawa Singh 7/1122 Bhag Lakhbir Singh S/O Ajit Singh S/O Basawa Singh 1/204 Bhag Bishan Singh S/O Ishar Singh S/O Gulab Singh 31/292 Bhag Harbhajan Singh S/O Bishan Singh S/O Ishar Singh 4/73 Bhag Bhan Singh S/O Budh Singh S/O Panjaba 7/146 Bhag Harbhajan 7/146 Bhag Singara S/O Maan Singh S/O Budh Singh 3/73 Bhag Lakhbir Singh S/O Kishan Singh S/O

					Ishar Singh 4/73 Bhaag Mulla S/O Budh Singh 41/292 Bhag Randhir Singh Vae Kartar Singh Har Sambhag 5/146 Bhag Mehar Singh 1/73 Bhag Tarlok Singh - Pala Singh S/O Attar Singh Har Do Sambhag 4/73 Bhag Gulzaar Singh - Kapoor Singh - Harchand Singh - Kulbir Singh S/O Bishan Singh Har Char Sambhag 33/292 Bhag Manmon Nath 2/73 Bhag Chiman Lal - Ashok Kumar - Bhagwan Das - Vijay Kumar S/O Dhani Ram Har Char Sambhag 6/803 Bhag Janki Nath S/O Dhani Ram 3/3212 Bhag Vasideh 38//12/1
22	56//2	Private	Agriculture	0.0025	Randhir Singh S/O Matu Ram S/O Sita Ram 1/2 Bhag Anguri Devi Wd/O Ranjeet Singh S/O Hirda Ram 1/3 Bhaag Sawan S/O Rajender S/O Ranjeet 1/12 Bhaag Resma Devi Wd/O Shamsheer S/O Ranjeet 1/12 Bhaag Vasideh 56//2
23	116	Private	Rasta	0.0506	Gram Panchayat 116
24	39//19/1/1	Government	Canal	0.0228	Haryana Govt. 39//19/1/1
25	55//2/2/1	Private	Rajwaha	0.0026	Haryana Govt. 55//2/2/1
26	55//11/1	Private	Rasta	0.2606	Pyara Singh - Major Singh S/O Dalip Singh S/O Sunder Singh Har Do Sambhag 3/10 Bhag Kashmir Singh S/O Surjan Singh S/O Mula Singh 7/20 Bhag Gulzar Singh - Kulbeer Singh S/O Bishan Singh S/O Ishar Singh Har Do Sambhag 3/20 Bhag Harchand Singh S/O Bishan Singh Ishar Singh 1/10 Bhag Maninder Singh S/O Kapur S/O Bishan Singh 1/10 Bhag Vasideh 55//11/1
27	70//24/1	Private	Agriculture	0.0177	Rampayari W/O Karamchand S/O Tharu Ram Vasideh 70//24/1
28	108	Private	Pond	0.4148	Gram Panchayat 108
29	55//1/2/1	Government	Canal	0.0278	Haryana Govt. 55//1/2/1
30	55//1/2/2	Private	Agriculture	0.0051	Ashok Kumar S/O Inder Nath S/O Dhani Ram 83/624 Bhag Janki Nath S/O Dhani Ram S/O Banshi Dhar 1/416 Bhag Kamla Devi W/O Ram Singh S/O Ghassita 5/52 Bhag Manmohan - Chiman Lal S/O Inder Nath S/O Dhani Ram Har Do Sambhag 23/312 bhag Bhagvan Das - Vijay Kumar S/O Inder Nath S/O Dhani Ram Har Do Sambhag

					121/416 Bhag Hardev Singh S/O Ram Singh 85/832 Bhag Sagar Rana S/O Baldev Singh S/O Ram Singh 85/832 Bhag Paano Vidhva Munshi S/O Ramjilal 41/26624 Bhag Parveen Kumar S/O Ramswaroop S/O Ramjilal 41/3328 Bhag Darso Vidhva Ramswaroop S/O Ramjilal 9253/79872 Bhag Mangal Ram S/O Lekhu S/O Ramjilal 41/4992 bhaag Sudesh W/O Mahabir S/O Shrichand 205/3328 bhaag vasideh 55//1/2/2
31	55//2/2/2	Private	Agriculture	0.1821	Manmohan nath, Chaman lal, Ashok kukmar putran Indar nath S/o Dhaniram har teen sambhag 184/327 bhag jankinath s/o dhaniram s/o banshiram 65/2289 bhag bhagwan das vijay kumar putran indarnath s/o dhaniram har do sambhag 312/763 bhag 55//2/2/2
32	39//21/2	Government	Rajwaha	0.0177	Haryana Govt. 39//21/2
33	39//22/2/1	Private	Agriculture	0.0632	Manmohan Nath - Chiman Lal - Ashok Kumar S/O Indernath S/O Dhani Ram Har Teen Sambhag 184/327 Bhag Vasi Gulzar Pura Jilla Patiyala (Punjab) Janki Nath S/O Dhani Ram S/O Bansi Ram 65/2289 Bhag Bassi Gulzar Pura Jilla Patiyala (Punjab) Bhagwandas - Vijay Kumar S/O Indernath S/O Dhani Ram Har Do Sambhag 312/763 Bhag Vasi Gulzar Pura Jilla Patiyala (Punjab) 39//22/2/1
34	39//22/2/2	Government	Rajwaha	0.0025	Haryana Govt. 39//22/2/2
Viilage: Duliani					
35	68//1	Private	Agriculture	0.0006	Dharampal - Satpal - Roshanlal - Krishan Lal S/o Ramkishan S/O Jaswant Har char Sambhag vasideh 68//1
Viilage: Hajwana					
36	8//10	Private	Agriculture	0.0025	Basau S/O Lachhu S/O Ramjilal 1/2 Bhag Ajay - Vijay S/O Rajpal Urf Raghbir Singh Har Do Sambhag 1/2 Bhag Vasideh 8//10
37	9//4	Private	Agriculture	0.0006	Ram Kumar S/O Phool Singh S/O Mokh Ram 397/3064 Bhag Dharamvir - Ramniwas - Pardeep Kumar S/O Ramkumar S/o phool singh har teen sambhag 480/3064 bhag Shrimati Sunehari Devi D/O Deva S/O Mokh Ram 2/3064 Bhag Shrimati Reshma Devi - Kreshani Devi D/O Deva S/O Mokh Ram Har Do Sambhag 4/3064

					Bhag ramesh kumar s/o khazana s/o Bakshi 43/3064 bhag Ganga Singh S/O Ram Swaroop S/O Kanhiya 57/3064 Bhag Bansilal - Devilal S/O Karan Singh S/O Inder Singh Har Do Sambhag 375/3064 Bhag Sadhu Ram S/O Masdi S/O Mokh Ram 213/3064 Bhag Vedpal Urf Ved Prakash S/O Masdi S/O Mokh Ram 255/3064 Bhag Ashok Goyal S/O Chandi Ram S/O Ram Niwas 12/3064 Bhag Surender Kalyal S/O Ramprakash S/O Ramlubhaya 9/3064 Bhag Savitari Devi W/O Chittar S/O Harnand 3/3064 Bhag poonam w/o kuldeep singh s/o phool singh 3/3064 bhag Daya Devi w/o Ratan Singh S/O Ram Singh 4/3064 bhag Kamlesh W/O Krishan Lal S/O Chanda Singh 98/3064 Bhag Rajbala W/O Basau S/O Chanda Singh 98/3064 Bhag Vasi Pai Kitab Singh S/O Lifthi S/O Masdi 38/3064 bhag Rajesh Goyal S/O Roshan Lal S/O Ramniwas 3/3064 Bhag Kamla Devi W/O Jogi Ram S/O Ramkamla 4/3064 Bhag dhanpati devi w/o bhrat ram s/o Hari singh 3/3064 bhag Pala Ram - Jaipal - Ramesh Chand - Jagbir S/O Khajana S/O Bakshi Har Char Sambhag 766/3064 Bhag Dani devi W/o Balwant Singh s/o Jawala Ram 191/3064 Bhag Urmila w/o Pawan Kumar S/O Amrit Lal 1/3064 bhag Sunita Devi w/o Kulvinder S/o Sukhdev 1/3064 bhag Kashmiri S/O Partaapa S/O Karam chand 2/3064 bhag Meena Rani w/o Isham Singh S/O Ram Saroop 2/3064 bhag Vasideh 9//4
38	12//6	Private	Agriculture	0.0008	Bansilal - Devilal S/O Karan Singh S/O Inder Singh Har Do Sambhag 1/2 Bhag Inder singh S/o Jeet Singh S/O Mamchand 1/2 Bhag Vasideh 12//6
39	36//3	Private	Agriculture	0.0101	Mangae Ram - Ramdiya - Sathbir - Pala Ram S/O Ami Lal S/O Longa Ram Har Char Sambhag Vasideh 36//3
40	59//2	Private	Agriculture	0.0025	Kewal Singh - Jagga singh s/o Johra singh s/o Pritam singh har do sambhag 1/2 bhag krishna devi wife & Hardeep singh s/o Sinder singh s/o Pritam singh har do sambhag 1/2 bhag Vasideh 59//2
Village: Jamba					
41	74	Common(Gram Panchayat)	Khal	0.0253	Gram panchayat 74
42	18//24	Private	Agriculture	0.0759	Diwana S/O Ramji Lal S/O Sardara Vasideh

					18//24
	Viilage: Karora				
43	7//8	Private	Agriculture	0.0126	Ramkumar S/O Mukhtyara S/O Rangi 43/1200 Bhag Dilawar Singh S/O Mukhtyara S/O Rangi 1/16 Bhag Ramfal - Rameshchand - Subhash S/o Mange Ram S/o Ranjeet Singh Har teen Sambhag 1/40 Bhag Sataywan S/O Ramkumar S/O Mukhtyara 1/1200 Bhag Mahender Singh- Jarnail Singh S/O Thiriyaram S/O Neeru Har Do Sam Bhag 1/1200 Bhag Dharma S/O Rangi S/O Mamraj 3/50 Bhag Rati Ram S/O Kuda Ram S/O Bohla 1/20 Bhag Prakash- Mahabir Singh- Kuldeep- Rajender S/O Rati Ram S/O Kuda Ram Har Char Sam Bhag 133/600 Bhag Rambhaj S/O Ramehar S/O Rangi 91/400 Bhag Balraj Singh S/O Mukhtyara S/O Rangi 53/1200 Bhag Subash Chand S/O Hukam Singh S/O Moman Ram 10/551 Bhag Lal Singh- Dharampal S/O Moman Ram S/O Tejram Har Do Sam Bhag 157/1440 Bhag Balbir S/O Hukam Singh S/O Moman Ram 263/9300 Bhag Kitabo Devi Wd/O Vah Narender Singh- Kuldeep Singh S/O Vah Suman Devi- Pooja Devi- D/O Shamasher Singh S/O Mukhtyar Singh Har Panch Sam Bhag 1/16 Bhag Suresh Kumar S/O Nafe Singh S/O Moman Ram 157/2280 Bhag Vashideh 7//8
44	11//17	Private	Agriculture	0.0025	Muvasi S/O Beer Singh S/O Bageraj Vashideh 11//17
45	20//19/3	Private	Agriculture	0.0202	Shrimati Bhagvanti Wd/O Vah Dharampal - Jaikishan - Mahinder- Rajender S/O Vah Shrimati Krishna- Shanti D/O Shrichand S/O Munshi Har Saat Sam Bhag 7/8 Bhag Sona Devi wd/o Vah Omprakash - Shivratan - Mohan Lal S/o Va Syoma Devi - Bimla Devi - Anju Bala - Rani Devi D/o Raghbir S/o Shrichand Har Aath Sambhag 8/72 Bhag Sohna Devi Wd/o Raghbir Singh S/o Shrichand 1/360 Bhag Sarla Devi wd/o Deepak Vikram Yogesh S/o Krishan Lal S/o Raghbir 1/90 Bhag Vashideh 20//19/3
46	411	Common(Gram panchayat)	Khal	0.0253	Gram Panchayat 411
47	50//11	Private	Agriculture	0.0005	Chuhdhiyaram- Jmer Singh S/O Bhaliya S/O Jagar Har Do Sam Bhag 116/765 Bhag Sukhdev S/O Vah Usha Rani D/O Saroopi S/O Bhaliy Har Do

					Sam Bhag 23/1020 Bhag Raghbir Singh S/O Bir Singh S/O Shingara Singh 1/6 Bhag Sona Devi D/O Khajana S/O Chandi 1/72 Bhag Shrimati Dhanni Devi Wd/O Bharthu S/O Jyuna 1/96 Bhag Satyavan S/O Bharthu S/O Jyuna 7/96 Bhag Satpal- Vedpal Singh S/O Tekchand S/O Shivkaran Har Do Sam Bhag 1/36 Bhag Mewa S/O Jyuna S/O Khubi 1/24 Bhag Ramehar S/O Mewa S/O Jyuna 1/24 Bhag Teka S/O Jhanku S/O Chandhi 1/18 Bhag Shrimati Omi Devi- Birmati- D/O Vah Dhoopa- Shamsheer Singh S/O Arjan Har Char Sam Bhag 1/5 Bhag Ratiya S/O Arjun S/O Jagar 2/85 Bhag Krishan- Mahabir S/O Deva Singh S/O Khajana Har Do Sam Bhag 5/72 Bhag Pradeep Kumar S/O Zile Singh S/O Surjan Singh 9/340 Bhag Satish Kumar S/O Ramsaroop Urf Saroop S/O Baliya 58/765 Bhag Vashideh 50//11
48	67//16/1	Private	Agriculture	0.0051	Mewa S/O Jeewna S/O Khubi 1/4 Bhag Shrimati Dhanni Devi Wd/O Bharthu S/O Jyuna 1/16 Bhag satyavan S/O Bharthu S/O Jyuna 7/16 Bhag Rammehar S/o Mewa S/O Jyuna 1/4 Bhag Vashideh 67//16/1
49	78//17/1	Private	Agriculture	0.0101	Devender - Balwinder singh S/o Gaje Singh S/o surta 1/3 Bhag sudesh Devi - Umesh Sevi - Mukesh Devi - Suman Devi D/o Gaje Singh S/o Surta Har Char Sambhag 2/3 Bhag 78//17/1
50	78//17/2	Private	Agriculture	0.0025	Balbair Singh S/o Aabhey ram S/o Lachhman 1/8 Bhag Jitender - Vijender Singh - Vineet Singh S/o Aabhey ram Har teen Sambhag 1/8 Bhag Karambir - Randhir S/o Roopchand S/o Lachman har do Sambhag 1/4 Bhag Devender Singh - Balwinder Singh S/o Gaje Singh S/o Surta Har Do Sambhag 1/12 Bhag Sudesh Devi - Umesh Devi - Suman Devi D/o Gaje Singh S/o Surta Ram Har char Sambhag 1/6 Bhag Suresh kumar - Naresh Kumar S/o Zile Singh S/o Surta Har Do Sambhag 1/2 Bhag Vasideh 78//17/2
51	78//17/3	Private	Agriculture	0.0329	Karambir s/o RoopChand S/o Lachhman 78//17/3
52	78//18/1	Private	Agriculture	0.0506	Devender - Balwinder singh S/o Gaje Singh S/o surta 1/3 Bhag sudesh Devi - Umesh Sevi - Mukesh Devi - Suman Devi D/o Gaje Singh S/o Surta Har

					Char Sambhag 2/3 Bhag 78//18/1
53	78//18/2	Private	Agriculture	0.0202	Balbir Singh S/o Aabhey ram S/o Lachhman 1/8 Bhag Jitender - Vijender Singh - Vineet Singh S/o Aabhey ram Har teen Sambhag 1/8 Bhag Karambir - Randhir S/o Roopchand S/o Lachman har do Sambhag 1/4 Bhag Devender Singh - Balwinder Singh S/o Gaje Singh S/o Surta Har Do Sambhag 1/12 Bhag Sudesh Devi - Umesh Devi - Suman Devi D/o Gaje Singh S/o Surta Ram Har char Sambhag 1/6 Bhag Suresh kumar - Naresh Kumar S/o Zile Singh S/o Surta Har Do Sambhag 1/2 Bhag Vasideh 78//18/2
54	78//18/3	Private	Agriculture	0.3212	Karambir s/o RoopChand S/o Lachhman 78//18/3
55	78//19/1/3	Private	Agriculture	0.0177	Karambir s/o RoopChand S/o Lachhman 78//19/1/3
56	78//22/2	Private	Agriculture	0.0658	Karambir s/o RoopChand S/o Lachhman 78//22/2
57	96//2/1/2/2	Private	Rasta	0.0051	Saensi- Jogiram S/O Ramdas S/O Devtiya Har Do Sam Bhag 37/146 Bhag Badan Singh- Shamsher Singh- Balvir Singh S/O Phoola S/O Devtiya Har Teen Sam Bhag 18/73 Bhag Karma- Subhash S/O Kapura S/O Devtiya Har Do Sam Bhag 17/73 Bhag Premo D/O Kapura S/O Devtiya 1/73 Bhag Rammehar- Pawan Kumar S/O Kahro S/O Devtiya Har Do Sam Bhag 37/146 Bhag Vashideh 96//2/1/2/2
58	96//2/2/3/1	Government	Rasta	0.0126	Haryana Government 96//2/2/3/1
59	96//2/2/3/2	Private	Agriculture	0.0379	Karma- Subhash S/O Kapura S/O Devtiya Har Do Sam Bhag Vashideh 96//2/2/3/2
60	96//3/2/2	Private	Agriculture	0.2808	Saensi- Jogiram S/O Ramdas S/O Devtiya Har Do Sam Bhag 37/146 Bhag Badan Singh- Shamsher Singh- Balvir Singh S/O Phoola S/O Devtiya Har Teen Sam Bhag 18/73 Bhag Karma- Subhash S/O Kapura S/O Devtiya Har Do Sam Bhag 17/73 Bhag Premo D/O Kapura S/O Devtiya 1/73 Bhag Rammehar- Pawan Kumar S/O Kahro S/O Devtiya Har Do Sam Bhag 37/146 Bhag Vashideh 96//3/2/2
61	96//8/1/1/1	Government	Rasta	0.0076	Haryana Government

					96//8/1/1/1
62	96//8/1/1/2	Private	Agriculture	0.0278	Rammehar- Pawan Kumar S/O Kehro S/O Devtiya Har Do Sam Bhag Vashideh 96//8/1/1/2
63	96//8/3/2/2	Private	Agriculture	0.0051	Bedo Devi Vidhwa Va Preetipal - Lokesh S/o Va Kavita devi D/o Shamsher Singh S/O Phoola Har Char Sambhag 532/1793 Bhag Badan Singh- Balvir Singh S/O Phoola S/O Devtiya Har Do Sam Bhag 1261/1793 Bhag Vashideh 96//8/3/2/2
64	96//9/1	Government	Canal	0.1391	Haryana Government 96//9/1
65	96//9/2/1	Government	Rasta	0.0177	Haryana Government 96//9/2/1
66	96//9/2/2	Private	Agriculture	0.0632	Karma- Subhash S/O Kapura S/O Devtiya Har Do Sam Bhag Vashideh 96//9/2/2
67	96//12/1/1	Private	Agriculture	0.2858	Badan Singh - Shamsher Singh - Balbir Singh S/o Fulla S/o Tevtiya 96//12/1/1
68	96//12/2	Government	Canal	0.0003	Haryana Government 96//12/2
69	96//18/2/2	Private	Agriculture	0.0759	Ramdiya S/O Nathu S/O Dinda Vashideh 96//18/2/2
70	160//7	Private	Agriculture	0.0025	Balvinder s/o Beeja s/o Puran Singh 1646/21693 Naveen - Sachin s/o Dharam Singh har do Sambhag 1646/21693 Bhag Sonu s/o Balwan Singh s/o Puran Singh 1646/21693 Bhag Anil s/o Dalbir s/p Balwant 412/21693 Bhag Shrimati Bedo Devi Wd/O Vah Shrimati Rajbala- Mewa Devi D/O Balwant Singh S/O Baru Har teen Sam Bhag 5/1033 Bhag Rajesh Kumar- Sushil Kumar S/O Prem Singh S/O Ramdhari Har Do Sam Bhag 94/21693 Bhag Praveen Kumar S/O Pali Ram S/O Ramdhari 47/21693 Bhag Kuldeep Singh - Ramesh Chand - Baljeet Singh S/o Deep Chand s/o Baaruram Har teen Sambhag 1693/7231 Bhag Sunil S/O Dalbir S/O Balwant Singh 857/21693 Bhag Shrimati Sunhairi Devi Wd/O Prem Singh S/O Ramdhari 823/7231 Bhag Kelo Devi W/O Pali Ram S/O Ramdhari 823/7231 Bhag Raghbir Singh- Anoop Singh S/O Chandan S/O Baru Ram Har Do Sam Bhag 1693/7231 Bhag Dharam Singh- Beeja Ram- Balwan Singh S/O Puran Singh S/O Baru Ram Har teen Sam Bhag 48/7231 Bhag

					160//7
71	179//8	Private	Agriculture	0.387	Shrimati Bedo Devi Wd/O Vah Shrimati Rajbala- Mewa Devi D/O Balwant S/O Baru Har Teen Sam Bhag Vashideh 179//8
72	185//12/1	Private	Agriculture	0.0005	Prince s/o Sultaan Singh S/o Sube Singh 1/16 Bhag Harkishan - Ramphal - Yashpal Singh s/o Sube Singh S/o Rangi Ram Har teen Samhag 3/16 Bhag Chanderprakash S/O Jai Singh S/O Rangi 1/4 Bhag Rajkaur W/O Rajwant Singh S/O Kehar Singh 1/4 Bhag Vashideh Beer Kaur W/O Jarnail Singh S/O Kehar Singh 1/4 Bhag Veshi Bakal 185//12/1
73	209//11	Private	Agriculture	0.0101	Jelo - Sona D/O Ramsahay Har Do Sam Bhag 1/408 Bhag Shrimati Bhanti D/O Shrimati Phooli D/O Ramsahay 11/1632 Bhag Shrimati Guddi D/O Shrimati Phooli D/O Ramsahay 1/816 Bhag Gurmeh S/O Ramsahay 1/544 Bhag Joginder S/O Shrimati Phoolpati D/O Ramsahay 1/136 Bhag Ajeib S/O Shrimati Phoolpati D/O Ramsahay 1/136 Bhag Shrimati Kashmiro - Angrejo D/O Shrimati Phool Do Ramsahay Har Do Sambhag 11/816 Bhag Gurdev S/O Risala S/O Matu 1/8 Bhag Kidar Singh- Balbir Singh S/O Sardara S/O Matu Har Do Sam Bhag 37/204 Bhag Shrimati Chanderpati Wd/O Dhoop Singh S/O Sardara 3/272 Bhag Mahipal - Jaipal - Rishipal S/O Dhoop Singh S/O Sardara Har Teen Sam Bhag 43/544 Bhag Shrimati Neeta Devi D/O Dhoop Singh S/O Sardara 1/816 Bhag Shrimati Chanderpati Widow Va Sultan Singh S/O Vah Santro D/O Manga S/O Mokha Har Teen Sam Bhag 163/544 Bhag Didara Urf Dyara S/O Risala S/O Matu Rahan Hissa 43/1632 Bhag Bila Rahan Hissa 385/1632 Bhag Sardara S/O Matu S/O Malka 43/1632 Bhag Vashideh Murthan 209//11
74	234//24	Private	Agriculture	0.0607	Shrimati Amar Kaur Wd/O Vah Shrimati Savita Devi D/O Bhajan Singh S/O Mana Har Do Sam Bhag 437/5238 Bhag Karmveer S/O Phool Singh S/O Hari Singh 437/5238 Bhag Jaibir -Jasvir S/O Rampal S/O Phool Singh Har Do Sam Bhag 218/2619 Bhag Lokinder Singh - Charan Singh S/O Bhajan Singh S/O Mana Har Do Sam Bhag 1/6 Bhag Rajender - Suresh Kumar S/O Preetam Singh S/O Mana Har Do Sam Bhag 218/2619 Bhag Karam Singh S/O Ratan Singh S/O Hari Singh 145/5238 Bhag

					Shrimati Satbiri Devi W/O Karam Singh S/O Ratan Singh 73/2619 Bhag Shrimati Kusum Devi Wd/O Dharam Singh S/O Ratan Singh 1/18 Bhag Himayu - Karan Singh S/O Bhim Singh S/O Ratan Singh Har Do Sam Bhag 1/18 Bhag Preetam Singh S/O Mana S/O Aasha Ram 1/6 Bhag Satyawan S/O Chatar Singh S/O Hari Singh 1/6 Bhag Vashideh 234/24
75	239/4	Private	Agriculture	0.0228	Bashesar Dass S/O Rasala S/O Tokha 1/12 Bhag Anil Kumar S/O Bashser Dass S/O Rasala 1/12 Bhag Shrimati Kareshani Wd/O Vah Rameshwar - Shishpal - Vedpal - Jageer S/O Vah Shrimati Rajapti D/O Gordhan S/O Tokha Har Che Sam Bhag 3/16 Bhag Shrimati Guddi Wd/O Rajpal S/O Gordhan 2/96 bhag Vah Bhupinder son 1/96 s/o Rajpal s/o Gordhan 1/96 Bhag Gurnanak Dev Education And Welfare Society Faral Marphat Ved Prakash Up Pradhan S/O 45/1433 Bhag Shanti Devi Wd/O Vah Sanjeev S/O Ramdhari S/O Raldu Har Do Sambhag 1/12 Bhag Kamla Devi W/O Bhale Ram S/O Shrichand 5/5754 Bhag Bugli Devi W/O Ramphal S/O Mange Ram 5/5754 Bhag Suman Devi W/O Surender Singh S/O Vedpal 31/46032 Bhag Nirmal Devi W/O Vijender Kumar S/O Vedpal 31/46032 Bhag Subhash S/O Gordhan S/O Tokha 2593/92064 Bhag Santosh Devi W/O Subhash Chand S/O Mange Ram 5/5754 Bhag Omi Devi W/O Surajbhan S/O Shaadi Ram 25/7672 Bhag Santosh Devi W/O Dharmender S/O Balwan Singh 10/8631 Bhag Amit Kumar S/O Basheshar Dass S/O Risala 1/12 Bhag Suresh Kumar - Naresh Kumar S/O Ramphal S/O Mukhtyar Singh Har Do Sam Bhag 67/103176 Bhag Shanti Devi W/O Sewa Singh S/O Bije Singh 5/14664 Bhag Suman W/O Charan Singh S/O Harpal Singh 5/29328 Bhag Nirmala W/O Ramesh S/O Harpal Singh 5/29328 Bhag Dhanno Devi Wd/O Birbhan S/O Raldu 773/6768 Bhag Birbhan S/O Raldu S/O Bir Singh 1/90 Bhag Mamta Devi W/O Sunil Kumar S/O Lala Ram 17/5732 Bhag Rahul S/O Ramphal S/O Raldu 1/20 Bhag Joginder Kaur Wd/O Vah Sonika Devi- Monika Devi D/O Ramphal S/O Raldu Har Teen Sam Bhag 7/60 Bhag Rajeev Kumar S/O Ramdhari S/O Raldu 691/8598 Bhag Gulab Singh S/O Bija S/O Singh Ram 19/11508 bhag Karnel Singh S/O Bija S/O Singh Ram 19/11508 bhag

					Vashideh 239//4
76	254//19/2	Private	Agriculture	0.3136	Ramesh S/O Chela Ram S/O Ratiram 387/1550 Bhag Deepak Kumar S/O Ramesh Kumar S/O Chela Ram 387/1550 Bhag Karnail Singh S/O Dhoop Singh S/O Rati Ram 171/620 Bhag Amarjeet Wd/O Vah Sandeep Kumar- Mohit S/O Jarnail Singh S/O Dhoop Singh Har Teen Sam Bhag 697/3100 Bhag Vashideh 254//19/2
77	259//3/1	Private	Agriculture	0.043	Sheela Devi - Krishna Devi wd/o Balbir Singh S/O Bishna Ram Har do Sambhag 1/5 Bhag Jagwinder - Ankit - Mankit S/o Balbir Singh S/O Bishna Ram Har teen Sambhag 3/5 Bhag Shrimati Krishna Wd/O Prem s/o Bishna 1/5 Bhag Vashideh 259//3/1
78	259//3/2/1	Private	Agriculture	0.0101	Manga s/o Dheerja s/o Dyotiya 331/334 bhag Dheerja s/o Dayetiya s/o Jeeram 3/334 Bhag vasideh 259//3/2/1
79	259//8/2	Private	Agriculture	0.0126	Manga s/o Dheerja s/o Dyotiya 331/334 bhag Dheerja s/o Dayetiya s/o Jeeram 3/334 Bhag vasideh 259//8/2
80	259//10/2	Private	Agriculture	0.0202	Inder S/O Kala Urf Shyochand S/O Dyetyia Vasideh 259//10/2
81	1594	Common(Gram panchayat)	Rasta	0.0101	Gram Panchayat 1594
82	274//9/2	Private	Agriculture	0.001	Surender Kumar- Balinder Kumar S/O Manphool S/O Dyachand Har Do Sam Bhag 43/478 Bhag Shrimati Angrejo Wd/O Kitaab Singh S/O Dyachand 20/717 Bhag Rajkumar S/O Kitaab Singh S/O Dyachand 89/1434 Bhag Gurdial Singh S/O Chandgi S/O Hari Singh 27/478 Bhag Jasmer Singh S/O Chandgi S/O Hari Singh 1/1434 Bhag Balmat S/O Hari Singh S/O Ruliya 211/956 Bhag Rammehar S/O Baldeva S/O Ruliya 1/6 Bhag Rajesh S/O Baldeva S/O Ruliya 79/1434 Bhag Sunil S/O Rameshwar S/O Shriram 233/1434 Bhag Pratap Singh S/O Dhara S/O Shriram 31/956 BhagSukhbir Rajbir s/o Ramsingh s/o Shriram Har 2 sambhag 30/239 Bhag Vashideh 274//9/2
83	11//26	Private	well/Non - Agriculture	0.0481	Karam Singh- Subhash S/O Diwaan Singh S/O Aabhey Ram Har Do Sam Bhag 1/2 Bhag Karan Singh S/O Hamir Singh S/O Aabhey Ram 1/2 Bhag Vashideh

					11/26
84	274//20/2	Private	Agriculture	0.1416	Ronki S/O Sulhar S/O Maidhan Vashideh 274//20/2
85	472	Common(Gram panchayat)	Khal	0.0076	Gram Panchayat 472
86	275//5	Private	Agriculture	0.0025	Surender Kumar- Balinder Kumar S/O Manphool S/O Dyachand Har Do Sam Bhag 43/478 Bhag Shrimati Angrejo Wd/O Kitaab Singh S/O Dyachand 20/717 Bhag Rajkumar S/O Kitaab Singh S/O Dyachand 89/1434 Bhag Gurdial Singh S/O Chandgi S/O Hari Singh 27/478 Bhag Jasmer Singh S/O Chandgi S/O Hari Singh 1/1434 Bhag Balmat S/O Hari Singh S/O Ruliya 211/956 Bhag Rammehar S/O Baldeva S/O Ruliya 1/6 Bhag Rajesh S/O Baldeva S/O Ruliya 79/1434 Bhag Sunil S/O Rameshwar S/O Shriram 233/1434 Bhag Pratap Singh S/O Dhara S/O Shriram 31/956 BhagSukhbir Rajbir s/o Ramsingh s/o Shriram Har do sambhag 30/239 Bhag Vashideh 275//5
87	96//8/1/2	Government	Canal	0.0051	Haryana Govt. 96//8/1/2
88	295	Common(Gram panchayat)	khal	0.0911	Gram Panchayat 295
89	275//6	Private	Agriculture	0.0556	Surender Kumar- Balinder Kumar S/O Manphool S/O Dyachand Har Do Sam Bhag 43/478 Bhag Shrimati Angrejo Wd/O Kitaab Singh S/O Dyachand 20/717 Bhag Rajkumar S/O Kitaab Singh S/O Dyachand 89/1434 Bhag Gurdial Singh S/O Chandgi S/O Hari Singh 27/478 Bhag Jasmer Singh S/O Chandgi S/O Hari Singh 1/1434 Bhag Balmat S/O Hari Singh S/O Ruliya 211/956 Bhag Rammehar S/O Baldeva S/O Ruliya 1/6 Bhag Rajesh S/O Baldeva S/O Ruliya 79/1434 Bhag Sunil S/O Rameshwar S/O Shriram 233/1434 Bhag Pratap Singh S/O Dhara S/O Shriram 31/956 BhagSukhbir Rajbir s/o Ramsingh s/o Shriram Har do sambhag 30/239 Bhag Vashideh 275//6
90	442	Common(Gram panchayat)	khal	0.0253	Gram panchayat 442
91	443	Common(Gram panchayat)	khal	0.0253	Gram panchayat 443
92	1698	Common(Gram panchayat)	Rasta	0.1771	Gram panchayat 1698
93	303	Common(Gram panchayat)	Rasta	0.0733	Gram panchayat 303

94	288	Common(Gram panchayat)	Rasta	0.0253	Gram panchayat 288
95	1624	Common(Gram panchayat)	Rasta	0.0253	Gram panchayat 1624
96	426	Common(Gram panchayat)	khal	0.0253	Gram panchayat 426
Viilage: Kaul					
97	32//4	Private	Agriculture	0.129	Sube Singh Balinder Singh s/o Bhag Singh S/o Basanta Har do sam Bhag 1/2 Bhag singh S/o Basanta S/o Bhana Ram 1/2 Bhag 32//4
98	32//5	Private	Agriculture	0.2732	Sube Singh Balinder Singh s/o Bhag Singh S/o Basanta Har do sam Bhag 1/2 Bhag Bhag singh S/o Basanta S/o Bhana Ram 1/2 Bhag 32//5
99	32//6	Private	Agriculture	0.2529	Kamla Devi Wd/o 1/4 bhag Vae karambeer Malkhan sambhag 1/3 bhag s/o vae kirna devi rekha devi har do sambhag 1/3 bhag d/o teluram s/o dayotiya rekha wd/o satish kumar s/o telu ram 1/12 bhag 32//6
100	32//7	Private	Agriculture	0.1644	Kamla Devi Wd/o 1/4 bhag Vae karambeer Malkhan sambhag 1/3 bhag s/o vae kirna devi rekha devi har do sambhag 1/3 bhag d/o teluram s/o dayotiya rekha wd/o satish kumar s/o telu ram 1/12 bhag 32//7
101	32//14	Private	Agriculture	0.2302	Kamla Devi Wd/o 1/4 bhag Vae karambeer Malkhan sambhag 1/3 bhag s/o vae kirna devi rekha devi har do sambhag 1/3 bhag d/o teluram s/o dayotiya rekha wd/o satish kumar s/o telu ram 1/12 bhag 32//14
102	32//15/1	Private	Agriculture	0.1037	Kamla Devi Wd/o 1/4 bhag Vae karambeer Malkhan sambhag 1/3 bhag s/o vae kirna devi rekha devi har do sambhag 1/3 bhag d/o teluram s/o dayotiya rekha wd/o satish kumar s/o telu ram 1/12 bhag 32//15/1
103	32//15/2	Private	Agriculture	0.0885	Ramkishan Ramchander S/o Inder S/o Dyotiya Har do Sambhag 1/2 Bhag Naseeb S/o Ramdhari S/o Inder 1/4 Bhag Kanta devi widow Vae Sushma Devi Suman Devi Viky Rani Poonam Rani daughter Vae Deepak Kumar Pardeep Kumar S/o Omparkash S/o Inder Har 7 sambhag 1/4 Bhag 32//15/2
104	32//16	Private	Agriculture	0.0733	Ramkishan Ramchander S/o Inder S/o

					Dyotiya Har do Sambhag 1/2 Bhag Naseeb S/o Ramdhari S/o Inder 1/4 Bhag Kanta devi widow Vae Sushma Devi Suman Devi Viky Rani Poonam Rani daughter Vae Deepak Kumar Pardeep Kumar S/o Omparkash S/o Inder Har 7 sambhag 1/4 Bhag 32//16
105	32//17/1	Private	Agriculture	0.1163	Kamla Devi Wd/o 1/4 bhag Vae karambeer Malkhan sambhag 1/3 bhag s/o vae kirna devi rekha devi har do sambhag 1/3 bhag d/o teluram s/o dayotiya rekha wd/o satish kumar s/o telu ram 1/12 bhag 32//17/1
106	117//25//3	Private	Agriculture	0.0228	Rajesh Kumar- Ramesh Kumar S/O Ramchander S/O Sing Ram Har Do Sambhag Vasideh 117//25//3
107	147//11	Private	Agriculture	0.0005	Dalel Singh- Mehar Singh- Sultan Singh- Naseeb Singh S/O Laal Singh S/O Jeevan Singh Har char Sambhag 4/5 bhag leela wd/o vae parveen kumar s/o vae sudha d/o multan singh s/o lala singh har teen sambhag 1/5 bhag Vasideh 147//11
108	1583	Private	RASTA	0.0582	shri ram s/o kundan s/o sahu 1/9 nhag baldev singh s/o shri ram s/o kundan 1/18 bhag jaisingh ishwar s/o vae shrimati kanta devi d/o singhram s/o harichand har teen sa,bhag 115/307 bhag sultan singh mahinder singh s/o har do sambhag 71/614 bhag shrimati roshni d/o shanti w/o singh ram 3/307 bhag magarchnad s/o lizza d/o yaedu 1/6 bhag roshanlal s/o v shrimati kamla roshni d/o chatru s/o udaeyram har teen sambhag 1/10 bhag shrimati sunhari wd/o v rekha devi mahindero devi sheela devi d/o vae rajinder s/o ratiram s/o chatru har pach sambhag 1/30 bhag vidhya devi wd/o vae sumanlata - neelam rani - seema devi d/o vae mahinder singh -suresh pal s/o aathmaram s/o chatru har chah sambhag 1/30 bhag 1583
109	150//14	Private	Agriculture	0.0002	Shrimati Prasanni Devi Vidhwa Vae Ramsingh-Maan Singh-Bhag Singh-Bal Singh- Charan Singh S/O Veh Phullo Devi- Mukhtyari Bhagti-Chameli-Roshni D/O Neth Ram S/O Harnam Har Gyarah Sambhag Vasadeh 150//14
110	1496	Common(Gram Panchayat)	RASTA	0.0759	Gram Panchayat 1496

111	1497	Common(Gram Panchayat)	RASTA	0.0885	Gram Panchayat 1497
112	184//22/1/2	Private	Agriculture	0.0051	Mohanlal- Rajinder Kumar- Malkhan Singh S/O Har Teen Sambhag 1/2 Bhag Shrimati Shrimati Bohati Devi Vidhwa Mangal Nandram 1/2 Bhag Vasideh 184//22/1/2
113	184//22/2/1	Government	RASTA	0.0051	Gram Panchayat 184//22/2/1
114	184//22/2/2	Private	Agriculture	0.0582	Smt. Gyano Vidhwa 8/235 Bhag Pala Ram-Rampal-Rajesh- Manoj S/O Pirthi Singh S/O Inder Har Char Sambhag 225/752 Bhag Jasveer- Rajkumar S/O Dalel Singh S/O Inder Har Do Sambhag 1253/3760 Bhag Isham Singh S/O Parem S/O Inder 403/1880 Bhag Rani Devi W/O Isham Devi S/O Parem Singh 28/235 Bhag Vasiddeh 184//22/2/2
115	364/2	Common(Gram Panchayat)	Khal	0.0253	Gram Panchayat 364/2
116	367	Common(Gram Panchayat)	Khal	0.0253	Gram Panchayat 367
117	258//1	Private	Agriculture	0.1037	Balvanth S/O Shobha S/O Harnam 1/3 Bhag Shrimati Kalavati wd/o Vae Sanjeev Kumar- -Anil Kumar- Praveen Kumar S/O Ramswaroop S/O Shobha Har Char Sambhag 1/3 bhag Rajapal-Ramchander S/O Shobha Ram har Do Sambhag 1/3 Bhag Vasideh 258//1
118	258//2	Private	Agriculture	0.2226	Balvanth S/O Shobha S/O Harnam 1/3 Bhag Shrimati Kalavati wd/o Vae Sanjeev Kumar- -Anil Kumar- Praveen Kumar S/O Ramswaroop S/O Shobha Har Char Sambhag 1/3 bhag Rajapal-Ramchander S/O Shobha Ram har Do Sambhag 1/3 Bhag Vasideh 258//2
119	258//9	Private	Agriculture	0.043	Mahinder Singh S/O Bhulla S/O Ramrikh 250/1903 Bhaag Rampal S/O Bhulla S/O Ramrikh 4/1903 Bhaag Smt. Mewa Devi Wd/O Multan S/O Bhulla 58/1903 Bhaag Kirshan Kumar -Sanjay Kumar S/O Multan S/O Bhulla Har Do Sam Bhaag 166/1903 Bhaag Rajbir - Rajesh Kumar S/O Gulab Singh S/O Bhulla Har Do Sam Bhag 9/173 Bhaag Subash S/O Babu S/O Ramrikh 251/1903 Bhaag Rajbir S/O Babu S/O Ramrikh 15/1903 Bhaag Taqdir S/O Jagdeesh S/O Datu 238/1903 Bhaag Jasmer Singh -Mahinder Singh S/O Babu S/O Singh Ram Har Do Sam Bhaag 170/1903 Bhaag Dalip Singh - Rampal-Jai Singh -Omparkash S/O Tuhiya S/O Jawahara Har Chaar Sam

					Bhaag 333/1903 Balwant singh s/o sobha ram S/ Harnand 40/1903 Bhaag Rajpal- Satbir S/O Ramchander S/O Shayo Ram Har Do Sam Bhaag 40/1903 Bhaag Vasideh Palo Devi W/O Phulla Ram S/O Banwari 239/3806 Bhaag Vasi Sangroli Dolli Devi W/O Balraj S/O Moman Ram 239/3806 Bhaag Vasi Sangroli 258//9
120	366	Common(Gram Panchayat)	Khaal	0.0126	Gram Panchayat 366
121	1495	Common(Gram Panchayat)	RASTA	0.0835	Gram Panchayat 1495
122	218//21	Private	Agriculture	0.0126	Smt. Gyano Vidhwa 21/470 Bhag Pala Ram-Rampal-Rajesh- Manoj S/O Pirthi Singh S/O Inder Har Char Sambhag 949/3290 Bhag Jasveer- Rajkumar S/O Dalel Singh S/O Inder Har Do Sambhag 159/1645 bhag shrimati taro w/o amar singh s/o baru 779/3290 Bhag Isham singh s/o parem 58/329 bhag rani devi w/o isham singh s/o parem singh 11/70 bhag vasideh 218//21
123	287	Government(Gram Panchayat)	Pond	1.7351	Gram Panchayat kasth - shamanand s/o ramanand chela parmanand vasideh gaer morushi 287
Viilage: Mohna					
124	33//9	Private	Agriculture	0.0025	Smt Ramjkumari Wd/O Ranbeer Singh S/O Isham 1/9 Bhag Vasideh Smt Sunita Devi Wd/O Harpal Singh S/O Isham Singh 1/9 Bhag Vasi Tayontha Sukhpal Singh S/O Isham Singh S/O Deva Singh 2/9 Bhag Vasi Tayontha Rajni W/O Sukhpal Singh S/O Isham Singh 1/9 Bhag Udham Singh S/O Harpal Singh S/O Isham Singh 2/9 Bhag Aman S/O Ranbeer Singh S/O Isham Singh 2/9 Bhag Vasideh 33//9
125	34//27	Private	Tubewell	0.0051	Rajkishan - Subhash Chand S/O Bakshi Ram S/O Batali Ram Har do Sambhag 663/1117 Bhag Aswani Kumar S/O Bakshi Ram S/O Batali Ram 340/1117 Bhag Tarun - Naveen kumar s/o vae Sangeeta d/o Rajni kumari d/o Bakshi ram har teen Sambhag 114/1117 bhaag 34//27
126	45//24	Private	Agriculture	0.0101	Prem - Raghubeer - Daleep - Mahaveer - Naffe Singh S/O Rishal Singh Chhaju Har panch Sambhag Vasi Tayontha 45//24
127	288	Common(Gram Panchayat)	Khal	0.0228	Gram Panchayat 288

128	48//13	Government	Drain	0.0025	Haryana Government 48//13
129	62//26	Private	Tube well	0.0253	Kaliram S/O Chandan Singh S/O Kundan Singh 1/2 Bhag Ramdiya S/O Chandan Singh S/O Kundan Singh 1/4 Bhag Kamla Devi W/O Ramdiya S/O Chandan Singh S/O Kundan Singh 1/4 Bhag 62//26
130	69//25/3	Private	Agriculture	0.1012	Mana - Ramdiya S/O & Smt Bala Devi D/O Lal Ji Ram S/O Daulla Har teen Sambhag Vasideh 69//25/3
131	294	Common(Gram Panchayat)	Rasta	0.0253	Gram Panchayat 294
Viilage: Pabnawa					
132	1555	Common(Gram Panchayat)	Rasta	0.0253	Gram Panchayat 1555
133	267	Government	ROAD	0.1189	Gram Panchayat 267
134	268	Government	ROAD	0.2909	Gram Panchayat 268
135	461	Common(Gram Panchayat)	Khal	0.0253	Gram Panchayat 461
136	226//9/2/1	Private	Agriculture	0.0076	Tek Chand - Jai Singh - Jila Singh S/O Lal Singh S/O Devat Ram Har teen Sambhag Vasideh 226//9/2/1
137	226/9/2/2	Private	Agriculture	0.0051	P.W.D 226/9/2/2
138	226//2/1/2	Private	Agriculture	0.0025	sona devi w/o ajmer singh s/o mangat ram 5/26 bhaag fateh chand s/o maniya S/O Uda 7/104 Bhag Ishwar Chand S/O Maniya S/O Uda 19/78 Bhag Somnath - Omparkash S/O Anantu Har do Sambhag 457/2340 Bhag Maanchand S/O Antu 10/117 bhag mukhtyari devi wd/o vae premo devi d/o antu s/o davti 19/780 bhaag vidha devi wd/o vae neelam devi d/o vae jitender kumar s/o maamchand s/o antu 19/1560 bhaag Suman Wd/O Jagdish S/O Bhula 14/117 bhag Ravindar Kumar S/O Jagdish S/O Bhulla 7/117 Bhag Vasideh 226//2/1/2
139	1566	Common(Rasta)	Gram Panchayat	0.0202	Gram Panchayat 1566
140	279	Common(Gram Panchayat)	Rasta	0.0834	Gram Panchayat 279
Viilage: Pharal					
141	210//21	Private	Agriculture	0.0076	Shri Chand S/O Bnwari Lal S/O Narayan Das 928/8997 Bhag Rajender - Tilakraj S/O Kishan Dat S/O Rati ram

					103/5998 bhag Birbal - Ramesh S/O Rati ram S/O Banwari har do sambhag 103/2999 Jasmer Singh S/O Prem Singh S/O Surat Singh 115/8997 bhag leela Devi W/O Shiv Singh S/o Kartu 115/8997 bhag Sambhu datt S/O rati ram S/O Banwari 30/2999 bhag Shubham Kumar S/O Shiv Datt S/o Rati Ram 103/23992 bhag Ritu Devi D/o Satbir S/o Rati Ram 103/23992 bhag Bimla Devi WD/O vae Munish Kumar - Rajnish Kumar S/O Krishan S/o Surat Singh 115/8997 bhag Shiv Singh S/O Budh Singh 202/2999 Bhag Babu Ram - Jile Singh S/o Narayan S/o Budh Singh Har do sambhag 231/2999 bhag kanti Devi Wd/O vae Khajan Singh - Balwan Singh - Charan Singh - Rajkumar - Shiv Kumar - Rajender Kumar - Devi Lal S/O Dalel Singh S/O Narayan Har aath SamBhaag 58/2999 bhag Palo Devi Vidhwa phoola Ram S/o Banwari 928/62989 bhag Sona Devi Sona Devi Vidhwa Vae Ram Devi - Sathya Devi - Pinki Devi - Kamlesh D/O Vae Ramnivash - Satish Kumar Urf Bablu - Mahender Kumar S/O Moman Ram S/O Banvari Har aath Sambhag 928/8997 Bhag Rajpal - Madanlal - Balraj S/O Prem S/O Aatma Ram har teen sambhag 264/2999 Bhag Neelam W/O Sumaer S/O Bhajni 142/2999 Bhag Santosh W/O Balbeer W/O Bhajni 142/2999 Bhag Subhash S/O Bhajani S/O Kanhaiya 142/2999 bhag Ritu Devi D/o Vae Aman - Manish S/O Satbir Singh S/o Rati Ram har teen sambhag 927/95968 Bhag Jasvinder Singh - Rajinder Singh S/O Bhag Singh S/O Kartu Har Do Sambhag 202/2999 Bhag Satpal - Rajesh - Satish S/O Roshan Lal S/O Aatama Ram Har Teen Sambhag 264/2999 Suman Devi W/O Mahinder Singh S/O Raghbeer Singh 31/2999 Bhag Bohati Vidhwa Satbir Singh S/O Ratiram 181/95968 Bhag Shividatt S/O Ratiram S/O Banvari 185/23992 Bhag Dulari W/O Ramesh Kumar S/O Ratiram 5/2999 Bhag Vasideh Kaushlaya Devi W/O Birbal S/O Ratiram 5/2999 Bhag Vasi Sangroli Mange Ram - Veerbhan - Rajbir S/O Phulla Ram S/O Banvari Har Teen Sambhag 1856/20993 Bhag Vasideh 210//21
142	211//17	Private	Agriculture	0.0004	Pardeep - Sandeep - Bhupender Singh S/O Dharam Singh S/O Fakiriya Har Teen Sambhag 1/8 Bhag Jasbir - Rajpal S/O Siriya S/O Lalu Har Do Sambhag 1/3 Bhag Yashpal S/O Fakiriya S/O

					Lalu 3947/24402 Bhag Anil Kumar S/O Devidyal S/O Surajbhan 20/4067 Bhag Suman Devi Vidhwa Vae Sita Devi D/O Vae Vikrant - Shivam S/O Kuldeep Singh S/O Dharam Singh Har Char Sambhag 1/24 Bhag Mam Chand S/O Sirya S/O Lalu 83/9714 Bhag Maya Devi W/O Mam Chand S/O Sirya 128/1619 Bhag S/O Rahul S/O Mamchand S/O Sirya 128/1619 Bhag Ranbeer S/O Fakiriya S/O Lalu 1219 /41874 Bhag Gulshan Tanwar S/O Vae Sudesh Rani W/O Ranbeer Singh Fakiriya Har Do Sambhag 960/6979 Bhag Vasideh 211/17
143	252/122/2	Private	Agriculture	0.0506	Ramchander S/O Jeetu Ram S/O Maan Singh 279/3106 Bhaag Hawa Singh - Suresh Kumar - Krishan Kumar S/O Ramchander S/O Jeetu Ram Har Teen SamBhaag 2/1553 Bhaag Kartara - Tara S/O Sukhram S/O Harnam Har Do Sam Bhaag 159/3106 Bhaag Shrichand S/O Banwari S/O Narayan 961/9318 Bhaag Rajender - Tilak Raj S/o Kishan Datt S/o Ratiram 640/32613 bhag Ramesh S/O Ratiram S/O Banwari 640/32613 bhag Birbal - Sambhu Datt S/O Ratiram S/O Banwari har do sambhag 320/32613 bhag Shivam Kumar S/O Shiv datt S/O Ratiram 160/32613 bhag Ritu Devi D/O Satbir S/O Ratiram 160/32613 bhag Satbir S/O Ratiram S/O Banwari 160/10871 bhag Roshan Lal - Prem Chand S/O vae Shrimati Roshni - Darshni - Prem Devi D/O Aatma Ram S/O Datu har panch sambhag 547/3106 Bhaag Jasmer Singh S/O Prem Singh S/O Surat Singh 119/9318 bhag Leela Devi W/O Shiv Singh S/O Kartu ram 119/9318 bhag Vimla Devi Wd/O vae Manish Kumar - Rajnish Kumar S/O Krishan S/O Surat Singh Har Teen Sam Bhaag 119/9318 Bhaag Shiv Singh S/O Narayan Singh S/O Budh Singh 209 /3106 Bhaag Babu Ram - Jile Singh S/O Narayan Singh S/O Budh Singh Har Do Sam Bhaag 239/3106 Bhaag Shrimati kanti Devi Wd/O vae Khajan Singh - Balwan Singh - Charan Singh - Rajkumar - Shiv Kumar - Rajender Kumar - Devi Lal S/O Dalel Singh S/O Narayan Singh Har aath SamBhaag 30/1553 bhag Paalo Devi Wd/O Phula Ram S/O Banvari 961/65226 Bhaag Sona Devi Wd/o Vae Ramdevi - Satya Devi - Kamlesh -Pinki Devi D/O vae Ramniwas - Satish Kumar Urf Bablu - Mahinder Kumar S/O Moman Ram S/O Banwari Har aath SamBhaag 961/9318

					Bhaag Jasvinder Singh - Rajinder Singh S/O Bhaag Singh S/O Kartu Har Do Sam Bhaag 209/3106 Bhaag Suman Devi W/O Mahinder Singh S/O Raghbir Singh 320/10871 Bhaag Mange Ram - Veerbhaan - Rajbir S/O Phulla Ram S/O Banwari Har Teen Sam Bhaag 961/10871 Bhaag Vasideh 252/22/2
144	1308	Common(Gram Panchayat)	Rasta	0.0835	Gram Panchayat 1308
145	372	Common(Gram panchayat)	Rasta	0.0101	Gram Panchayat 372
146	346	Government	Canal	0.0177	Haryana Govt 346
147	328//19	Private	Agriculture	0.1341	Pawan Kumar - Zile Singh - Sushil Kumar S/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 753/1328 Satpal S/O Ramkishan S/O Mangal 243/1328 Bhag Phulli Devi Widow & Santosh Kumari - Suman Devi D/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 3/16 Bhag Anil Kumar - Narender Kumar S/O Sona Devi D/O Ramkishan har do sambhag 1/16 bhag vasideh 328//19
148	328//21	Private	Agriculture	0.0455	Pawan Kumar - Zile Singh - Sushil Kumar S/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 753/1328 Satpal S/O Ramkishan S/O Mangal 243/1328 Bhag Phulli Devi Widow & Santosh Kumari - Suman Devi D/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 3/16 Bhag Anil Kumar - Narender Kumar S/O Sona Devi D/O Ramkishan har do sambhag 1/16 bhag vasideh 328//21
149	328//22	Private	Agriculture	0.2959	Pawan Kumar - Zile Singh - Sushil Kumar S/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 753/1328 Satpal S/O Ramkishan S/O Mangal 243/1328 Bhag Phulli Devi Widow & Santosh Kumari - Suman Devi D/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 3/16 Bhag Anil Kumar - Narender Kumar S/O Sona Devi D/O Ramkishan har do sambhag 1/16 bhag vasideh 328//22
150	329//1	Private	Agriculture	0.1872	Pawan Kumar - Zile Singh - Sushil Kumar S/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 753/1328 Satpal S/O Ramkishan S/O Mangal 243/1328 Bhag Phulli Devi Widow & Santosh Kumari - Suman Devi D/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 3/16 Bhag Anil Kumar - Narender Kumar S/O Sona Devi D/O Ramkishan har do

					sambhag 1/16 bhag vasideh 329//1
151	329//2	Private	Agriculture	0.2782	Pawan Kumar - Zile Singh - Sushil Kumar S/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 753/1328 Satpal S/O Ramkishan S/O Mangal 243/1328 Bhag Phulli Devi Widow & Santosh Kumari - Suman Devi D/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 3/16 Bhag Anil Kumar - Narender Kumar S/O Sona Devi D/O Ramkishan har do sambhag 1/16 bhag vasideh 329//2
152	329//9	Private	Agriculture	0.0986	Pawan Kumar - Zile Singh - Sushil Kumar S/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 753/1328 Satpal S/O Ramkishan S/O Mangal 243/1328 Bhag Phulli Devi Widow & Santosh Kumari - Suman Devi D/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 3/16 Bhag Anil Kumar - Narender Kumar S/O Sona Devi D/O Ramkishan har do sambhag 1/16 bhag vasideh 329//9
153	329//10	Private	Agriculture	0.1467	Pawan Kumar - Zile Singh - Sushil Kumar S/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 753/1328 Satpal S/O Ramkishan S/O Mangal 243/1328 Bhag Phulli Devi Widow & Santosh Kumari - Suman Devi D/O Ramkishan S/O Mangal Har teen Sambhag 3/16 Bhag Anil Kumar - Narender Kumar S/O Sona Devi D/O Ramkishan har do sambhag 1/16 bhag vasideh 329//10
Viilage: Pundri					
154	179//16/1	Private	Agriculture	0.0961	Satpal S/O Inder S/O Shankar 1/2 Bhag Sunita Devi W/O Satpal S/O Inder 1/2 Bhag Vasideh 179//16/1
155	180//12/1/2	Private	Agriculture	0.0025	Prithvi Singh S/O Norang Singh S/O Nanhu 447/1444 bhag Mangal Singh S/O Ram Singh Badhau 161/5776 Bhag Jilae Singh S/O Kanhiya S/O Bdama 20/361 Bhag Jernael Singh S/O Gurmukh Singh S/O Ujagar Singh 5/361 Bhag Sathpal, Balwan S/O Parem Singh S/O Norang Har do Sambhag 25/361 Bhag Omparkash s/o Ramsingh s/o Badhau 161/5776 bhag Vipana Kaenival S/O Rajkumar S/O Moti 241/1444 Bhag Surander Kumar, Praveen Kumar S/O Kehar Singh S/O Bulla Har Do Sambhag 7/76 Bhag Gurdev Singh, Jeneral Singh S/O Gurmuk Singh S/O Ujagar Singh Har Do Sambhag 47/1083 Bhag Mukhtyar Singh S/O Gurmukh Singh S/O Ujagar

					Singh 73/4332 Bhag Kulvant Singh S/O Gurmukh Singh S/O Ujagar Singh 13/4332 Bhag Jaswant singh s/o Gurmukh singh S/o Ujagar Singh 13/4332 bhag Lakhvinder Singh S/O Gurmukh Singh S/O Ujagar Singh 13/4332 Bhag Taaro Devi widow & Sheela D/o Maansingh S/o Soran Sambhag 134/2527 Bhag Ankit S/O Rishipal S/O Maan Singh 67/7581 Bhag Ajay s/o Rishipal s/o Maansingh 31/5054 Bhag Balkar S/O Maan Singh S/O Shorn Har Do Sambhag 335/7581 Bhag Balvant S/O Ram Singh S/O Badhau 161/2888 Bhag Jaswant Singh S/o Gurumukh Singh S/o Ujagar Singh 13/4332 Bhag Vasideh 180//12/1/2
156	185//26	Private	Agriculture	0.3035	Sher Singh son vae Jiraso - Shanti D/o Harlal S/o Nandu Har teen sambhag 3/14 Bhag Prithi s/o Norang s/o Nandu 50/156 Bhag Ramchander s/o Harlal s/o Nandu 1/1092 Bhag Roshni widow & Satpal Balwan s/o Preamsingh s/o Norang Har teen samhag 1/4 bhag Satbir singh S/o Hari singh s/o Har lal 3/14 Bhag vasideh 185//26
157	218//21	Private	Agriculture	0.0101	Sunil Kumar - Gyanchand s/o Omparkash s/o Nathu ram 1/2 Bhag Rampal S/O NathuS/O Chandan 1/2 Bhag sambhaag vasi barsana 218//21
158	301//14/2/1	Private	Agriculture	0.263	Dharam Singh S/O Badhaau S/O Kundan 49/332 bhag Ishwar - Rajkumar S/O Ramsarup S/O Dhan Singh har do sambhag 127/996 bhag Sultan Singh S/O Juglal S/O Shoran 85/1992 bhag Chandgiram - Tekchand - Mangeram S/O Juglal S/O Bhramanand Har teen Sambhag 175/1328 Bhag Ramfal - Anil Kumar S/O Vedparkash S/O Juglal har do sambhag 5/332 bhag Parveen S/O Sunhera S/O Shyola 205/1992 bhga Roshan lal - Joginder Singh S/O Neki Ram S/O Dhan Singh har do sambhag 205/1992 bhga Krishan Lal - Joginder Singh - Kulvinder Singh S/O Jai Singh S/O Shoran har teen sambhag 43/996 bhag Sumanlta vidhwa Chanderbhan S/O Juglal 5/1328 bhag Rajender parsaad S/O Janardhan Daas vae Janardhan Das S/O Antram S/O Bharmannand har do sambhag 1123/5976 bhag Mukesh kumar S/O Rajpal S/O Janrdhandaas 283/2988 bhag vasideh 301//14/2/1
159	301//14/2/2	Private	Agriculture	0.263	Dharam Singh S/O Badhaau S/O

					Kundan 49/332 bhag Ishwar - Rajkumar S/O Ramsarup S/O Dhan Singh har do sambhag 127/996 bhag Sultan Singh S/O Juglal S/O Shoran 85/1992 bhag Chandgiram - Tekchand - Mangeram S/O Juglal S/O Bhramanand Har teen Sambhag 175/1328 Bhag Ramfal - Anil Kumar S/O Vedparkash S/O Juglal har do sambhag 5/332 bhag Parveen S/O Sunhera S/O Shyola 205/1992 bhga Roshan lal - Joginder Singh S/O Neki Ram S/O Dhan Singh har do sambhag 205/1992 bhga Krishan Lal - Joginder Singh - Kulvinder Singh S/O Jai Singh S/O Shoran har teen sambhag 43/996 bhag Sumanlta vidhwa Chanderbhan S/O Juglal 5/1328 bhag Rajender parsaad S/O Janardhan Daas vae Janardhan Das S/O Antram S/O Bharmanand har do sambhag 1123/5976 bhag Mukesh kumar S/O Rajpal S/O Janrdhandaas 283/2988 bhag vasideh 301//14/2/2
160	301//16/1	Private	Agriculture	0.0708	Dharam Singh S/O Badhaau S/O Kundan 49/332 bhag Ishwar - Rajkumar S/O Ramsarup S/O Dhan Singh har do sambhag 127/996 bhag Sultan Singh S/O Juglal S/O Shoran 85/1992 bhag Chandgiram - Tekchand - Mangeram S/O Juglal S/O Bhramanand Har teen Sambhag 175/1328 Bhag Ramfal - Anil Kumar S/O Vedparkash S/O Juglal har do sambhag 5/332 bhag Parveen S/O Sunhera S/O Shyola 205/1992 bhga Roshan lal - Joginder Singh S/O Neki Ram S/O Dhan Singh har do sambhag 205/1992 bhga Krishan Lal - Joginder Singh - Kulvinder Singh S/O Jai Singh S/O Shoran har teen sambhag 43/996 bhag Sumanlta vidhwa Chanderbhan S/O Juglal 5/1328 bhag Rajender parsaad S/O Janardhan Daas vae Janardhan Das S/O Antram S/O Bharmanand har do sambhag 1123/5976 bhag Mukesh kumar S/O Rajpal S/O Janrdhandaas 283/2988 bhag vasideh 301//16/1
161	301//23/1	Private	Rasta	0.0025	Subhash s/o Leela Ram s/o Jhandu 2/13 Bhag Ishma - Rangi - Ramesh - Jai singh S/o Mangat Ram S/o Jhandu Har char sambhag 1/3 Bhag Mahabir - Dharambir S/o Purn S/o Harkesh Har do sambhag 3/13 Bhag Krishan s/o Maichand s/o Mangat ram 1/13 bhag Sultan Singh - Ramkumar - Mahinder Singh S/o Phulla urf Chhotu S/o Puran Chand Har teen Sambhag 7/39 Bhag Vikram s/o Azmer Singh S/o Phulla urf

					Chhotu 1/39 Bhag vasideh 301//23/1
162	311//8/2/1	Private	Rasta	0.0177	Dharam Singh S/o Badhau S/o Harnam 4/23 Bhag Deshraj Subhash s/o Badhau S/o Harnam Sambhag 15/46 Bhag Saroopi Devi Widow Jeet Singh S/o Badhau Ram 4/23 Bhag Pankori w/o Jai Singh S/o Abhey Ram 3/46 Bhag Mukhtiyari Devi w/o Sundr Ram S/o Aabha ram 3/46 Bhag Santosh Devi - Nirmla Devi - Sunita Devi D/o Mala Ram S/o Badhau Ram 1/46 Bhag Sushil Kumar - Amit Kumar s/o Shrichand S/o Badhau 4/23 Bhag vasideh 311//8/2/1
163	311//8/2/2	Private	Agriculture	0.0177	Deshraj S/O Badhau S/o Harnam 403/1206 Bhag Subhash Chand s/o Badhau S/o Harnam 391/1206 Bhag Sushil Kumar Amit Kumar S/o ShriChand s/o Badhau Ram Har do Sambhag 206/603 bhag vasideh 311//8/2/2
164	311//19/1	Private	Agriculture	0.0278	Deshraj S/O Badhau S/o Harnam 403/1206 Bhag Subhash Chand s/o Badhau S/o Harnam 391/1206 Bhag Sushil Kumar Amit Kumar S/o ShriChand s/o Badhau Ram Har do Sambhag 206/603 bhag vasideh 311//19/1
165	311//19/2	Private	Agriculture	0.0101	Saroopi devi wd/o Jeet Singh S/o Badhau 311//19/2
166	311//22/2	Private	Agriculture	0.1315	Saroopi devi wd/o Jeet Singh S/o Badhau Ram 311//22/2
167	319//23	Private	Agriculture	0.0101	Jagdish S/O Karta S/O Jhandu 1/4 Bhag Santa - Badhau S/O Jhandu S/O Surja Har Do Sambhag 1/2 Bhag Surander Kumar - Suresh Kumar S/O Pyarae Lal S/O Jhandu Har Do Sambhag 1/4 Bhag vasideh 319//23
168	903	Common(Nagar Palika)	Rasta	0.0177	Jumla Malkan Vae Digar Haqdrab Araj Hasv Rsad Rakba Vasideh 903
169	289//11/2	Private	Agriculture	0.0025	Sultan Singh S/O Juglal S/O Shoran 173/799 Bhag Sanjeev Kumar - Rajeev Kumar S/o Hari Singh S/o Mangal 120/799 Bhag Moti - Ragbir Singh - Multan Singh - S/O Singhu S/O Badama Har Teen Sambhag 80/799 Bhag Vasideh Shrimati Sunita Devi D/O Karta Ram S/O Dyotiya 200/799 Bhag Vasi Barsana Rajesh S/O Dalip S/O Chotu Ram 106/3995 bhag Dhanpati Wd/o Dalip S/O Chhotu Ram 2/255 Bhag Sunita D/o Dalip S/o

					Chhotu 53/3995 Bhag Krishan Lal - Joginder Singh - Kulvinder Singh s/o Jai Singh S/O Shoran Har teen Sambhag 120/799 Bhag Rakesh S/O Dalip S/O Chotu Ram 18/3995 Bhag Roshni Vidhwa Pirthi S/O Chotu 60/799 Bhag Reena Devi W/o Kulwinder Singh S/o Jaisingh 13/2397 Bhag Vasideh 289//11/2
170	443	Common(Nagar Palika)	Khal	0.0252	Nagar Palika 443
171	301//23/2	Private	Agriculture	0.0328	Subhash s/o Leela Ram s/o Jhandu 41/159 Bhag Ishma - Rangi - Ramesh - Jai singh S/o Mangat Ram S/o Jhandu 472/795 Bhag Krishan kumar s/o Maichand S/o Mangat Ram 118/795 Bhag vasideh 301//23/2
172	301//16/2	Private	Agriculture	0.1972	Dharam Singh S/O Badhaau S/O Kundan 49/332 bhag Ishwar - Rajkumar S/O Ramsarup S/O Dhan Singh har do sambhag 127/996 bhag Sultan Singh S/O Juglal S/O Shoran 85/1992 bhag Chandgiram - Tekchand - Mangeram S/O Juglal S/O Bhramanand Har teen Sambhag 175/1328 Bhag Ramfal - Anil Kumar S/O Vedparkash S/O Juglal har do sambhag 5/332 bhag Parveen S/O Sunhera S/O Shyola 205/1992 bhga Roshan lal - Joginder Singh S/O Neki Ram S/O Dhan Singh har do sambhag 205/1992 bhga Krishan Lal - Joginder Singh - Kulvinder Singh S/O Jai Singh S/O Shoran har teen sambhag 43/996 bhag Sumanlta vidhwa Chanderbhan S/O Juglal 5/1328 bhag Rajender parsaad S/O Janardhan Daas vae Janardhan Das S/O Antram S/O Bharmanand har do sambhag 1123/5976 bhag Mukesh kumar S/O Rajpal S/O Janrdhandaas 283/2988 bhag vasideh 301//16/2
173	432	Common(Nagar Palika)	Khal	0.0075	Mahaji Malakn vasideh 432
174	218//9	Private	Agriculture	0.005	Chmaeli W/O Dharam Singh S/O Sidhu Ram 145/529 Bhag Vasi Gram Barsana Karam Singh S/O Badhau ram S/O Surja 31/529 Bhag raghbir singh - randhir singh S/O singhu S/O surja har do sam bhaag 353/529 bhaag vasideh 218//9
175	218//7/2/3	Private	Agriculture	0.005	Prem Chand S/O Laxman S/O Sada Vasideh 218//7/2/3
176	180//10/2	Common(Nagar	Rasta	0.0252	Jumla Malkan Vae Digar Haqdrab Araj

		Palika)			Hasv Rsad Rakba Vasideh 180//10/2
177	180//20/2	Private	Agriculture	0.0404	Satpal S/O Inder S/O Shankar 1/2 Bhag Sunita Devi W/O Satpal S/O Inder 1/2 Bhag Vasideh 180//20/2
178	971	Common(Nagar Palika)	Rasta	0.0025	Jumla Malkan Vae Digar Haqdran Arajji Hasv Rsad Rakba Vasideh 971
Viilage: Sangroli					
179	276	Common(Gram Panchayat)	Khal	0.0051	Gram Panchayat 276
180	175	Common(Gram Panchayat)	Rasta	0.043	Gram Panchayat 175
181	26//13/1	Private	Agriculture	0.0202	Raghbir Singh S/O Dhan Singh S/O Udaeysingh Vasideh// 26//13/1
182	53//2	Private	Agriculture	0.0025	Surender Singh - Balbinder Singh S/O Ajmer Singh S/O Chatar Singh Har 2 Sambhag 53//2
183	54//17	Private	Agriculture	0.0025	Hukam Singh S/o Lala Singh S/O Dharam Singh 1/5 Bhag Shanti Widow Vae Subhash Chander, Krishan Kumar S/o Krishna - Kavita Devi - Savita Devi D/O Dalip Singh S/O Lal Singh Har 6 Sambhag 1/5 Bhag Chameli Widow & Sushma D/o Satbir - Ranbir S/O Azmer Singh S/O Lal Singh Har 4 Sambhag 1/5 Bhag Ramesh S/O Mahender Singh S/O Lal Singh 1/10 Bhag Usha Devi Wd/O Rajesh Kumar S/O Mahender Singh 1/10 Bhag Sukhbir Singh S/O Lalsingh 1/5 Bhag Vasideh 54//17
184	54//23	Private	Agriculture	0.0278	Darshani S/O Shoran S/O Aasha 49/3491 Bhag Sudeshi D/O Shorn S/O Asha 4/3491 Bhag Suresh S/O Shoran S/O Asha 220/3491 Bhag Rajpal - Pardeep Kumar S/O Suresh S/O Shoran Har Do Sambhag 1609/3491 Bhag Gourav Kumar - Mohit Kumar S/O Suresh Kumar S/O Soran Har Do Sambhag 1609/3491 Bhag Vasideh 54//23
185	299	Common(Gram Panchayat)	Khal	0.0455	Gram Panchayat 299
186	86//9/1/1	Private	Agriculture	0.0011	Subeg Singh - Gurmaej Singh - Sukhvinder Singh S/O Bhagwan Singh S/O Partap Singh Har Teen Sambhag 177/446 Bhag Yashdeep S/O Karnael Singh S/O Seva Singh 31/223 Bhag Manish Kumar S/O Samshaer Singh S/O Seva Singh 31/223 Bhag Rahul S/O Samsher Singh S/O Sewa Singh 26/233

					Bhaag Ajay Kumar - Sahil Kumar S/O Krishn Kumar S/O Seva Singh Har Do Sambhag 31/223 Nerander S/O Malkan Singh S/O Seva Singh S/O 31/446 Bhag Vasideh 86/9/1/1
Viilage: Theh Barela					
187	36//1	Private	Agriculture	0.1543	Randhir Singh S/O Vae Banti Devi D/O Kehra S/O Ramji Lal Har Do Sambhag 2/15 Bhag Taeka S/O Maan Singh S/O Ramji Lal 346/6925 bhag Fulli widow vae Dilbag - Suresh Son Anita - Asharani - Karamjeet kaur d/o Meva ram s/o Man singh har chhe sambhag 346/6925 bhag Sajni Vidhwa Vae Moniya D/O Vae Gurmeet s/o Bansi Lal S/O Kehar Singh Har Teen Sambhag 1/15 Bhag Jile Singh S/O Surjan S/O Ramjilal 1/20 Bhag Khajan Singh S/O Surjan S/O Ramjilal 1591/27700 Bhag Vasideh Jeeto Devi Vidhwa Dalip Singh S/O Maan Singh 346/6925 Bhag Vasi Pai Subae Singh - Lakhmichand - Surander - Rajander S/O Gyani Ram S/O Maan Singh Har Char Sambhag 244/6925 Bhag Mahabir Singh S/O Shaera S/O Ramjilal 1/15 Bhag Chandi Ram - Pala Ram - Krishan Kumar - Vedpal - Vakil S/O Sardara S/O Ramjilal Har Pach Sambhag 1/5 Bhag Jai Bhagwan S/O Jagar Singh S/O Surjan 1/20 Bhag Balbinder Singh - Sukhdev Singh S/O Dalip Singh S/O Surjan Har Do Sambhag 143/5540 Bhag Vasideh Kaelo Devi Vidhwa W/o Dalip Singh Vae Suman - Kusum - Mossam D/O Dalip Singh S/O Surjan Har Char Sambhag 219/6925 Bhag Rahtash - Balbinder S/O Mahabir S/O Shera Har do Sambhag 2/15 Bhag Vasideh 36//1
188	36//10	Private	Agriculture	0.0051	Om pati wd/o Teka s/o deshraj 39/400 bhag Joginder - Pardeep - Satish s/o Teka s/o Deshraj Har teen sambhag 57/80 bhag Bimla Vidhwa Vae Rakesh putr Vae Pooja - Kajal d/o Suresh s/o Teka 19/100 Bhag 36//10
189	113	Common(Gram panchayat)	Khal	0.1416	Gram Panchayat 113
190	37//15	Private	Agriculture	0.0152	Om pati wd/o Teka s/o Deshraj 39/400 bhag Joginder - Pardeep - Satish s/o Teka s/o Deshraj Har teen sambhag 57/80 bhag Bimla Vidhwa Vae Rakesh putr Vae Pooja - Kajal d/o Suresh s/o Teka 19/100 Bhag 37//15

Taluk: Rajound					
Viilage: Mandhwal					
1	122	Private	Rasta	0.0708	Gram Panchayat 122
2	41//1	Private	Agriculture	0.0126	Sukhvinder Kaur Wd/O Veh Karam Jeet Singh - Taranjeet Singh S/O Deedar Singh S/O Chuhad Singh 181/1093 Bhaag Kasmir Singh S/O Singhara Singh S/O Sunder Singh 116/1093 Bhaag Ranjeet Singh S/O Dalbeer Singh S/O Saawl Singh 398/1093 Bhaag Resam Singh - Sikander Pal Singh S/O Ajayab Singh S/O Dalbeer Singh Har Do Sam Bhaag 398/1093 Bhaag vasideh 41//1
3	41//10	Private	Agriculture	0.0607	Sukhvinder Kaur Wd/O Veh Karam Jeet Singh - Taranjeet Singh S/O Deedar Singh S/O Chuhad Singh 181/1093 Bhaag Kasmir Singh S/O Singhara Singh S/O Sunder Singh 116/1093 Bhaag Ranjeet Singh S/O Dalbeer Singh S/O Saawl Singh 398/1093 Bhaag Resam Singh - Sikander Pal Singh S/O Ajayab Singh S/O Dalbeer Singh Har Do Sam Bhaag 398/1093 Bhaag vasideh 41//10
4	41//11	Private	Agriculture	0.086	Sukhvinder Kaur Wd/O Veh Karam Jeet Singh - Taranjeet Singh S/O Deedar Singh S/O Chuhad Singh 181/1093 Bhaag Kasmir Singh S/O Singhara Singh S/O Sunder Singh 116/1093 Bhaag Ranjeet Singh S/O Dalbeer Singh S/O Saawl Singh 398/1093 Bhaag Resam Singh - Sikander Pal Singh S/O Ajayab Singh S/O Dalbeer Singh Har Do Sam Bhaag 398/1093 Bhaag vasideh 41//11
5	41//20/1	Private	Agriculture	0.0809	Jagdish S/O Antu S/O Dharma Rahan Hissa 60/671 Bhag Bila Rahan Hissa 104/671 Bhag Sher Singh - Subhash S/O Khajana S/O Antu Har do Sambhag Rahan Hissa 20/671 Bhag bila rehan hissa 40/671 bhag Paramjeet Kaur W/O Ajeet Singh S/O Singara Singh 40/671 Bhag Seva Singh S/O Atma Singh S/O Nand Singh 40/671 Bhag Murthan Smt. Kitabo Devi W/O Karambeer S/O Antu 223/671 Bhag Mahabeer - Kulwant - Jaspal S/O Sardara S/O Sivkaran Har teen Sambhag 168/671 Bhag Amit Kumar - Manish Kumar S/O Karam Singh S/O Sardara Har do Sambhag 56/671 Bhag Vasideh 41//20/1

6	41//20/2	Private	Agriculture	0.0354	Sukhvinder Kaur Wd/O Veh Karam Jeet Singh - Taranjeet Singh S/O Deedar Singh S/O Chuhad Singh 181/1093 Bhaag Kasmir Singh S/O Singhara Singh S/O Sunder Singh 116/1093 Bhaag Ranjeet Singh S/O Dalbeer Singh S/O Saawl Singh 398/1093 Bhaag Resam Singh - Sikander Pal Singh S/O Ajayab Singh S/O Dalbeer Singh Har Do Sam Bhaag 398/1093 Bhaag vasideh 41//20/2
7	41//21/1	Private	Agriculture	0.1163	Jagdish S/O Antu S/O Dharma Rahan Hissa 60/671 Bhag Bila Rahan Hissa 104/671 Bhag Sher Singh - Subhash S/O Khajana S/O Antu Har do Sambhag Rahan Hissa 20/671 Bhag bila rehan hissa 40/671 bhag Paramjeet Kaur W/O Ajeet Singh S/O Singara Singh 40/671 Bhag Seva Singh S/O Atma Singh S/O Nand Singh 40/671 Bhag Murthan Smt. Kitabo Devi W/O Karambeer S/O Antu 223/671 Bhag Mahabeer - Kulwant - Jaspal S/O Sardara S/O Sivkaran Har teen Sambhag 168/671 Bhag Amit Kumar - Manish Kumar S/O Karam Singh S/O Sardara Har do Sambhag 56/671 Bhag Vasideh 41//21/1
8	41//21/2	Private	Agriculture	0.0304	AJeet Singh S/O Shingara Singh S/O Sundar Singh 23/238 Bhag Kashmir Singh S/O Shingara Singh S/O Sundar Singh 215/238 Bhag Vasideh 41//21/2
9	58//16	Private	Agriculture	0.0025	Smt. Baljeet Kaur Wd/O 53/232 Bhag Mukhtiyar Singh S/O Seva Singh S/O Gopal Singh 309/928 Bhag Palvindra Kaur D/O Seva Singh S/O Gopal Singh 109/928 Bhag Shrimati Rajvinder kaur w/o Sher Singh urf Sawaran Singh S/O Amar Singh 25/116 Bhag Satnam Singh S/O Mela Singh S/O Gurmukh Singh 49/464 Bhag Vasideh 58//16
10	42//1/1	Private	Agriculture	0.1239	AJeet Singh S/O Shingara Singh S/O Sundar Singh 23/238 Bhag Kashmir Singh S/O Shingara Singh S/O Sundar Singh 215/238 Bhag Vasideh 42//1/1
11	42//1/2	Private	Agriculture	0.0632	Sukhvindar Kaur W/O Darshan Singh S/O Mahendar Singh 118/775 Bhag Balvindar Kaur W/O Amrik Singh S/O Mahendar Singh 119/775 Bhaag Mahabir - Kulwant - Jaspal S/O Sardara S/O Shivkaran Har teen Sambhag 3/20 Bhag Amit Kumar - Manish Kumar S/O Karam Singh S/O Sardara Har do Sambhag 1/20 Bhaag Smt Rajkali Wd/O vae Bindar S/O vae Ritu - Beeta

					D/O Beera S/O Kanhiya Har char Sambhag 32/775 Bhag Smt Narender Kaur W/O Indar Singh Harbhajan Singh 98/775 Bhag balvinder kaur urf kulvinder kaur w/o vikramjeet singh s/o jasvinder singh 253/775 bhag Vasideh 42/1/2
12	42//10	Private	Agriculture	0.1669	Sukhvindar Kaur W/O Darshan Singh S/O Mahendar Singh 118/775 Bhag Balvinder Kaur W/O Amrik Singh S/O Mahendar Singh 119/775 Bhaag Mahabir - Kulwant - Jaspal S/O Sardara S/O Shivkaran Har teen Sambhag 3/20 Bhag Amit Kumar - Manish Kumar S/O Karam Singh S/O Sardara Har do Sambhag 1/20 Bhaag Smt Rajkali Wd/O vae Bindar S/O vae Ritu - Beeta D/O Beera S/O Kanhiya Har char Sambhag 32/775 Bhag Smt Narender Kaur W/O Indar Singh Harbhajan Singh 98/775 Bhag balvinder kaur urf kulvinder kaur w/o vikramjeet singh s/o jasvinder singh 253/775 bhag Vasideh 42//10
13	42//11/1	Private	Agriculture	0.0885	Sukhdev Singh - Gurdev singh - Baldev Singh S/O Singara singh S/O Ghasita Singh har teen sambhag Rahan Hissa 1/7 Bhag Chanan Singh S/O Ghasita S/O Prem Singh Rahan Hissa 8/56 Bhag Mahabir - Jaspal S/O Sardara S/O Shivkaran Har do Sambhag Rahan Hissa 18/84 Bhag Amit Kumar - Manish Kumar S/O Karam Singh S/O Sardara Har do Sambhag Rahan Hissa 3/28 Bhag Gurbachan Singh - Natha Singh - Amarjeet Singh - Joginder Singh - Gurbhajan Singh S/O Budh Singh S/O Ghaseeta Har panch Sambhag Rahan Hissa 1/7 Bhag Kulwant S/O Shivkaran Rahan hissa 1/4 Bhag Gurdyal Singh Ishwar Singh S/O Jhanda Singh Vasideh murthan 42//11/1
14	42//11/2	Private	Agriculture	0.0961	Mahabeer - Kulwant - Jaspal S/O Sardara S/O Shivkaran Har teen Sambhag 3/4 Bhag Vasideh Amit Kumar - Manish Kumar S/O Karam Singh s/o sardaara Har do Sambhag 1/4 Vasi Debankheda Gamadi Kaithal 42//11/2
15	58//25	Private	Agriculture	0.0253	Smt. Mahender Kaur W/O Darshan Singh S/O Kapoor Singh Vasi Dachar 58//25
16	61//5	Private	Agriculture	0.0506	Mahender Kaur W/O Darsan Singh S/O Kapoor Singh Vasi Dacchar 61//5
17	61//6	Private	Agriculture	0.0759	Mahender Kaur W/O Darsan Singh S/O Kapoor Singh Vasi Dacchar

					61//6
18	61//15	Private	Agriculture	0.1062	Mahender Kaur W/O Darsan Singh S/O Kapoor Singh Vasi Dacchar 61//15
19	61//16	Private	Agriculture	0.0986	Jagpal Singh S/O gurcharan singh s/o amar singh 231/719 bhag Rajvinder Kaur Wd/O sawaran singh urf sher singh s/o amar singh 136/1438 bhag Harpal S/O Sawaran Singh Urf Sher Singh S/O Amar Singh 86/719 bhag gurvinder singh s/o angrej singh s/o amar singh 334/719 Bhag Vasideh 61//16
20	61//25	Private	Agriculture	0.1366	Jagpal Singh S/O gurcharan singh s/o amar singh 231/719 bhag Rajvinder Kaur Wd/O sawaran singh urf sher singh s/o amar singh 136/1438 bhag Harpal S/O Sawaran Singh Urf Sher Singh S/O Amar Singh 86/719 bhag gurvinder singh s/o angrej singh s/o amar singh 334/719 Bhag Vasideh 61//25
21	251	Private	Rasta	0.129	Gram Panchayat 251
22	76//5	Private	Agriculture	0.1518	Paramjeet kaur w/o sukhvinder singh s/o kashmir singh vasideh 76//5
23	76//6	Private	Agriculture	0.1872	Paramjeet kaur w/o sukhvinder singh s/o kashmir singh vasideh 76//6
24	76//15	Private	Agriculture	0.2479	Gurdeep Singh - Mahindar Singh S/O Chandgi S/O Harphool Har do Sambhag 1/2 Bhag shamsher s/o Ramsaroop S/O Harphool 1/2 Bhag Vasideh 76//15
25	76//16	Private	Agriculture	0.2782	Sukhdev Singh S/O Laabh Singh S/O Prem Singh Vasideh 76//16
26	78//10	Private	Agriculture	0.0152	Ameer Singh - Gurnam Singh S/O Raghbir Singh S/O Singara Singh Har Do SamBhaag Vasideh Tabadla Garndgaan 78//10
27	79//14	Private	Agriculture	0.0008	Charanjeet - Harjinder S/O Balvinder Kaur - Neetu - Seema D/O Dilbag Singh s/O Gurdyal Singh Har Paanch SamBhaag 5/63 Bhaag Simran Kaur Wd/O Vae Charanjeet Kaur - Malit Kaur - Sonavanti - Jasbir Kaur D/O Harbansh Singh S/O Gurdyal Singh Har Paanch SamBhaag 5/63 Bhaag Smt. Manjeet Kaur W/O Ranbir Singh S/O Singara Singh 47/378 Bhaag Malkit Singh - Mukhtyar Singh S/O Harbansh Singh S/O Gudyal Singh Har Do

					SamBhaag 8/21 Bhaag Mahender Singh S/O Puran Singh S/O Gurdyal Singh 101/1134 Bhaag Kulwinder Kaur W/O Vikramjeet Singh S/O Jasminder Swingh 20/81 Bhaag Vasideh 79//14
			TOTAL	16.20215	

[F. No. EC08/07/GF/3a2/3D6]

RAJESH DUPTA, Dy. Secy.